



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 19, 1992 (अग्रहायण 28, 1914)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 19, 1992 (AGRAHAYANA 28, 1914)

इस भाग में विन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं

(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by
the Ministry of Defence)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर, 1992

(मेना शाखा)

मेना चिव्र प्रभाग

मा. 1135, दिनांक 16 नवम्बर, 1992—लोक सेवा
संघ आयोग के नामांकन के आधार पर श्री एन० श्रीकुमार
को न० 2000-60-2300-द० रो० -75-3200-100-
3500 के वेतनमान में दिनांक 30 अक्टूबर, 1992
(पूर्वाह्न) से अस्थाई फोटोग्राफिक ऑफिसर (वर्ग "व"
राजपत्रिन) नियुक्त किया जाना है।

वे दो वर्ष की अवधि तक परखाधीन रहेंगे। यह
अवधि मध्यम अधिकारी के विवेक से घटायी गा बढ़ाई जा
सकती है।

पी० एन० मौलिक,
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सेना शाखा

सं. 1136, दिनांक 20 नवम्बर, 1992—अराष्ट्रपति,
निम्नलिखित की महर्ये नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

(2/लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून, 1992 से)

अजय सिंह डाकुर (आई० सी०-51114 एन),
इन्जीनियर्स ।

मुकेश कुमार (आई० सी०-51115 इन्ज्यू), इन्जीनियर्स ।

रोहित मेहता (आई० सी०-51116 बाई), ए० सी० ।

एप० परमजीत सिंह (आई० सी०-51117 एफ),
इन्जीनियर्स ।

विणाल सिंह (आई० सी०-51118 के), ए० सी० ।

सुनील द्यानदियो फडनीर (आई० सी०-51119 एम),
मिगनल ।

देवराजू (आई० सी०-51120 एफ), सिगनल ।

- विनय कुमार जसवाल (आई० सी०-51121 के), मैक० ।
- नरेन्द्र जीत सिह (आई० सी०-51122 एम), इन्फैन्ट्री ।
- नवदीप दहिया (आई० सी०-51123 पी), इन्फैन्ट्री ।
- संयद सिवातुल हसन रिजबी (आई० सी०-51124 एक्स), इन्फैन्ट्री ।
- समीर सोल्ली (आई० सी०-51125 ए), आर्टिलरी ।
- अभय पाल मिह हन्सी (आई० सी०-51126 एच), इन्जीनियर्स ।
- हरिदयेश कुमार सिह (आई० सी०-51127 एल), इन्फैन्ट्री ।
- विक्रम सिह (आई० सी०-51128 एन), आर्टिलरी ।
- रजत चावला (आई० सी०-51129 डब्ल्यू), सिगनल ।
- मनीष भट्टाचार्य (आई० सी०-51130 एल), इन्फैन्ट्री ।
- मोटू पाण्डे (आई० सी०-51131 एन), इन्फैन्ट्री ।
- पंकज अवस्थी (आई० सी०-51132 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री ।
- विश्वाजीत उपाध्याय (आई० सी०-51133 वाई), इन्जीनियर्स ।
- कैतन्या प्रभु (आई० सी०-51134 एफ), ए० ओ० सी० ।
- अनिल कुमार (आई० सी०-51135 के), इन्फैन्ट्री ।
- श्रीनाम पराग मुरलीधर (आई० सी०-51136 एम), आर्टिलरी ।
- विक्रम गेरा (आई० सी०-51137 पी), आर्टिलरी ।
- राजेश मेहता (आई० सी०-51138 एक्स), ई० एम० ई० ।
- विजय काला (आई० सी०-51139 ए), इन्फैन्ट्री ।
- दिनेश कुमार (आई० सी०-51140 पी), इन्फैन्ट्री ।
- अजय भूषण (आई० सी०-51141 एक्स), ई० एम० ई० ।
- मनीष गुप्ता (आई० सी०-51142 ए), इन्फैन्ट्री ।
- अभिजीत शर्मा (आई० सी०-51143 एच), इन्जीनियर्स ।
- राजेश गुप्ता (आई० सी०-51144 एल), आर्टिलरी ।
- अरविन्द विक्रम सिह (आई० सी०-51145 एन), इन्फैन्ट्री ।
- ज्यामजी यादव (आई० सी०-51146 डब्ल्यू), ए० एस० सी० ।
- अरविन्द कुमार यादव (आई० सी०-51147 वाई), ए० ओ० सी० ।
- रणदीप सिह (आई० सी०-51148 एफ), आर्टिलरी ।
- विनय मलहोत्रा (आई० सी०-51149 के), इन्फैन्ट्री ।
- आशुतोष आनन्द साठे (आई० सी०-51150 वाई), आर्टिलरी ।
- आकाश जौहर (आई० सी०-51151 एफ), इन्फैन्ट्री ।
- विवेक गुप्ता (आई० सी०-51152 के), इन्फैन्ट्री ।
- टी० श्याम सुन्दर (आई० सी०-51153 एम), इन्फैन्ट्री ।
- भरत हुरिया (आई० सी०-51154 पी), ए० एस० सी० ।
- संजय दलाल (आई० सी०-51155 एक्स), इन्फैन्ट्री ।
- दिगंबर प्रताप सिंह (आई० सी०-51156 ए), आर्टिलरी ।
- रविन्द्र सिंह (आई० सी०-51157 एच), इन्फैन्ट्री ।
- सत्यापाल सिन्धू (आई० सी०-51158 एल), ई० एम० ई० ।
- प्रशान्त वाजपेयी (आई० सी०-51159 एन), ई० एम० ई० ।
- सुरेश कुमार शोरन (आई० सी०-51160 एच), इन्फैन्ट्री ।
- कै० लोगानाथन (आई० सी०-51161 एल), इन्फैन्ट्री ।
- अमर दीप सिह कहलोन (आई० सी०-51162 एन), इन्फैन्ट्री ।
- अजय मिश्रा (आई० सी०-51163 डब्ल्यू), आर्टिलरी ।
- अजय महिन्द्रो (आई० सी०-51164 वाई), मैक० ।
- विकास प्रभाकर (आई० सी०-51165 एफ), ए० ओ० सी० ।
- देविन्द्र सिह ढाका (आई० सी०-51166 के), ए० एस० सी० ।
- निखिल जेम्स भट्टाचार्यजी (आई० सी०-51167 एम), आर्टिलरी ।
- सन्तोष वी० (आई० सी०-51168 पी), इन्फैन्ट्री ।
- सुमित मेहता (आई० सी०-51169 एक्स), ए० सी० ।
- बक्षी मनदीप सिह तलवार (आई० सी०-51170 एम), आर्टिलरी ।
- इन्दू प्रकाश मिश्रा (आई० सी०-51171 पी), ए० ओ० सी० ।
- बद्री प्रसाद (आई० सी०-51172 एच), इन्फैन्ट्री ।
- राजेन्द्र नारायण मुतालिक (आई० सी०-51173 ए), इन्फैन्ट्री ।
- दीपिन्द्र पाल मिह (आई० सी०-51174 एच), आर्टिलरी ।
- जीतेन अली (आई० सी०-51175 एल), ए० एस० सी० ।
- शेलेश सती (आई० सी०-51176 एन), इन्फैन्ट्री ।
- गौरव ओबराय (आई० सी०-51177 डब्ल्यू), ए० सी० ।
- जैन पी० वाई० (आई० सी०-51178 वाई), आर्टिलरी ।
- अनुपम अग्रवाल (आई० सी०-51179 एफ), आर्टिलरी ।

विष्णु सिंह सिकाखार (आई० सी०-51180 डल्लू),
इन्फैन्ट्री ।

दन्वरकीर राणा (आई० सी०-51181 एन), ए० एस०
सी० ।

दिनेश चन्द्र दुबे (आई० सी०-51182 एफ), इन्फैन्ट्री ।

संजीव द्विवेदी (आई० सी०-51183 के), इन्फैन्ट्री ।

मुरेश सिंह पेंगल (आई० सी०-51184 एम), इन्फैन्ट्री ।

सुरेश कुमार (आई० सी०-51185 पी) मिशनल ।

मनजीत मिह मनवाल (आई० सी०-51186 पी),
इन्फैन्ट्री ।

पवनमीत मिह बिन्दा (आई० सी०-51187 ए), ई०
एम० ई० ।

मनीष तिवारी (आई० सी०-51188 एच), इन्फैन्ट्री ।

पंकज समरवाल (आई० सी०-51189 एल), मंक० ।

राजीव चांहान (आई० सी०-51190 ए), आर्टिलरी ।

जी० मनोज (आई० सी०-51191 एच), ई० एम० ई० ।

मोहन दीप मिह दुधन (आई० सी०-51193 एन),
आर्टिलरी ।

राम प्रताप नैन (आई० सी०-51194 डल्लू),
आर्टिलरी ।

तरन्द्र प्रताप सिंह (आई० सी०-51195, (मिशनल ।

राजेन्द्र सिंह पुसा (आई० सी०-51196), आर्टिलरी ।

सितेन्द्र मिह गाढ़ (आई० सी०-51197 के) ए० ओ०
सी० ।

वृस्ती सी सी० फरनाडेज (आई० सी०-51198 एम),
इन्फैन्ट्री ।

बसन्त चिह (आई० सी०-51199 पी) इन्फैन्ट्री ।

पुष्पेन्द्र मेयर (आई० सी०-51200 वाई) मिशनल ।

अनीष कुमार पटेगिया (आई० सी०-51201 एफ) इन्फैन्ट्री,

भानू खना (आई० सी०-51202 के), ए० सी० ।

नरेन्द्र मिह नेगी (आई० सी०-50203 एम), इन्फैन्ट्री ।

रितेप खना (आई० सी०-50204 पी), ए० सी० ।

दीपक मोहन आनन्द (आई० सी०-51205 एक्स),
मिशनल ।

सुमीत शर्मा (आई० सी०-51206 ए), ए० सी० ।

निश्चल चह (आई० सी०-51207 एच), आर्टिलरी ।

सजय जग्गी (आई० सी०-51208 एल), ए० एम० सी० ।

ए० पी० अरुल (आई० सी०-51209 एन), मिशनल ।

नीरज गुप्ता (आई० सी०-51210 एच), इन्फैन्ट्री ।

देशपाण्डे विक्रान्त सुरेश (आई० सी०-51211 एल),
इन्फैन्ट्री ।

मनमोहन सिंह (आई० सी०-51212 एन), ए० एस०
सी० ।

सचिन शरद कुलकर्णी (आई० सी०-51213 डल्लू),
इन्फैन्ट्री ।

जयज कुमार अहजा (आई० सी०-51214 वाई), इन्फैन्ट्री ।

मनीश कुमार (आई० सी०-51215 एफ), आर्टिलरी ।

टी० बी० प्रदीप कुमार (आई० सी०-51216 के), इन्फैन्ट्री ।

मनजीत मिह (आई० सी०-51217 एम), इन्फैन्ट्री ।

परमनीत मिह (आई० सी०-51218 पी), आर्टिलरी ।

अशोक कुमार (आई० सी०-51219 एक्स), आर्टिलरी ।

राजेश गंगालाकुल्लन (आई० सी०-51220 एम),
इन्फैन्ट्री ।

अनिल पण्डित (आई० सी०-51221 पी), ए० सी० ।

रजीश गभीर (आई० सी०-51222 एक्स), आर्टिलरी ।

रजन गुप्ता (आई० सी०-51223 ए), आर्टिलरी ।

दीपक रंजन रेत (आई० सी०-51224 एच), इन्ट० ।

गुप्तल लक्ष्मी (आई० सी०-51225 एल), ए० एम० सी० ।

मुशोन चन्द्र चोधरी (आई० सी०-51226 एन), इन्फैन्ट्री ।

बमल नंदनग बढ़ (आई० सी०-51227 डल्लू), आर्टिलरी ।

जनवीर मिह दीवान (आई० सी०-51228 वाई),
आर्टिलरी ।

कुरदायप मिह कनामा (आई० सी०-51229 एफ), इन्फैन्ट्री ।

राजेश जय विविध ओहोन (आई० सी०-51230 डल्लू), आर्टिलरी ।

अतुल बमजाइ (आई० सी०-51231 वाई), ई० एम०

आशीष कुमार (आई० सी०-51232 एफ), इन्फैन्ट्री ।

गमीर श्रीवास्तव (आई० सी०-51233 के), इन्फैन्ट्री ।

लविन्द्र जीत मिह विष्णु (आई० सी०-51234 एम),
इन्फैन्ट्री ।

समर सिंह चन्देल (आई० सी०-51235 पी), इन्फैन्ट्री ।

गुर्वीर मिठ (आई० सी०-51236 एक्स), आर्टिलरी ।

अब्दुल हमीद (आई० सी०-51237 ए), इन्फैन्ट्री ।

दम बहादुर गुर्ग (आई० सी०-51238 एच), इन्फैन्ट्री ।

अनिल यादव (आई० सी०-51239 एल), आर्टिलरी ।

मलील मेठ (आई० सी०-51240 ए), मंक० ।

ए० प्रसन्ना वेकटेस्वरन (आई० सी०-51241 एच),
आर्टिलरी ।

राकेश सिंह (आई० सी०-51242 एल), इन्फैन्ट्री ।
 प्रभात भण्डारी (आई० सी०-51243 एन), ए० सी० ।
 विजय नना राजकुमार (आई० सी०-51245 वाई),
 ए० एस० सी० ।
 राहुल शर्मा (आई० सी०-51246 एफ), आर्टिलरी ।
 मनीष बकरी (आई० सी०-51247 ए), ए० ओ० सी० ।
 मनीष कुकर (आई० सी०-51248 एम), ए० एस० सी० ।
 विनोद पिल्ले (आई० सी०-51249 पी), इन्फैन्ट्री ।
 आशीम कालरा (आई० सी०-51250 के), ई० एम० ई० ।
 आशुतोष कुमार सिंह (आई० सी०-51252 पी), इन्फैन्ट्री ।
 नरेन्द्र कुमार (आई० सी०-51253 एक्स), आर्टिलरी ।
 विनोत द्विवेदी (आई० सी०-51254 ए), ए० ओ० सी० ।
 राजेश सिंह (आई० सी०-51255 एच), आर्टिलरी ।
 जयवीर सिंह (आई० सी०-51256 एल), इन्फैन्ट्री ।
 हरीश कुमार सेठी (आई० सी०-51257 एन), ए० सी० ।
 प्रताप सिंह जौहल (आई० सी०-51258 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री ।
 इन्द्रजीत सिंह मान (आई० सी०-51259 वाई), ए०
 एस० सी० ।
 धननजय मेहता (आई० सी०-51260 एन), सिगनल ।
 समीर सरन कार्तिके (आई० सी०-51261 डब्ल्यू),
 इन्फैन्ट्री ।
 संजय कुमार (आई० सी०-51262 वाई), आर्टिलरी ।
 दिनेश कुमार त्यागी (आई० सी०-51263 एफ), ए०
 ओ० सी० ।
 गोरे विनायक विष्णु (आई० सी०-51264 के), आर्टिलरी ।
 निजय कुमार सिंह (आई० सी०-51266 पी), ए० ओ०
 सी० ।
 अद्विलेश कुमार (आई० सी०-51267 एक्स), इन्फैन्ट्री ।
 रवि यादव (आई० सी०-51268 ए), ए० सी० ।
 परमित्तर सिंह (आई० सी०-51269 एच), आर्टिलरी ।
 सौरफ जैन (आई० सी०-51270 एक्स), ई० एम० ई० ।
 मनीष गुप्ता (आई० सी०-51271 ए), इन्फैन्ट्री ।
 मुधीर चौहान (आई० सी०-51272 एच), इन्फैन्ट्री ।
 जोगेन्द्र सिंह (आई० सी०-51274 एम), मैक० ।
 रमेश श्रीकान्त (आई० सी०-51275 डब्ल्यू), आर्टिलरी ।
 हरषीत सिंह कालिया (आई० सी०-51276 वाई),
 इन्फैन्ट्री ।
 जुबीत भट्टाचार (आई० सी०-51277 एफ), इन्फैन्ट्री ।
 कोपूरी विजया प्रसाद (आई० सी०-51278 के), इन्फैन्ट्री ।

आशुतोष पराशर (आई० सी०-51279 एम), इन्फैन्ट्री ।
 मनीष मिश्रा (आई० सी०-51280 एफ), इन्फैन्ट्री ।
 राहुल शर्मा (आई० सी०-51281 के), इन्फैन्ट्री ।
 महेंद्र धर्मवीर (आई० सी०-51282 एम), इन्फैन्ट्री ।
 नवनीत सिंह खेडा (आई० सी०-51283 पी), ए० एम०
 सी० ।
 धूब चौधरी (आई० सी०-51284 एक्स), ई० एम० ई० ।
 ओम प्रकाश जंगिद (आई० सी०-51285 ए), आर्टिलरी ।
 जगमीत सिंह (आई० सी०-51286 एच), ए० सी० ।
 मिलटन बोवन कुरियन (आई० सी०-51288 एन),
 इन्फैन्ट्री ।
 लक्ष्मी कान्त अग्रवाल (आई० सी०-51289 डब्ल्यू),
 आर्टिलरी ।
 आधीम कालरा (आई० सी०-51290 एल), ए० ओ०
 सी० ।
 मलम उनियाल (आई० सी०-51291 एन), आर्टिलरी ।
 शेखर गुप्ता (आई० सी०-51292 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री ।
 मन्दीप शर्मा (आई० सी०-51293 वाई), ई० एम० ई० ।
 गविन्द सिंह नन्दल (आई० सी०-51294 एफ), इन्फैन्ट्री ।
 डेनियल लोटजम (आई० सी०-51295 के), मैक० ।
 नवनापातेनी श्रीनिवासाल (आई० सी०-51296 पीम),
 इन्फैन्ट्री ।
 अहण कमार शर्मा (आई० सी०-51297 पी) आर्टिलरी,
 प्रमोद सिंह (आई० सी०-51298 एक्स) आर्टिलरी ।
 सोम नाथ गुप्ता (आई० सी०-51399 ए) आर्टिलरी ।
 रोमिल शर्मा (आई० सी०-51300 के) इन्फैन्ट्री ।
 जितेन्द्र कुमार मलिक (आई० सी०-51301 एम),
 इन्फैन्ट्री ।
 अनिल तहलन (आई० सी०-51302 पी) इन्फैन्ट्री ।
 सुमित पत्त (आई० सी०-51303 एक्स) इन्फैन्ट्री ।
 मंजीव सिंह (आई० सी०-51304 ए) इन्फैन्ट्री ।
 अशोक मनोचा (आई० सी०-51305 एच) ए० ओ०
 सी० ।
 राहुल भार्गव (आई० सी०-51306 एन) ई० एम० ई० ।
 मेनन राजेश दूर्दिकाय (आई० सी०-51307 एन),
 सिगनल ।
 जुल्फकार हुसैन जाका (आई० सी०-51308 डब्ल्यू),
 आर्टिलरी ।
 मंजय भारद्वाज (आई० सी०-51309 वाई) आर्टिलरी ।

हरी सिंह विष्ट (आई सी-51310 एन) सिन्हल।
अनीमेष शरण (आई सी-51311 डब्ल्यू) ए.सी.।
उन्नम कोटेश्वरा राव (आई सी-51312 वाई),
ए० एस० सी०।
नवतेज सिंह कल्थी (आई सी०-51314 के) आटिलरी।
शशी भूषण राणा (आई सी०-51315 एम) इन्फैन्ट्री।
जी० सुनील कुमार (आई सी०-51316 पी) इन्फैन्ट्री।
आदित्य चौधरी (आई सी०-51317 एक्स) इन्फैन्ट्री।
रविन्द्र सिंह (आई सी०-51318 ए) इन्फैन्ट्री।
गौरव किरण काशीराम (आई सी०-51319 एच),
इन्फैन्ट्री।
वीरेन्द्र सिंह (आई सी०-51320 एक्स) इन्फैन्ट्री।
अमित सक्सेना (आई सी०-51321 ए), ए० एस०
सी०।
मनीष रौथम (आई सी०-51322 एच) इन्फैन्ट्री।
हर्ष अहलावत (आई सी०-51323 एल) ए० सी०।
संजय पाठक (आई सी०-51324 एन) ए० एस० सी०।
नेल जौन (आई सी०-51325 डब्ल्यू) ए० सी०।
खोद्दसनाम बिमोल कुमार तिह (आई सी०-52326
वाई) इन्फैन्ट्री।
राजीव गुप्ता (आई सी०-51327 एफ) आटिलरी।
विवेक कोष्ठर (आई सी०-51328 के) इन्फैन्ट्री।
संजय कुमार सिंह (आई सी०-51329 एम) ई० एम०
ई०।
दीपू दमन मिह (आई सी०-51330 एफ) इन्फैन्ट्री।
अमृत पाल मिह नन्ध (आई सी०-51331 के),
ए० एस० सी०।
गौतम दास (आई सी०-51332 एम) आटिलरी।
ओन प्रदाश (आई सी०-51333 पी), इन्फैन्ट्री।
रिति वृत्तो सेनगुप्ता (आई सी०-51334 एक्स),
आटिलरी।
देशराज मिश्रा (आई सी०-51335 ए) आटिलरी।
विनाश नवनपाल (आई सी०-51336 एच) सिन्हल।
भास्कर गुप्ता (आई सी०-51337 एच) आटिलरी।
धर्मेन्द्र यादव (आई सी०-51338 एन) आटिलरी।
ज्ञा अरुण कुमार पीताम्बर (आई सी०-51339
डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री।
जोस अब्राहम (आई सी०-51341 एन) इन्फैन्ट्री।
दिव्यविजय पाल सिंह यादव (आई सी०-51342 डब्ल्यू),
इन्फैन्ट्री।

मनोज कुमार शर्मा (आई सी०-51343 वाई),
ए० ओ० सी०।
राजसेधरन एम० सी० (आई सी०-51344 एफ)
इन्फैन्ट्री।
सुदीप मुखर्जी (आई सी०-51345 के) आटिलरी।
शेखर अरोड़ा (आई सी०-51346 एम) ए० सी०।
हरवीर तिह पन्न (आई सी०-51347 पी) ए० सी०।
संजय चौधरी (आई सी०-51348 एक्स) ई० एम० ई०।
अजय बातीष (आई सी०-51349 ए) ए० ओ० सी०।
त्रिवेण यादव (आई सी०-51350 पी) इन्फैन्ट्री।
विजयन एम० पी (आई सी०-51351 एक्स) इन्फैन्ट्री।
अजय पाण्ड (आई सी०-51352) ए० एस० सी०।
विजय सिंह (आई सी०-51353 एच) इन्फैन्ट्री।
थंगजम होमेश्वर लुवांचा (आई सी०-51354 एल),
इन्फैन्ट्री।
समीर भल्ला (आई सी०-51356 डब्ल्यू) सिन्हल।
अजय उनियाल (आई सी०-51357 वाई) इन्फैन्ट्री।
सुनीत वर्मे (आई सी०-51358 एफ) इन्फैन्ट्री।
मनीष वर्मा (आई सी०-51361 एफ) ए० ओ० सी०।
वीरेण (आई सी०-51362 के) मैक०।
राजीव गोयल (आई सी०-51363 एम) ए० ओ० सी०।
ओम पकाश (आई सी०-51364 पी) इन्फैन्ट्री।
नीरज शर्मा (आई सी०-51365 एक्स) आटिलरी।
नरदीप सिंह भरोन (आई सी०-51366 ए) इन्फैन्ट्री।
कोशिक चत्रवर्ती (आई सी०-51367 एच) ई० एम०
ई०।
गौरव माथुर (आई सी०-51368 एल) आटिलरी।
प्रशान्त नाकरा (आई सी०-51369 एन) ए० सी०।
मती लिरी जिरेन्द्र पाण्डुरंग (आई सी०-51370
एच) आटिलरी।
दिनश कुमार विष्ट (आई सी०-51371 एल) मैक०।
पारम मेहरा (आई सी०-51372 एन) इन्फैन्ट्री।
अमल गौतम (आई सी०-51373 डब्ल्यू) आटिलरी।
मिलिंद श्यामसुन्दर रोसर (आई सी०-51374
वाई) सिन्हल।
जीवन रावल (आई सी०-51375 एफ), इन्फैन्ट्री।
हरिश्चोम तिह राठौर (आई सी०-51376 के) आटिलरी।
गोपाल तिह चौहान (आई सी०-51377 एम) इन्फैन्ट्री।
शुभयजीत सिरकार (आई सी०-51378 पी) इन्जीनियर्स
आलोक कुमार (आई सी०-51379 एल) इन्फैन्ट्री।

अब्देश कुमार पाठक (आई. सी.-51380 एम) ई० एम०
ई० ।

अमरिन्द्र जीत सिंह (आई. सी.-51381 पी) आटिलरी।

रामजी आदिमाटला (आई० सी०-51382 एक्स),
आटिलरी ।

जितेन्द्र सिंह बाथ (आई० सी०-51383 ए) इन्फॉन्ट्री ।

कोटा राम कृष्ण (आई० सी०-51384 एच) इन्फॉन्ट्री । ।

अखिल अग्रवाल (आई० सी०-51385 एल) सिगनल ।

रघिन्द्र सिंह पन्नू (आई० सी०-51386 एन) इन्फॉन्ट्री

बीरेन्द्र मिह गहलावत (आई० सी०-51387 डब्ल्यू),
इन्फॉन्ट्री ।

अनुराग चौधरी (आई० सी०-51388 बाई)
ए० एस० सी० ।

शिव भंगल मिश्रा आई० सी०-51389 एफ) सिगनल ।

सन्दीप श्रीवास्तव (जाई० सी०-51390 डब्ल्यू) ए० सी० ।

वैद्य सुधीर पाण्डुरंग (आई० सी०-51391 बाई),
इन्फॉन्ट्री ।

वर्षन सिंह परमार (आई० सी०-51392 एफ) आटिलरी ।

सोमवित धोष (आई० सी०-51393 के) इन्फॉन्ट्री और

राजीव कुमार पाधना (जाई० सी०-51394 एम),
इन्फॉन्ट्री ।

झौ० सी० कटोच,
ने कर्नल ए० एम० एस० (आई० सी०) ।

सं० 1137 दिनांक
निम्नलिखित नियमितया करते हैं ।—

नियमित सेना।

विशेष मूच्छी

तोपद्वाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के पद में

(14458388 एटा) दूशलदार लक्ष्मी मन्दी लाल (जे० सी०-255001 एम)—10 जुलाई 1992 ।

नुरेन्द्र नारायण पाण्डे (जे० सी०-255002 पी)—
10 जुलाई 1992 ।

प्यारा सिंह (जे० सी०-255003 एक्स),—10 जुलाई,
1992 ।

मुरेश कुमार मिवारी (जे० सी०-255004 ए)—10
जुलाई 1992 ।

राम गरेग तिघारी (जे० सी०-255005 एच)—10
जुलाई 1992 ।

मनी नाथ मिश्रा (जे० सी०-255006 एल)—10
जुलाई 1992 ।

राम बल द्विवेदी (जे० सी०-255007 एन)—
10 जुलाई 1992 ।

नरेन्द्र सिंह,
डैस्क अधिकारी

—
(नेवी ब्रांच)

नौसेना मुख्यालय

सं० 1138 दिनांक 16 अक्टूबर 1992—निम्नलिखित
सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सशरथ सेना मुख्यालय
एवं आशुलिपिक समूह "क" (निजी सचिव) उनके नाम के
सामने लिखाई गई तिथि से लम्बी अवधि के आधार पर
अगले आदेशों तक स्थानापन्त सिविलियन स्टाफ अधिकारी
नियुक्त किय जाते हैं :—

श्री के० सी० राधवन—19 अक्टूबर 1992 ।

श्री भगवान सिंह—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री बी० सतीण कुमार—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री एस० के० मारवाह—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री बी० डी० जाटव—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री के० एस० सचदेवा—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री जे० ए० रामामृती—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री जी० के० पाण्डे—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री आर० बी० चंपड़ा—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री जनबीर सिंह—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री एस० के० जसरा—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री जानती प्रसाद—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री आर० आर० दुलारिया—16 अक्टूबर 1992 ।

श्री झौ० चन्द्र—16 अक्टूबर 1992 ।

निम्नलिखित सिविलियन स्टाफ अधिकारियों को दिनांक
02 सितम्बर 1992 से स्थानापन्त आधार पर अगले
आदेशों तक स्थान सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयनित
श्रेणी अधिकारी (एस० सी० एस० ओ०) नियुक्त किया
जाता है :—

श्री दिलीप कुमार ।

श्रीमती रेणु के० राज० ।

श्री एस० एम० मेठी ।

श्री सी० आर० मालावाणिया ।

श्री एम० एन० अजगर ।

पी० एन० मौलिक,

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी,

वायु शास्त्र

वायु शाखा

सं० 1139 दिनांक 16 नवम्बर 1992—राष्ट्रपति, भारत भरकार रक्षा मन्त्रालय के पक्ष संख्या वा० से० मु०/22258/पी० ओ० 3(ए)/474/डी० आई० ए०/डी० (एयर-III) दिनांक 27 मार्च 1985 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसरों को अल्पकालीन सेवा कमीशन (स्थाई) को समाप्त करने के बाद उनके नाम के सामने दी गई तारीख से रथायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रोनिक्स)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट एस० एल० शिवा प्रसाद (18667) — 19 अगस्त 1992 से ।

फ्लाईट लेफ्टिनेंट एस० गोर (18040) — 26 अगस्त, 1991 से ।

फ्लाईट लेफ्टिनेंट आई० पी० एस० भाटिया (18036) — 26 अगस्त 1991 से ।

राष्ट्रपति भारत भरकार रक्षा मन्त्रालय के पक्ष संख्या वा० से० मु०/22258/पी० ओ० 3 (ए)/474/डी० आई० ए०/डी० (एयर-III) दिनांक 27 मार्च, 1985 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसरों को अल्पकालीन सेवा कमीशन (स्थाई) को समाप्त करने के बाद उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से स्थाई कमीशन प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रोनिक्स)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट ए० के, सिंह (18228) फ्लाईट लेफ्टिनेंट एस० पलानीचामी (18231), प्लाईट लेफ्टिनेंट आर० जी० कुलकर्णी (18236) दिनांक 17 फरवरी 1992 से ।

फ्लाईट लेफ्टिनेंट ए० बी० बी० बी० रांव (18242) — दिनांक 18 फरवरी, 1992 से ।

फ्लाईट लेफ्टिनेंट आर० सी० प्रसाद (18685), फ्लाईट लेफ्टिनेंट आर० बी० एस० यादव (18686) और फ्लाईट लेफ्टिनेंट आर० एस० जून, (18687) — 01 मई, 1992 से ।

वैमानिक इंजीनियरिंग (मैकेनिकल्स)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट एस० जड़ हुसैन (18241), दिनांक 17 फरवरी, 1992 से ।

फ्लाईट लेफ्टिनेंट एस० भानोजी शव (18243), फ्लाईट लेफ्टिनेंट बी० के० गुप्ता (18244), फ्लाईट लेफ्टिनेंट एस० कुमार (18245), फ्लाईट लेफ्टिनेंट एस० प्रेम कुमार (18246), और फ्लाईट लेफ्टिनेंट जी० राजेन्द्र कुमार (18247) दिनांक 21 फरवरी, 1992 से ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित पायन्त्र अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अन्तम अल्पकालीन सेवा कमीशन

छोड़ने की अनुमति प्रदान करते हैं । और उन्हें भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय पक्ष संख्या वा० से० उ० 22258/1 प० ओ० 3(ए)/1611/डी० आई० ए०/डी० (एयर-III) तारीख 19 अक्टूबर, 1982 के पैरा 4 तथा वा० से० जून, 2/73 के पैरा 15 के अनुवंशों के अन्तर्गत उत्तरी तारीख से स्थानी नामांगण (परप्रधीन) प्रदान होते हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रोनिक्स)

राजीव श्रीवास्तवा (21112), फारुह फरीद नाथी (21113), वाकु गोन (21114), मुरोंदा चड्डर्णी (21115), पर्वीन लालन शाहन्द (21116), राकेश कुमार शर्मा (21191), मुरीन रवा टपास्टी (21198) दिनांक 9 मार्च, 1992 से ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित पायन्त्र अफसरों को उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से अल्पकालीन सेवा कमीशन (प्रवाधीन) छोड़ने की अनुमति देते हैं । उन्हें वा० से० अनुदेश 2/73 के अन्तर्गत उत्ती तारीख से स्थायी कमीशन (प्रवाधीन) करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रोनिक्स)

गंगीग के० (21089), रवी भावेना (21098), अनीन जोन थरकून (21099), त्रिवेन अरोन्दिन पाठक (21102), पटेन पराण रमेश भाई (21103), जजव गोर (21104), विजय कुमार चतुर्वेदी (21105), परमजीत सिंह सैनी (21106), अनरिंद्र सिंहु (21107), परातीक गुजाव पहन्त (21109), संदीप महरोत्ता (21110), अमिन अग्रवाल (21111), रफीक हुसैन (21184), चरनजीत सिंह चावला (21192), अंजीरा सिंह (20837) दिनांक 09 मार्च, 1992 से ।

वैमानिक इंजीनियरिंग (मैकेनिकल)

सुरेन्द्रन ई० आर० (21080), मुकुमरा आनन्द दास (21081), नोतावाकेरा अनन्धारानू बद्रीनाथ (21082), देवराज वेंकटाराजन्तु (21083), विवेकानन्द प्रकाश घोरसे (21084), राकेश रोगन पंच (21085), गोरीजाला महेश कुमार (21086), वेदानली रवी संवत्सरायगा राजू (21162), वेंकटचलम चन्द्रा सेखर (21174), कोदुरी अलारव (21175), अदी शंकर कुमार रायगरोलू (21196), अरवीन्द कुमार (21197) दिनांक 9 मार्च, 1992 से ।

राष्ट्रपति, भारत भरकार रक्षा मन्त्रालय के पक्ष संख्या वा० से० मु०/22258/पी० ओ० 3(ए)/474/डी० आई० ए०/डी० (एयर-III) तारीख 27 मार्च, 1985 के उपर्युक्त

के अधीन निम्नलिखित को पायलट अफसर के रैक में अन्तिम अल्पकालिन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेवा

वैमानिक इंजिनियरिंग (इलैक्ट्रीक)

चन्द्रम प्रसुरामन (21768), जोश मोरीश चोहनान (21769), राजगोपाला गोपालाकृष्णन (21770), प्रमेस्य जौन (21771), आई० एस० पोन रवी (21772), सोनी अमदोनी (21773), श्रीनिवाश के० (21774), बसुचमी उदय कुमार (21775), सटीकन जोर्ज (21776), किशोर कुमार काट (21777), गोरगे कुट्टी जोसफ नजीनदीमकल (21778), विनय कुमार शर्मा (21779) प्रभाकरन नायर पदमदास (21780), टी० पिरिधर (21781), दामोदरन श्री कुमार (21782) वेन्नास भारद्वाज (21783), मोहन भोपाल एम० (21784), अमितवा यानगोली (21785), नीतेशन इलन्नो (21786), बीनू जडोब (21787), वचारजानी प्रनाव कानकरे (21788), भगवन सिंह सराहदी (21789), अमित बन्सल (21790), देवेन्द्रा सिंह सेखावत (21791), दिनांक 9 मार्च, 1992 से ।

थोमस वरणीश (21792), दिनांक 20 मार्च, 1992 से ।

कोमरल वन्कटाचला गुप्ता पालीराजू (21893) दिनांक 16 मार्च, 1992 से ।

थोमस ओमन (21804) दिनांक 21 मार्च, 1992 से ।

यूदातू वन्कटा रत्ना कुमार (21805), दिनांक 23 मार्च, 1992 से ।

महेन्द्रा कुमार व्यास (21806), दिनांक 30 मार्च, 1992 से ।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22258/पी० ३० ३(ए)/474/डी० ३० आई० ए०/डी० (एयर-3) तारीख 27 मार्च, 1985 के उपर्योगों के अन्तर्गत निम्नलिखित पायलट का अन्तिम अल्पकालिन कमीशन, उनके नाम के सामने दी गई तारीख से शानान करते हैं तथा उसी तारीख से उन्हें पायलट अफसर के रैक में अल्पसेवा कमीशन (स्थायी) प्रदान करते हैं :—

कोले तेजनारामण राव (20022)—6 मार्च, 1989 से ।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 4(4)/90/-डी० (एयर-III) तारीख 18 जुलाई, 1991

के उपर्योगों के अन्तर्गत निम्नलिखित को 10 जून, 1992 ने अंतिम अल्पकालीन कमीशन प्रदान करते हैं :—

पासेन्जिक शाव्वा

(भूतर्वं पनार्डिं हैडटों को पायलट अफसर की रैक में)

सिवादासन बाहुकद्दन (21921), कौशिक वंडोगाध्याय (21922), अविनाश इन्वेरिया (21923), बक्षी पृष्ठपराज छीब्बर (21924), अर्जून संगी आप्पन (21925), संजय कुमार राडौर (21926), दिनेश कुमार सिंह (21927), पार्था आचार्य (21928), परमजीत सिंह (21929), संजीव कुमार सिंह (21930), दविंदर सिंह मलिक (21931), किरण कृष्णा नायर (21932), संजय कुमार (21933), सतिन्द्र सिंह (21934), राजेश पी० एन० (21935), प्रोवीर नित्यरंजन दास (21936), रामेश्वर सर्विनं (21937), संतोष कुमार धानी (21938), राजीव कुमार ज्ञा (21939), गिरीष राव (21940), राजीव दास (21941), उत्तमद राव श्रीनाथ (21942), ही० जौर्ज कोशी (21943), शिव प्रसाद सती (21944), विश्वजीत मिश्रा (21945), विनोद कुमार पाठक (21946), आनन्द जनादेव लामछड़े (21947), मुथुवेंकटेशन नागाराजन (21948), आकाशदिप माधुर (21949), मनोज कुमार गोगई (21950) कोंडापुरी साई सुमन (21951), कोक्षीपुराथ वेनूगोपाल (21952), अजय कुमार पाण्डेय (21953), रणबीर बैनर्जी (21955), ए० इवेनेजर (21956), मनोज मेहता (21957), हरेन्द्र सिंह (21958), अनंत गडेपल्ली (21959), पराग रमेश चीटनवीस (21960), इंदरजीत सिंह हन्सपाल (21961), शशीकान्त बाजपेयी (21962), फैजल फाईस मेशेलवाथू पणाग्रोम (21963), उदय जगन्नाथ कुलकर्णी (21964), बीजू मैथू कुरीकुट (21965), अश्वोनी कुमार पुन्हीर (21966), और वेंकटा लक्ष्मण कुमार ग्रनुकुला (21967)—10 जून, 1992 से ।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 20० से० मु०/22258/1/पी० ३० ३(ए)/1611/डी० ३० आई० ए०/डी० (एयर-III) तारीख 19 अक्टूबर, 1982 के उपर्योगों के अन्तर्गत निम्नलिखित यू० ई० एस० डिनिंदारो की भारतीय वायुसेवा में पायलट अफसर के रैक में अंतिम अल्पकालिन तो० कमीशन प्रदान करते हैं :—

वैमानिक इंजीनियरिंग (ईलैक्ट्रोनिक्स)

पारीतोप अश्रवाल (21760), संजय दुबे (21761), गोतम चक्रवर्ती (21762), वीजय कुमार गुप्ता (21763), दिनांक 9 मार्च, 1991 से ।

राष्ट्रपति, वा० से० अनदेश 2/73 के उपबंध के अन्तर्गत निम्नलिखित को पायलट अफसर के रैक में अल्पकालीन सेवा कमीशन (परम्पराधीन) प्रदान करते हैं :—

रजनेश कुमार (21734), सतीश कुमार पिलो (21735), प्रेम नाथ शर्मा (21736), धुकमन (21737) पदमानाभान बैन्गोपाल (21738), हीमानशु गोपाल (21739), गुरविन्द्र सिंह बरमी (21740), दिल्ली रंजन मिश्रा (21741), सायदू पी. (21742), पनम्गान गणेशन (21743), माहूनडोज पुनकुन्दन (21744), नामयापूरम भरणिमहा कुमार (21745), जसवीर सिंह बेदी (21746), मनीष श्रीनगरन (21747), भानु अजीत राज दिनकर (21748), श्री कण्णन रघुपति (21749), काले अमेजित विद्यधर (21750), भास्कर भट्टचार्य (21751), पोदा कान्तीक इमनदा' (21752), स्थानद्वारा भारद्वाजा (21753), भवय कुमार यादव (21754), रामसभद्वारा अन्नथार्मी रंजन राम (21755), राजू कोलेडी भनन् (21756), अनुप बहल (21757) अलोक कुमार श्रीवास्तवा (21758), इन्द्रगन्धी वर्गी (21759), उन्नीकुण्ठन थार० एरा० (21764), राजीव मोहन जा० (21766), और रंजीत कुमार (21767) दिनांक 9 मार्च, 1992 से ।

एम० विरेन्द्र रेडी (21765) दिनांक 11 मार्च, 1992 से ।

यिम्माप्पा नरेश कुमार (21802) दिनांक 27 मार्च, 1992 से ।

राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय, के पक्ष संख्या/22258/पी० ओ० 3(ए) 474/डी० ओ० आई० ए०/डी० (एयर-III) दिनांक 27 मार्च, 1985 के उपबंधों के अन्तर्गत, निम्नलिखित पायलट अफसर का अन्तिम अल्पकालीन कमीशन, उनके नाम के सामने दी गई तारीख से समाप्त करते हैं । तथा उसी तारीख से उन्हें पायलट अफसर के रैक में अल्पसेवा कमीशन (स्थायी) प्रदान करते हैं ।

वैष्ण संदीप प्रभाकर (20708), दिनांक 02 अप्रैल, 1990 से ।

एच० वी० शर्मा,
स्कवार्डन लीडर, ए०डी०पी०ओ० 3(डी)

वायु शाखा

स० 1140 दिनांक 16 नवम्बर, 1992—राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय के पक्ष संख्या वा० से० मु०/

2-374 GI/92

22258/पी० ओ० 3(ए) 474/डी० ओ० आई० ए०/डी० (एयर-JII) दिनांक 27 मार्च, 1985 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसर को अल्पकालीन सेवा कमीशन (स्थायी) की अवधि पूर्ण होने के पश्चात उसके नाम के सामने दी गयी तारीख से अवधि का अधिकार बढ़ा दिया गया है :—

वैमानिक इंजीनियरिंग (सैकेनिकल)

फ्लाईट लेफिटेंट जी० एम० श्रीनवी (18030)---
20 अगस्त, 1991 से ।

वैमानिक इंजीनियरिंग (इंजीनियरिंग)

फ्लाईट लेफिटेंट एम० लार० मिनद्वाल (18233)---
17 फरवरी, 1992 से ।

एच० पी० शर्मा,
स्कवार्डन लीडर, ए०डी०पी०ओ० 3(डी)

रक्षा उत्पादन नथा आयुर्विंशति विभाग

स० 1141, दिनांक 25 पिंग्वर, 1992—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

वा० गु० आ० स्था० (इन्फ०) सिकन्दराबाद के फोरमैन श्री एम० के० जोसफ दिनांक 17 जुलाई, 1992 (पूर्वाह्न) से दो साल की परिवीक्षा पर गुणता आप्यायन स्थापना (डब्ल्यू० एस०) बम्बई में स्थानापन किण्ठ वैज्ञानिक अधिकारी होंगे ।

गु० आ० अधिि० (नौसेना) कोचीन के व० त० सहायक श्री ए० जी० मुकुन्दन दिनांक 24 जुलाई, 1992 (पूर्वाह्न) से दो साल की परिवीक्षा पर मूर गुणता आप्यायन स्थापना (डब्ल्यू० एस०) बम्बई में स्थानापन किण्ठ वैज्ञानिक अधिकारी होंगे ।

गुणता आप्यायन स्थापना (नौसेना) के व० त० सहा० श्री पी० एस० ओवराय दिनांक 12 नार्व, 1992 (पूर्वाह्न) से गु० आ० निदें० (नौसेना) मुख्यालय नथी दिल्ली में स्थानापन किण्ठ वैज्ञानिक अधिकारी होंगे ।

जी० विजय कुमार
निदेशक (प्रशासन)

(पल सेना)

स० 1142 दिनांक 20 नवम्बर, 1992—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर

के० पी० भट्ट (आई० सी०-39433), सिग्नल्स,
एम० एस० कोहूली (आई० सी०-39434), ए० सी०,

संजीव बजाज (आई० सी०-39435), हन्जीनियर्स, एस० के० सैनी (आई० सी०-39436), एस० टी० उपासनी (आई० सी०-39437), इन्फेन्ट्री, बी० जार्ज (आई० सी०-39439), आर्टी०, एस० एस० बास (आई० सी०-39440), रजबीर सिंह (आई० सी०-39441), इन्फेन्ट्री, रोहित शुक्ला (आई० सी०-39442), ए० सी०, सी० के० सूद (आई० सी०-39444), ई० एम० ई०, एस० एस० हसाबनिस (आई० सी०-39445), हन्जीनियर्स, के० के० कपूर (आई० सी०-39446), ए० सी०, जगमोहन सिंह (आई० सी०-39447), मोहित विंग (आई० सी०-39448) इन्फेन्ट्री, बैनीश राय (आई० सी०-39453) मैक० इन्फेन्ट्री, एस० के० थापा (आई० सी०-39454) इन्फेन्ट्री, जी० पी० सिंह (आई० सी०-39455) ए० एस० श्री०, एस० डी० सरीन (आई० सी०-39460) ए० सी०, ए० बी० एस० रावत (आई० सी०-39461) इन्फेन्ट्री, एम० एच० ठाकुर (आई० सी०-39464) ए० एस० सी०, के० बीमाल (आई० सी०-39466), एच० एम० भगत (आई० सी०-39468), एम० एम० गुला (आई० सी०-39470), जे० के० मरवाल (आई० सी०-39472) इन्फेन्ट्री, एन० के० मादुरी (आई० सी०-39473) आर्टी०—13 जून, 1992।

के० एम० सेथ (आई० सी०-38539) इन्फेन्ट्री—22 दिसम्बर, 1990।

शशी राता (आई० सी०-39474) इन्फेन्ट्री, सतनाम सिंह (आई० सी०-39475) आर्टी०, रखी बेदी (आई० सी०-39476) ए० सी०, सुनील कपिला (आई० सी०-39478) सिखनम्ब, बी० कृष्णामूर्ती (आई० सी०-39479) आर्टी०, आर० एस० ओजला (आई० सी०-39480) इन्फेन्ट्री, एस० आर० चौधरी (आई० सी०-39481) ए० ओ० सी०, पी० एस० राठोर (आई० सी०-39482) आर्टी०, पुरोजीत राय (आई० सी०-39483), हरचरण सिंह (आई० सी०-39484), एस० एस० यादव (आई० सी०-39485), एस० एस० ओजला (आई० सी०-39487), इन्फेन्ट्री, अरुण कुमार (आई० सी०-39488) हन्जीनियर्स, हरभोपिन्द्र सिंह (आई० सी०-39489) ए० एस० सी०, बी० एम० गोखावत (आई० सी०-39490), ए० के० बास (आई० सी०-39491), ए० चौहान (आई० सी०-39492) इन्फेन्ट्री, एम० बी० मुवामनीयम (आई० सी०-39493) मैक० इन्फेन्ट्री, ए० के० पाठे (आई० सी०-39494) इन्फेन्ट्री, बीपक कुमार (आई० सी०-39495) आर्टी०, सत्य पाल (आई० सी०-39496) इन्फेन्ट्री, आर० के० सिंडा (आई० सी०-39497) ए० सी०, पी० चन्द्रा (आई० सी०-39498), सी० ई० फरनानडिस (आई० सी०-39500), इन्फेन्ट्री, ए० पी० सिंह (आई० सी०-39501) आर्टी०, डी० के० पुन (आई० सी०-39503) ए० एस० सी०—13 जून, 1992।

पंकज त्यागी (आई० सी०-39568) आर्टी०, पी० आर० एम० चौधरी (आई० सी०-39569), आर० एन०

पांडे (आई० सी०-39570) आर्टी०, रवीन्द्रन के० (आई० सी०-39571) ए० सी०, एम० जैतली (आई० सी०-39572), जे० पी० सेनगुप्ता (आई० सी०-39574) एस० एस० हंसरा (आई० सी०-39575) इन्फेन्ट्री, ए० के० रामाकृष्णन (आई० सी०-39576) आर्टी०, हरीहरन रवि (आई० सी०-39577) सिखनल्स, राजीव चौपडा (आई० सी०-39579), प्रम० के० राय (आई० सी०-39580) आर्टी०, बलराज सिंह (आई० सी०-39581) हन्जीनियर्स, एम० एम० ब्रिगेड (आई० सी०-39582) ए० ओ० सी०, जे० एन० नायर (आई० सी०-39583) ई० एम० ई०, आर० विष्वानाथन (आई० सी०-39584) इन्फेन्ट्री, मनोज वर्मा (आई० सी०-39585) ई० एम० ई०, डी० बी० छे (आई० सी०-39586) इन्फेन्ट्री, अचल तनेजा (आई० सी०-39587) आर्टी०, डी० तप० भानारा (आई० सी०-39589) आर्टी०, एच० ठुकरान (आई० सी०-39590), जी० एस० मिरोड़ी (आई० सी०-39592) इन्फेन्ट्री, पी० के० शर्मा (आई० सी०-39593) हन्जीनियर्स, जे० आर० चंद्रा (आई० सी०-39594) इन्फेन्ट्री, ओ० पी० चौधरी (आई० सी०-39595) ए० सी०, पी० एम० नरवाल (आई० सी०-39596) हन्जीनियर्स—13 जून, 1992।

आर० एम० सिधू (आई० सी०-38117) आर्टी०—9 जून, 1990।

एस० एम० काने (आई० सी०-39504) इन्फेन्ट्री, पी० आर० रेहु (आई० सी०-39505) ए० सी०, एस० बी० मज्जन (आई० सी०-39506) इन्फेन्ट्री, रजत जयरथ (आई० सी०-39508) आर्टी०, बी० के० चौधरी (आई० सी०-39509) इन्फेन्ट्री, सुवीर लाम्बा (आई० सी०-39510) आर्टी०, ए० के० प्रसाद (आई० सी०-39511) इन्फेन्ट्री, नीरज वर्मा (आई० सी०-39512) आर्टी०, एम० पी० शर्मा (आई० सी०-39513) इन्फेन्ट्री, एम० जी० घरे (आई० सी०-39515) ए० सी०, जी० करणकरण (आई० सी०-39517) इन्फेन्ट्री, रवि प्रसाद (आई० सी०-39518) ए० सी०, एस० के० छबराल (आई० सी०-39519) सिखनल्स, टी० एस० नायडू (आई० सी०-39520) ए० एस० सी०, वाई० टी० जैन (आई० सी०-39521) आर्टी०, जे० एम० नेगी (आई० सी०-39522) इन्फेन्ट्री, ए० के० राघवा (आई० सी०-39523) आर्टी०, प्रशांथ कुमार (आई० सी०-39524) आर्टी०, संजय कुमार (आई० सी०-39525) आर्टी०, एस० के० शर्मा (आई० सी०-39526) इन्फेन्ट्री, विवेक चौधरी (आई० सी०-39527) आर्टी०, ए० जे० विजय कुमार (आई० सी०-39528) आर्टी०, पी० पी० यादव (आई० सी०-39529), पंजाब सिंह (आई० सी०-39530), बी० जे० एस० हंसरा (आई० सी०-39531) इन्फेन्ट्री, यू० सी०

दुवे (आई० सी०-39534) आर्टी०, बी० के० बला (आई० सी०-39532) इन्फॉर्मेंट्री—13 जून, 1992।

ए० के० मलिक
सी० एस० ओ०

डी० ए० एस० एस० ई० सी०

(थल सेना विभाग)

सं० 1143, दिनांक 12 नवम्बर, 1992—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

स्कवाइचन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

डी० मुखर्जी (एम० आर०-03782 एम) (15155)
सैनिक चिकित्सा सेवा—1 जून, 1992।

एस॒ सिह (एम० आर०-03925 एफ) (15318)—
1 जून, 1992।

ए० शा (एम० आर०-03926 के) (15319)
सैनिक चिकित्सा सेवा—3 जून, 1992।

पी० सी० प्रसाद (एम० आर०-03774 एन, (15154)
सैनिक चिकित्सा सेवा—1 जून, 1992।

मेजर से लें० कर्नल के पद पर

ए० आर० कुमार (एम० आर०-03936 एन) सैनिक,
चिकित्सा सेवा—5 जुलाई, 1992।

पी० सी० महापक्षा (एम० आर०-03976 पी) सैनिक
चिकित्सा सेवा—20 जुलाई, 1992।

आर० आर० कुमुगाल (एम० आर०-04528 पी)
सैनिक चिकित्सा सेवा—19 जुलाई, 1992।

एस॒ जी० नियोगी
मेजर जनरल

(थल सेना विभाग)

सं० 1144, दिनांक 18 नवम्बर, 1992—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फॉर्मेंट्री

पैराशूट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार मनवर सिह (जे० सी०-101105 एल)—
1 फरवरी, 1992।

सूबेदार राजाराम पाटिल (जे० सी०-102213 एफ)—
1 अप्रैल, 1992।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार पूनम सिह (जे० सी०-164479 एल)—
1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार सिद्ध गोपाल सिह (जे० सी०-159101
ए) — 1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार भरत सिह (जे० सी०-159103 एल)—
1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार भनवर सिह गुजर (जे० सी०-157796
पी) — 1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार सुखदेव सिह (जे० सी०-157797
एम्स) — 1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार शांति कुमार (जे० सी०-163591
डब्ल्यू) — 1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार रामेश्वर (जे० सी०-164729 एम) —
1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार चन्नत सिह (जे० सी०-169114 एल) —
1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार अरविदाकंसन के० (जे० सी०-173131
एच) — 1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार गोपाल मिह (जे० सी०-173133
एन) — 1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार पितम सिह (जे० सी०-168810 डब्ल्यू) —
1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार सूबे मिह (जे० सी०-194504 वाई) —
1 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार गुरमेल सिह (जे० सी०-174909
एच) — 1 मई, 1992।

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार जगदीश चन्द (जे० सी०-105588 एल) —
1 जून, 1992।

सूबेदार प्रताप सिह (जे० सी०-130787 के) — 1 जून,
1992।

सूबेदार सोहन सिह (जे० सी०-101370 एफ) —
1 जुलाई, 1992।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार निर्मलजीत सिह गिल (जे० सी०-
168498 वाई) — 1 अगस्त, 1992।

मद्रास रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार बालसुन्दरम (जे० सी०-114408 वाई) —
1 जून, 1992।

- सूबेदार मदन तंगवेल (जे० सी०-108309 ए)---
1 अगस्त, 1992।
- सूबेदार एन० पाषल अनल (जे० सी०-123392 ए)---
1 अगस्त, 1992।
- सूबेदार कृष्णपिले तशिधरन नाथर (जे० सी०-104182 एल)---1 अगस्त, 1992।
- सूबेदार मेजर (कलर्क) के रैक में
- सूबेदार (कलर्क) रामसुब्रमणि ऐयर गोपेशन (जे० सी०-134305 एफ)---1 अगस्त, 1992।
- सूबेदार के रैक में
- नाथब सूबेदार ए० संथाम् (जे० सी०-157809 एफ)---1 जनवरी, 1992।
- सूबेदार (कलर्क) के रैक में
- नाथब सूबेदार (कलर्क) वासुदेवन मुख्लीधरन नाथर (जे० सी०-175953 वाई)---1 जून, 1992।
- सूबेदार (पंडित) के रैक में
- नाथब सूबेदार (पंडित) एम० चन्द्रशेखरन नाथर (जे० सी०-81745 एल)---1 अप्रैल, 1992।
- ग्रिनेडिपर्स
- सूबेदार मेजर के रैक में
- सूबेदार चेत राम (जे० सी०-117480 ए)---1 अप्रैल, 1992।
- सूबेदार कैलाम सिंह (जे० सी०-96547 एक्स)---1 अप्रैल, 1992।
- सूबेदार रमेश भाई पटेल (जे० सी०-77629 एल)---1 मई, 1992।
- सूबेदार रिछपाल सिंह (जे० सी०-98655 ए)---1 जून, 1992।
- सूबेदार सोबरन सिंह (जे० सी०-95587 एम)---1 जून, 1992।
- सूबेदार रजाक खां (जे० सी०-98654 एक्स)---1 जून, 1992।
- सूबेदार राम प्रमाद (जे० सी०-133836 एम)---1 जून, 1992।
- सूबेदार के रैक में
- नाथब सूबेदार जय राम (जे० सी०-148314 एन)---1 फरवरी, 1992।
- नाथब सूबेदार उमेद सिंह (जे० सी०-148315 डब्ल्यू)---1 फरवरी, 1992।
- नाथब सूबेदार बलवान सिंह (जे० सी०-181779 एन)---1 फरवरी, 1992।
- सूबेदार (म्यूजिशियन) के रैक में
- नाथब सूबेदार कुन्दन विह (जे० सी०-173834 के)---1 जुलाई, 1992।
- मराठा लाइट इन्फेट्री
- सूबेदार मेजर के रैक में
- सूबेदार जगन्नाथ दलधी (जे० सी०-100721 वाई)---1 मई, 1992।
- सूबेदार शे डो वसंत गंगाराम (जे० सी०-114405 एल)---1 मई, 1992।
- सूबेदार सखाराम खोत (जे० सी०-87387 एफ)---1 मई, 1992।
- सूबेदार राजाराम खोसले (जे० सी०-95268 ए)---1 जून, 1992।
- सूबेदार मेजर लिपिक के रैक में
- सूबेदार लिपिक नथू गुरनुले (जे० सी०-112460 एम)---1 मई, 1992।
- सूबेदार लिपिक केंद्रे सखाराम (जे० सी०-120119 ए)---1 जून, 1992।
- सूबेदार के रैक में
- नाथब सूबेदार विष्णवनाय प्रसाद (जे० सी०-145049 एक्स)---1 मई, 1992।
- नाथब सूबेदार दर्कर जानदेव एकनाथ (जे० सी०-166678 एच)---1 मई, 1992।
- नाथब सूबेदार पुडलीक कानू तारीहालकर (जे० सी०-162131 एच)---1 मई, 1992।
- नाथब सूबेदार हुगमत कुण्डा मोरे, वीरचक्र (जे० सी०-142954 एफ)---1 जून, 1992।
- सूबेदार लिपिक के रैक में
- नाथब सूबेदार लिपिक खोत विलास राजाराम (जे० सी०-182953 एफ)---1 मई, 1992।
- नाथब सूबेदार लिपिक प्रेमानंद पांडुरंग भगत (जे० सी०-182954 के)---1 मई, 1992।
- नाथब सूबेदार लिपिक सुरेन्द्रन पिलाई टी० बी० (जे० सी०-181788 पी)---1 मई, 1992।
- नाथब सूबेदार लिपिक सावंत दण्डरथ (जे० सी०-184308 एल)---1 मई, 1992।
- नाथब सूबेदार लिपिक सूर्जभान सिंह जाखर (जे० सी०-184309 एन)---1 जून, 1992।
- नाथब सूबेदार लिपिक प्रकाश गोवेकर (जे० सी०-184289 एल)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक श्रीकांत गोविन्द नातू (जे० सी०-184290 ए)---1 जून, 1992।

राजपूत रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जगत बहादुर सिंह (जे० सी०-104221 वाई)---2 जुलाई, 1992।

सूबेदार कमल सिंह (जे० सी०-118788 ए)---1 जुलाई, 1992।

सूबेदार आराम सिंह (जे० सी०-140548 एच)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम बहादुर सिंह (जे० सी०-163641 डब्ल्यू)---1 मई, 1991।

नायब सूबेदार दिनेश कुमार सिंह (जे० सी०-164041 ए)---1 जून, 1991।

नायब सूबेदार पूर्ण मल वर्मा (जे० सी०-163645 एम)---1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार सुन्दर पाल सिंह (जे० सी०-171894 ए)---14 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार राम निवास (जे० सी०-171895 एच)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार दिग विजय सिंह (जे० सी०-178548 एम)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार जय राम सिंह (जे० सी०-190778 एम)---1 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-171897 एन)---1 मई, 1992।

नायब सूबेदार ही राम (जे० सी०-164967 वाई)---1 मई, 1992।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जरनैल सिंह (जे० सी०-134201 ए)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार ईश्वर दास (जे० सी०-143666 एफ)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार जगन्नाथ मिश्रा (जे० सी०-135638 ए)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार जितेन्द्र दत्ता (जे० सी०-112408 ए)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम प्रकाश सिंह (जे० सी०-171904 वाई)---1 जुलाई, 1992।

सूबेदार कलर्क के रैंक में

नायब सूबेदार कलर्क लक्ष्मी नारायण मिह्ता (जे० सी०-192595 पी)---20 अक्टूबर, 1991।

सिख रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सतपाल सिंह (जे० सी०-118243 के)---1 जुलाई, 1992।

सूबेदार तारा सिंह (जे० सी०-100677 ए)---1 जुलाई, 1992।

सूबेदार नन्द सिंह (जे० सी०-106740 ए)---1 जुलाई, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सन्तोष सिंह (जे० सी०-166719 एम)---1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार दत्ता सिंह (जे० सी०-171942 पी)---1 जुलाई, 1992।

सूबेदार कलर्क के रैंक में

नायब सूबेदार कलर्क शाम लाल (जे० सी०-192969 ए)---1 जुलाई, 1992।

सिख लाईट इन्फेंट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रणजीत सिंह (जे० सी०-118171 के)---1 जुलाई, 1992।

सूबेदार मलकीत सिंह (जे० सी०-101492 एल)---1 जुलाई, 1992।

गढ़शाल राइफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-112766 एल)---1 मई, 1992।

सूबेदार वरवान सिंह रावत (जे० सी०-103466 एम)---1 मई, 1992।

सूबेदार राजपाल सिंह (जे० सी०-105379 एफ)---1 जून, 1992।

सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-107390 एल)---1 जून, 1992।

सूबेदार प्रेम सिंह, सेना मैडल (जे० सी०-103469 डब्ल्यू)---1 जून, 1992।

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार लिपिक उमेव सिंह नेगी (जे० सी०-134385 के)---1 मई, 1992।

सूबेदार लिपिक नारायण सिंह नेही (जे० सी०-134384 एफ)---1 जून, 1992।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जे० सी०-152556 एम)---1 मई, 1992।

नायब सूबेदार योगम्बर सिंह नेही (जे० सी०-152560 डब्ल्यू)---1 मई, 1992।

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जे० सी०-152897 वाई)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार करण सिंह फरस्वान (जे० सी०-152905 एम)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार चतर सिंह (जे० सी०-166094 एक्स)---1 जून, 1992।

सूबेदार (लिपिक) के रैक में

नायब सूबेदार (लिपिक) बसन्त बिहारी जोशी (जे० सी०-188529 पी)---1 मई, 1992।

नायब सूबेदार (लिपिक) राजीव सिंह (जे० सी०-188530 के)---1 जून, 1992।

दि कुमाऊँ रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार नन्दन राम (जे० सी०-168579 वाई)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार खड़क राम (जे० सी०-142811 एफ)---1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जे० सी०-149105 एच)---1 जून, 1992।

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार धन सिंह (जे० सी०-136740 पी)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार राम चन्द्र उपाध्याय (जे० सी०-128557 एक्स)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार नरपत सिंह, एस० सी० (जे० सी०-120477 एल)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार महेन्द्र सिंह (जे० सी०-137834 वाई)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार पृष्ठी सिंह (जे० सी०-149100 के)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैक में

सूबेदार लिपिक होशियार सिंह (जे० सी०-173902 एम)---1 अगस्त, 1992।

आसाम रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार चालबौला लुसाई (जे० सी०-107313 डब्ल्यू)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार जुनेन्द्र नाथ बरदोलोई (जे० सी०-110925 वाई)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार चुमरिंग नागा (जे० सी०-103293 डब्ल्यू)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार लेब बहादुर छोटी (जे० सी०-151403 एक्स)---1 मई, 1992।

नायब सूबेदार मांगतालीम कोम (जे० सी०-164830 एम)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार जय चन्द्र चेतिया (जे० सी०-167269 एफ)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार जीवन कुमार गोश्वार्द (जे० सी०-173065 एल)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार कमल कुमार वास (जे० सी०-151392 डब्ल्यू)---1 अगस्त 1992।

सूबेदार लिपिक के रैक में

नायब सूबेदार लिपिक धरेश्वर दास (जे० सी०-173075 पी)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक ब्रोजो चन्द्र राजकुमार (जे० सी०-173076 एक्स)---1 जून, 1992।

नायब सूबेदार सुरेन चन्द्र भराली (जे० सी०-173077 डब्ल्यू)---1 जुलाई, 1992।

बिहार रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार राम नगीना प्रसाद यादव (जे० सी०-159271 के)---1 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार सुग्रीव बैठा (जे० सी०-173256 एच)---1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार बाला कुण्डा दलाई (जे० सी०-155454 एच)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार दिनेश हसदा (जे० सी०-165002 एत)---1 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार जय राम देहरू (जे० सी०-135801 पी)---1 जून, 1992।

जन्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री
सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार अब्दुल करीम सेह (जे० सी०-143753 पी) — 1 सितम्बर 1991।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-143755 ए) — 1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार फियाज उल्ला खान (जे० सी०-143757 एल) — 1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार गोम प्रकाश (जे० सी०-145598 एक्स) — 1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार विस्तिम अन्व (जे० सी०-158435 एन) — 1 जून, 1992।

नायब सूबेदार कसार सिंह (जे० सी०-158436 एल) — 1 जून, 1992।

4 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार किशन सिंह गुरुंग (जे० सी०-126502 पी) — 1 अगस्त, 1992।

सूबेदार मुक्ति परसाथ गुरुंग (जे० सी०-125160 ए) — 1 अगस्त, 1992।

सूबेदार पुष्कर सिंह गुरुंग (जे० सी०-129295 वाई) — 1 अगस्त, 1992।

सूबेदार लिपिक के रैक में

नायब सूबेदार लिपिक अलोक श्रेष्ठ (जे० सी०-193967 एफ) — 1 अगस्त, 1992।

3 जी० आर०

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार चुर्गा बहादुर गुरुंग (जे० सी०-185111 एफ) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार प्रितम बहादुर थापा (जे० सी०-178676 के) — 1 जून, 1992।

मद्रास रेजिमेण्ट

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार रामन गोपिनाथन नामर (जे० सी०-145396 डब्ल्यू) — 1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार सुधामणी मुशुप्पून (जे० सी०-151162 एच) — 1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार मुधिराप्पलिल पदमनभन सदन (जे० सी०-162095 एच) — 1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार एम० मुनिस्वामी (जे० सी० 126453 एक्स) — 1 फरवरी 1992।

नायब सूबेदार आर० प्रभाकरण (जे० सी० 145020 पी) — 1 मई 1992।

नायब सूबेदार निस्तगनन संबंद मूर्ति (जे० सी०-162096 एल) — 1 मई 1992।

नायब सूबेदार तेविलेधु कृष्णा पिल्लई नारावना पिल्लई (जे० सी०-134295 एच) — 1 जून 1992।

नायब सूबेदार मोहनन नायर बी० (जे० सी०-155956 एल) — 1 जून 1992।

नायब सूबेदार बाबू वरगीस (जे० सी०-145397 वाई) — 1 जुलाई 1992।

नायब सूबेदार अंगमणि एम० (जे० सी०-147398 ए) — 1 अगस्त 1992।

सूबेदार (कलर्क) के रैक में

नायब सूबेदार (कलर्क) पुलनमपलविल जौन वरगीस (जे० सी०-174994 डब्ल्यू) — 1 जून 1992।

नायब सूबेदार (कलर्क) कुप्पनमडा सुबया सोमया (जे० सी०-177936 एक्स) — 1 सितम्बर, 1992।

गिनेंडियसं

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार सुलतान काठात (जे० सी०-152413 एन) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार यासव अली खाँ (जे० सी०-175342 के) — 1 मई, 1992।

नायब सूबेदार हवा सिंह (जे० सी०-173140 के) — 1 जून, 1992।

नायब सूबेदार धर्म पाल सिंह (जे० सी०-173829 वाई) — 1 जून, 1992।

नायब सूबेदार कुप सिंह (जे० सी०-159141 एक्स) — 1 जून, 1992।

नायब सूबेदार भूप सिंह (जे० सी०-178500 वाई) — 1 अगस्त, 1992।

राजपूताना राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार हरफूल सिंह (जे० सी०-108635 एच) — 1 जून, 1992।

सूबेदार भंवर सिंह (जे० सी०-198627 के) — 1 जून, 1992।

सूबेदार मन्दरप सिंह (जे० सी०-102179 एम) — 1 जून, 1992।

सूबेदार जाले सिंह (जे० सी०-127453 के) — 1
अगस्त, 1992।

सूबेदार हरकूल सिंह (जे० सी०-118840 एक्स) —
1 अगस्त, 1992।

सूबेदार राम अवनार सिंह (जे० सी०-116181 पी)
1 अगस्त, 1992।

सूबेदार दुली चन्द (जे० सी०-118837 एक्स) —
1 अगस्त, 1992।

सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-147462 एम) —
1 अगस्त, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुम्भ सिंह (जे० सी०-164957 पी) —
1 मई, 1992।

नायब सूबेदार मूल सिंह (जे० सी०-151649 उल्ल्य) —
1 मई, 1992।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-144564 एक्स) —
1 जून, 1992।

नायब सूबेदार राजेन्द्रा प्रताप सिंह (जे० सी०-164756
उल्ल्य) — 1 जून, 1992।

नायब सूबेदार कुम्भ सिंह सासोविया (जे० सी०-
164958 एक्स) — 1 जून, 1992।

नायन सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-164039
एच) — 1 जून, 1992।

नायब सूबेदार मांगू सिंह (जे० सी०-158367 ए)
— 1 जून, 1992।

नायब सूबेदार ओम सिंह (जे० सी०-151659 ए) —
21 अगस्त, 1992।

राजपूत रैजिमेन्ट

मूबेदार कलर्क के रैंक में

नायब सूबेदार कलर्क ज्ञान चन्द उदाहर (जे० सी०-193729
पी) — 01 जून 1992।

नायब सूबेदार कलर्क राम पाल सिंह (जे० सी०-193730
के) — 01 जून, 1992।

नायब सूबेदार कलर्क बलबीर सिंह गिल (जे० सी०-
193732 पी) — 01 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार कलर्क धन्त्रिका सिंह (जे० सी०-193743
एफ) — 01 अगस्त, 1992।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रेम पाल सिंह (जे० सी०-108499 वाई) —
01 अगस्त, 1992।

सूबेदार रेवती प्रसाद (जे० सी०-106081 उल्ल्य) — 01
सितम्बर, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कोमल सिंह भदौरिया (जे० सी०-178539
एल) — 01 नवम्बर, 1992।

नायब सूबेदार वीप सिंह (जे० सी०-167443 एच) — 01
जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार वतन सिंह (जे० सी०-171719 एल) —
01 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-156011 एत) —
01 अगस्त, 1992।

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-152852 वाई) —
01 जुलाई, 1992।

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मुख्त्यार सिंह (जे० सी०-104076 एम) — 01
अगस्त, 1992।

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-101979 वाई) — 01
अगस्त, 1992।

सूबेदार सुखलाल सिंह (जे० सी०-107799 एम) — 01
01 सितम्बर, 1992।

सूबेदार गुरदेव सिंह (जे० सी०-100627 पी) — 01
सितम्बर, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी०-137061 के) —
01 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार वीर सिंह (जे० सी०-171957 एक्स) —
04 अगस्त, 1992।

विशेष सूची

डोगरा रैजिमेन्ट

सूबेदार मेजर (धर्मशिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्मशिक्षक) शरद चन्द्र कैलखुरी (जे० सी०-
42476 एत) — 01 अप्रैल, 1992।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जनमेज फॉर्स (जे० सी०-108477 वाई) — 01
अगस्त, 1992।

सूबेदार मनशा राम (जे० सी०-103515 ए) — 01
अगस्त, 1992।

सूबेदार सुरेन्द्र पाल (जे. सी.—107784 के)---01
अगस्त, 1992।

सूबेदार छावी गाम (जे. सी.—97836 एक्स)---01
अगस्त, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धन सिह (जे. सी.—163907 एक्स)---
01 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार रनजीत सिह (जे. सी.—166079 एम)
—01 मितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार वुलम गटा भीता रामा स्वामी (जे. सी.—
169211 एच)---01 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार सुशील कुमार (जे. सी.—163674 एफ)
—01 मई, 1992।

नायब सूबेदार रीगजीन (जे. सी.—145519 एक्स)---
01 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार जरनैल सिह (जे. सी.—157874 एफ)
—01 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे. सी.—155711 पी)
—01 अगस्त, 1992।

सूबेदार बलक के रैंक में

नायब सूबेदार बलक शेर सिंह (जे. सी.—183022 के)
—01 मितम्बर, 1992।

वि कमाऊ रैजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भगवान सिह (जे. सी.—152587 एन)---
01 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार मनोहर सिह (जे. सी.—149120 एक्स)
—01 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार लाल सिह (जे. सी.—173900 एफ)---
01 जून, 1992।

नायब सूबेदार कैलाण चन्द्र (जे. सी.—173064 एच)
—01 अगस्त, 1992।

आसाम रैजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सिदी राम नाथ (जे. सी.—175401 एल)
—01 मई, 1992।

नायब सूबेदार प्रमोद चन्द्र हूतंडीकोई (जे. सी.—173070
डब्ल्यू)---01 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार मानिक चन्द्र सिहा (जे. सी.—157689
एफ)---01 अगस्त, 1992।

महार रैजिमेंट

सूबेदार मेजर लिपिक (जी. डी.) के रैंक में
सूबेदार लिपिक टीके कुही रामा कुलप (जे. सी.—144929
एफ)---01 मई, 1992।

सूबेदार लिपिक (जी. डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक अमी लाल यादवा (जे. सी.—
183097 के)---01 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक चनन सिह (जे. सी.—183098
के)---01 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक गोविन्द (जे. सी.—184476
के)---01 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक स्वरण सिह पठानिया (जे. सी.—
192683 एच)---01 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक रंग राव (जे. सी.—192684
एन)---01 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक दया तन्द नसिर (जे. सी.—
193019 एक्स)---01 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक सोलके दाधा साहब रंग (जे. सी.—
193020 एम)---01 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक सुशील रंजन आचार्या (जे. सी.—
193872 एफ)---01 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक परितोष गोस्वामी (जे. सी.—
193873 के)---01 मई, 1992।

किशोर सूची

जम्मू और काश्मीर राइफल्स
नायब सूबेदार (धर्मिणक) (पंडित) के रैंक में
पूर्ण चन्द्रा लेखक (जे. सी.—578006 डब्ल्यू)---
10 जुलाई, 1992।

सूबेदार मेजर (जी. डी.) के रैंक में
सूबेदार छैल मिह (जे. सी.—82854 के)---1 जुलाई,
1992।

सूबेदार प्रकाश सिंह (जे. सी.—83427 ए)---1
जुलाई, 1992।

सूबेदार रोशन लाल (जे. सी.—109170 ए)---
1 जुलाई, 1992।

सूबेदार बुआ दास (जे. सी.—112651 एक्स)---
—1 जुलाई, 1992।

सूबेदार अब्दुल गनी काजी (जे. सी.—104874 ए)---
1 अगस्त, 1992।

सूबेदार (जी० आ०) के रैंक में

नायब सूबेदार राम चन्द (जे० सी०-169457 एफ)
—1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार जीत सिंह (जे० सी०-175121 एक्स)
—1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार बिसम्बर दास (जे० सी०-168603
एक्स) — 1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-167498 एम)
—1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार चरन दास (जे० सी०-179454 एफ)
—1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार फैली राम (जे० सी०-163928 एन)
—1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार बाबू सिंह (जे० सी०-169253 पी) —
1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार जुम्मा मोहम्मद (जे० सी०-127092
डब्ल्यू) — 1 अगस्त, 1992।

जम्मू और काश्मीर लाईट हॉल्केन्ट्री
नायब सूबेदार (-) के रैंक में

नायब सूबेदार बिसन दास (जे० सी०-142839 एफ)
—1 जून, 1992।

नायब सूबेदार शैलो राम (जे० सी०-142840 डब्ल्यू)
—1 जून, 1992।

4 जी० आर०

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धन प्रसाद गुरुंग (जे० सी०-161024
पी) — 1 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार ओमकार सिंह (जे० सी०-161028
एल) — 1 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार बाबू राम (जे० सी०-155850 पाई) —
1 अगस्त, 1992।

9 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जंग बहादुर छंती (जे० सी०-113955 एक्स)
—1 अगस्त, 1992।

सूबेदार मिठु राज अधिकारी (जे० सी०-115957
एम) — 1 अगस्त, 1992।

3 जी० आर०

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भुन्दर बहादुर गुरुंग (जे० सी०-163966
एक्स) — 1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर राणा (जे० सी०-163967
एम) — 1 जनवरी, 1992।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) बुद्धी प्रकाश (जे० सी०-
204385 के) — 1 जून, 1992।

नायब सूबेदार (लिपिक) ज्ञान सिंह राणा (जे० सी०-
204386 एम) — 1 अगस्त, 1992।

विशेष सूची

5 जो० आर० (एक्स एक्स)

नायब सूबेदार (धर्म शिखक) के रैंक में

भूपेन्द्र कुमार मणी तिपाठी (अब जे० सी०-617001
डब्ल्यू) — 10 जुलाई, 1992।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार तेज बीर गुरुंग (जे० सी०-116476 एल) —
1 जुलाई, 1992।

सूबेदार शिव दर्शन सिंह प्रतान (जे० सी०-125232
पाई) — 1 अगस्त, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार टीका राम गुरुंग (जे० सी०-168948
एल) — 1 जुलाई, 1992।

सूबेदार मेजर (धर्मशिखक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिखक) छाया दत शर्मा गौतम (जे० सी०-
41664 एच) — 1 अप्रैल, 1992।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चीत बहादुर गुरुंग (जे० सी०-106814 के)
—1 जुलाई, 1992।

सूबेदार खेम बहादुर थापा (जे० सी०-117254 एच)
—1 जुलाई, 1992।

सूबेदार रुद्र बहादुर थापा, बी० एस० एम० (जे० सी०-
108340 एम) — 1 जुलाई, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अमृत बहादुर गर्ग (जे० सी०-
172818 ए) — 1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार नर काजी गुरुंग (जे० सी०-172821
ए) — 1 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार ओम बहावुर गुरुग (जे० सी०-167312 एक्स) — 1 जुलाई, 1992।

लद्धाख स्काउट्स

सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार (जी० डी०) लेरिंग मुटुप (जे० सी०-164853 एक्स) — 1 मई, 1992।

नायब सूबेदार (जी० डी०) नवांग रिंजन (जे० सी०-175131 एक्स) — 19 जून, 1992।

विशेष सूची

तोपखाना रेजिमेन्ट

सम्पर्कनिव सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के पद में

सूबेदार मेजर राजीन्दर सिंह (जे० सी०-41311 एक्स) — 1 अप्रैल, 1992।

सूबेदार मेजर कन्हैया दुब्बे (जे० सी०-28312 एम) — 1 अप्रैल, 1992।

सूबेदार मेजर अनूप सिंह (जे० सी०-37410 एक्स) — 1 अप्रैल, 1992।

तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हृष्णलदार जोगीन्दर सिंह (सं० 1256009 एक्स अब जे० सी०-223556 ए) — 13 जून, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च, 1991)।

हृष्णलदार गङ्गमी नारायण शर्मा (सं० 1258196 के अब जे० सी०-223557 एक्स) — 17 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मार्च, 1991)।

हृष्णलदार रामबीर सिंह (सं० 1252082 एक्स अब जे० सी०-223558 एक्स) — 24 मार्च, 1991।

हृष्णलदार वेद सिंह (सं० 1242584 एक्स अब जे० सी०-223559 एम) — 3 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च, 1991)।

हृष्णलदार श्रीराम तिवारी (सं० 1257273 एक्स अब जे० सी०-223560 एक्स) — 24 मार्च, 1991।

हृष्णलदार रामानन्द शर्मा (सं० 14452030 इक्स्यू अब जे० सी०-223561 एक्स) — 28 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मार्च, 1991)।

हृष्णलदार राजाराम यादव (सं० 14323619 एक्स अब जे० सी०-223562 एक्स) — 1 मार्च, 1991।

बी० एक्स० एम० सुखी राम (सं० 14319412 एक्स अब जे० सी०-223563 इक्स्यू) — 22 अक्टूबर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991)।

हृष्णलदार दिपक पांडे (सं० 1259979 पी अब जे० सी०-223564 वाई) — 2 मार्च, 1991।

बी० एक्स० एम० चन्दन सिंह भगोरिया (सं० 1292618 इक्स्यू अब जे० सी०-223565 एक्स) — 1 मार्च, 1991।

हृष्णलदार नरीन्द्रपाल सिंह (सं० 1263996 एम अब जे० सी०-223566 के) — 5 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 मार्च, 1991)।

हृष्णलदार दयाल सिंह (सं० 1251687 एक्स अब जे० सी०-223567 एम) — 8 मार्च, 1991।

हृष्णलदार जय सिंह चौहान (सं० 14325066 इक्स्यू अब जे० सी०-223568 पी) — 10 अप्रैल, 1991।

हृष्णलदार मोहन लाल (सं० 14309231 एम अब जे० सी०-223569 एक्स) — 1 अप्रैल, 1991।

हृष्णलदार केशव दत्त (सं० 1295212 एन अब जे० सी०-223570 एम) — 1 अप्रैल, 1991।

हृष्णलदार टी पर्सेर मेलबन (सं० 14460267 एक्स अब जे० सी०-223571 पी) — 9 मई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 अप्रैल, 1991)।

बी० एक्स० एम० चेत राम (सं० 14320705 एक्स अब जे० सी०-223572 एक्स) — 21 मई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991)।

आर० एक्स० एम० बुक्स लाल (सं० 13856410 के अब जे० सी०-223573 ए) — 1 अप्रैल, 1991।

हृष्णलदार हारी सिंह (सं० 14320803 एक्स अब जे० सी०-223574 एक्स) — 1 अप्रैल, 1991।

हृष्णलदार सर्जू प्रसाद सिंह यादवा (सं० 1245485 एक्स अब जे० सी०-223575 एक्स) — 1 अप्रैल, 1991।

हृष्णलदार हनुमान सिंह (सं० 14321809 इक्स्यू अब जे० सी०-223576 एम) — 1 अप्रैल, 1991।

बी० एक्स० एम० बी० शंकरन (सं० 14321084 एक्स अब जे० सी०-223577 इक्स्यू) — 1 अप्रैल, 1991।

हवलदार शांति धर (सं० 1265668 एक्स अब जे० सी०-223578 वाई)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार अवतार सिंह (सं० 14330647 एक्स अब जे० सी०-223579 एफ)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार रमेश सिंह (सं० 14327953 एफ अब जे० सी०-223580 डब्ल्यू)---23 अप्रैल, 1991।

हवलदार कामीर सिंह (सं० 1265922 डब्ल्यू अब जे० सी०-223581 वाई)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार जसदाब सिंह (सं० 1262975 के अब जे० सी०-223582 एफ)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार श्रीचन्द्र (सं० 1254867 एल अब जे० सी०-223583 के)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार ज्ञान सिंह (सं० 1290187 डब्ल्यू अब जे० सी०-223584 एम)---1 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1990)।

बी० एच० एम० जगमल सिंह (सं० 1245720 एन अब जे० सी०-223585 पी)---24 जून, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991)।

बी० एच० एम० वलीप सिंह (सं० 14309884 एन अब जे० सी०-223586 एक्स)---1 मई, 1991।

हवलदार कुलदीप सिंह (सं० 1258703 एम अब जे० सी०-223587 ए)---1 मई, 1991।

बी० एच० एम० जागराम सिंह यादव (सं० 1266515 ए अब जे० सी०-223588एच)---1 मई, 1991।

हवलदार गनपत सिंह राजवट (सं० 1262367 एच अब जे० सी०-223589 एल)---1 जून, 1991।

बी० एच० एम० राजन्द्र थापा (सं० 5445153 वाई अब जे० सी०-223590 ए)---1 जून, 1991।

हवलदार मलकेत भिंह (सं० 14321241 एच अब जे० सी०-223591 एच)---8 जून, 1991।

हवलदार पाल सिंह (सं० 14318231 एम अब जे० सी०-223592 एल)---1 जून, 1991।

आर० एच० एम० किसमत सिंह (सं० 1248080 ए अब जे० सी०-223593 एन)---1 जून, 1991।

हवलदार चन्द्रशेखर शुक्ला (सं० 14344256 एक्स अब जे० सी०-223594 डब्ल्यू)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार शत्रुघ्न मिह (सं० 1281837 एच अब जे० सी०-223595 वाई)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार मालती असबान्नेपा बिलारी (सं० 14326905 एच अब जे० सी०-223596 एफ)---1 जुलाई, 1991।

बी० एच० एम० ग्रोमकार सिंह (सं० 1245023 एन अब जे० सी०-223597 के)---19 जुलाई, 1991।

हवलदार जसबीर सिंह (सं० 1269323 एन अब जे० सी०-223598 एम)---1 जुलाई, 1991।

बी० एच० एम० लखबीर मिह (सं० 14311871 पी अब जे० सी०-223599 पी)---10 जुलाई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1991)।

हवलदार अमरिक सिंह (सं० 1262825 एन अब जे० सी०-223600 वाई)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार श्रीमद्र सिंह (सं० 14321733 एफ अब जे० सी०-223601 एफ)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार ईश्वर सिंह (सं० 14321374 वाई अब जे० सी०-223602 के)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार जीत सिंह (सं० 1263001 एक्स अब जे० सी०-223603 एम)---1 जुलाई, 1991।

एम० गोविन्दर सिंह (सं० 1294175 वाई अब जे० सी०-223604 पी)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार धुरेंद्र पंडित (सं० 1431355 वाई अब जे० सी०-223605 एक्स)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार राम अवदेश पांडे (1264494 डब्ल्यू अब जे० सी०-223606 ए)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार रमेश चन्द्र (14319629 पी अब जे० सी०-223607 एच)---5 सितम्बर, 1991।

*(नायब सूबेदार के पद में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1991)।

हवलदार प्रधिवनना त्रिपाठी (1257793 एम अब जे० सी०-223609 एल)---1 अगस्त, 1991।

बी० एच० एम० सुजदेव सिंह (1262079 डब्ल्यू अब जे० सी०-223609 एस)---1 अगस्त 1991।

बी० एच० एम० राजिन्दर सिंह (124775 डब्ल्यू अब जे० सी०-223610 एच)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार परिकमजीत सिंह (14308693 एम अब जे० सी०-223611 एल)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार अनन्देद सिंह (1259347 के अब जे० सी०-223612 एन)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार शिव बिलास (1260569 एल अब जे० सी०-223613 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार जरनल सिंह (1261827 एम अब जे० सी०-223614 वाई)---1 सितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० शेख रहेमान (1262125 अब जे० सी०-223615 एफ)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार रामेश्वर प्रसाद यादव (1265247 पी अब जे० सी०-223616 के)---1 सितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० भक्तबर सिंह दाधवाल (14313786 एक्स अब जे० सी०-223617 एम)---1 सितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० सेवा सिंह (1290445 अब जे० सी०-223618 पी)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (1258552 वाई अब जे० सी०-223619 एक्स)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार मेहर सिंह (14305548 के अब जे० सी०-223620 एम)---3 सितम्बर, 1991।

*(नायब सूबेदार के पद में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले थिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1991।)

हवलदार कुलदीप सिंह (14323670 एच अब जे० सी०-223621 पी)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार दर्शन मिह (14326792 एक्स)---अब जे० सी०-223622 एक्स)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार गदामिदी बेंकट्या (1269314 एम) अब जे० सी०-223623 ए)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार सिंह राम यादव (1247146 वाई अब जे० सी०-223624 एच)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार जगत राम (1296122 वाई अब जे० सी०-223625 एल)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार (कलर्क जी० डी० एस० के० टी०)

के पद में

हवलदार (एम० के० टी०) बब्बन ओबे (सं० 1258829 एम अब जे० सी०-223626 एन)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क लश्वर मिह (सं० 1268298 एन अब जे० सी०-223627 डब्ल्यू)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क जगवीश चन्द ठाकुर (सं० 1268321 डब्ल्यू अब जे० सी०-223628 वाई)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क सूर्य प्रकाश (सं० 1268368 एफ अब जे० सी०-223629 एफ)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क मेहर सिंह यादव (सं० 1268372 के ग्रब जे० सी०-223630 डब्ल्यू)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क अजीत सिंह (सं० 1268394 एच अब जे० सी०-223631 वाई)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क शुभ देव सिंह (सं० 1268528 डब्ल्यू अब जे० सी०-223632 एफ)---1 मार्च, 1992।

हवलदार केशव मिह (सं० 1268828 एक्स अब जे० सी०-223633 के)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क उधम सिंह चन्देल (सं० 1268829 ए अब जे० सी०-223634 एम)---10 मार्च, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले थिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार कलर्क राजा एन० (सं० 1268867 डब्ल्यू अब जे० सी०-223635)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क सुरजीत सिंह (सं० 1268917 डब्ल्यू अब जे० सी०-223636 पी)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क नेलवाराजू एम० (सं० 1268966 वाई अब जे० सी०-223637)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क शिवानन्दन ओ० वी० (सं० 1268976 एच अब जे० सी०-223638 एच)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क राजन नायर पी० (सं० 1268979 डब्ल्यू अब जे० सी०-223639 एल)---मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क जोहन वी० सी० (सं० 1268990 पी अब जे० सी०-223640 ए)---1 मार्च, 1992।

हवलदार (एस० के० टी०) गोरख राम गणा (सं० 14308134 एच अब जे० सी०-223641 एच)---1 मार्च, 1992।

हवलदार (एस० के० टी०) कल्तैया रामा राज (सं० 14308268 एफ अब जे० सी०-223642 एच)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क शिवांशंकरन (सं० 14325520 एल अब जे० सी०-223643 एन)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क लक्ष्मणा वी० एम० (सं० 14325667 एफ अब जे० सी०-223644 डब्ल्यू)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क पूरन चन्द शर्मा (सं० 14325808 एल अब जे० सी०-223645)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क राम मुन्दर द्विवेदी (सं० 14325995 पी अब जे० सी०-223646 वाई)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क बेन्वे लाल (सं० 14326119 डब्ल्यू अब जे० सी०-223647 के)---1 मार्च, 1992।

हवलदार कलर्क पी० मुथू शामी (सं० 10451306 डब्ल्यू भव जे० सी०-223648 एम)---1 मार्च, 1992।

हवलदार (एस० के० टी०) मुन्दर सिंह मलिक (सं० 1259010 एफ अब जे० सी०-223649 पी)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (एस० के० टी०) मंजीत सिंह (सं० 1259044 पी अब जे० सी०-223650 के)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार कल्कि रोहतास सिंह (सं० 1269102 एक अब जे० सी०-223651 एम)---17 मई, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार (कल्कि) पिंगले दिलिप प्रभाकर (सं० 1269127 एच अब जे० सी०-223652 पी)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) विजय कुमार शर्मा (सं० 1269169 ए अब जे० सी०-223653 एक्स)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) गमाकृष्णन सी० (सं० 1269190 एच अब जे० सी०-223654 ए)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) सिंगारा सिंह ग्रेवाल (सं० 1269195 एफ अब जे० सी०-223655 एच)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (एस० के० टी०) सत पाल (सं० 14311095 ए अब जे० सी०-223656 एल)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) साधू सिंह (सं० 14326130 पी अब जे० सी०-223657 एन)---28 अप्रैल, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार (कल्कि) रशपौल सिंह (सं० 14326190 एक अब जे० सी०-223658 डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) गुर प्रकाश सिंह (सं० 14326211 पी अब जे० सी०-223659 वाई)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) सुरेण कुमार सिंह (सं० 14326216 एन अब जे० सी०-223660 एल)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) के० मुरलीधरण (सं० 14326261 ए अब जे० सी०-223661 डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) पंकाजाक्षन सी० एम० (सं० 14326364 वाई अब जे० सी० 223662 वाई) 23 मई 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार (कल्कि) विरेन्द्र सिंह नौहान (सं० 14326365 एक अब जे० सी०-223663 एक)---13 मई, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अप्रैल, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार (कल्कि) भंवर सिंह चौहान (सं० 14326371 पी अब जे० सी०-223664 के)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) मान सिंह भीणा (सं० 14326372 एक्स अब जे० सी०-223665 एम)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) गोपाला स्वामी एस० (सं० 14326424 एच अब जे० सी०-223666 पी)---1 अप्रैल, 1992।

हवलदार (कल्कि) पी० सम्पत कुमार (सं० 14326465 एम अब जे० सी०-223667 एक्स)---3 जून, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार (कल्कि) अबदुर रसीद लक्फर (सं० 14326528 के अब जे० सी०-223668 ए)---1 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार राम उजागीर सिंह (सं० 1265363 एक्स अब जे० सी०-223669 एच)---6 दिसम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार पी० कर्तीभान (सं० 1266799 पी अब जे० सी०-223670 एक्स)---9 अगस्त, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मार्च, 1991)।

हवलदार राम किशन (सं० 1299669 एम अब जे० सी०-223671 ए)---19 मई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991)।

बी० एच० एम० निरंकार सिंह (सं० 14302854 एन अब जे० सी०-223672 एच)---28 मार्च, 1991।

बी० एच० एम० स्वर्ण सिंह (सं० 14304137 वाई अब जे० सी०-223673 एल)---20 मार्च, 1991।

हवलदार एन सुब्रमनियम (सं० 14341746 ए अब जे० सी०-223674 एन)---10 मई, 1991।

हवलदार शम्भु सिंह शेखावत (सं० 1262907 डब्ल्यू अब जे० सी०-223675 डब्ल्यू)---31 मार्च, 1991।

हवलदार रोहिताश यादव (सं० 14324480 एच अब जे० सी०-223676 वाई)---4 जून, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मार्च, 1991)।

हवलदार पीत राम पुनीया (सं० 14319985 एक अब जे० सी०-223677 एक)---15 मार्च, 1991।

हवलदार गुरबयान सिंह (सं० 14313133 एक्स अब जे० सी०-223678 के) — 18 मार्च, 1991।

हवलदार गजिन्दर सिंह (सं० 14317828 के अब जे० सी०-223679 एम) — 18 मार्च, 1991।

हवलदार एम० भेरानथियन (सं० 14324768 एच अब जे० सी०-223680 एफ) — 1 अप्रैल, 1991।

बी० एच० एम० ठि० सेलवाराज (सं० 14325013 एक्स अब जे० सी०-223681 के) — 16 अप्रैल, 1991।

हवलदार बलवल्ल सिंह यादवा (सं० 14325081 एल अब जे० सी०-223682 एम) — 24 मार्च, 1991।

हवलदार मोहम्मद इकबाल खान (सं० 1251366 ए अब जे० सी०-223683 पी) — 13 मार्च, 1991।

हवलदार सुमेर सिंह (सं० 14451939 एच अब जे० सी०-223684 एक्स) — 31 जुलाई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991)।

हवलदार भन बहादुर गुरुंग (सं० 5241357 के अब जे० सी०-223685 ए) — 1 अप्रैल, 1991।

हवलदार कुवेर नाथ मिश्रा (सं० 1260147 ए अब जे० सी०-223686 एच) — 18 मार्च, 1991।

आर० एच० एम० छुष्णा मूर्ती जी० (सं० 14320875 एम अब जे० सी०-223687 एल) — 1 मार्च, 1991।

हवलदार धामोदरत के० (सं० 1261799 एल अब जे० सी०-223688 एम) — 1 मार्च, 1991।

हवलदार राम प्रकाश सिंह (सं० 14456909 पी अब जे० सी०-223689 डब्ल्यू) — 13 मार्च, 1991।

हवलदार धरन झा (सं० 1247612 एच अब जे० सी०-223690 एल) — 26 फरवरी, 1991।

हवलदार हंस राज (सं० 14451336 एम अब जे० सी०-223691 एम) — 1 अप्रैल, 1991।

आर० एच० एम० शाजु एन० कुरीयन (सं० 14339536 एफ अब जे० सी०-223692 डब्ल्यू) — 21 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल, 1991)।

हवलदार जाय पी० के० (सं० 1268400 एल अब जे० सी०-223693 वाई) — 1 अप्रैल, 1991।

हवलदार भारत कुमार (सं० 14323424 एक्स अब जे० सी०-223694 एफ) — 1 मई, 1991।

हवलदार नील सिंह (सं० 14328049 एफ अब जे० सी०-223695 के) — 1 मई, 1991।

हवलदार खेम बहादुर बेतारी (सं० 5842130 ए अब जे० सी०-223696 एम) — 1 मई, 1991।

हवलदार पी० जीया गमन (सं० 14328906 डब्ल्यू अब जे० सी०-223697 पी) — 1 जून, 1991।

हवलदार अबतार सिंह (सं० 1262985 एन अब जे० सी०-223698 एक्स) — 1 जून, 1991।

आर० एच० एम० बालु सिंह (सं० 1269691 एच अब जे० सी०-223699 ए) — 1 जून, 1991।

बी० एच० एम० हरीश बन्धा भाटी (सं० 14319296 एन अब जे० सी०-223700 के) — 12 जून, 1991।

हवलदार बागल शेष राव (सं० 14313578 डब्ल्यू अब जे० सी०-223701 एम) — 10 अगस्त, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1991)।

आर० एच० एम० चुरा मनी (सं० 1299681 एन अब जे० सी०-223702 पी) — 1 जूलाई, 1991।

आर० एच० एम० प्रेम सागर (सं० 14304960 एल अब जे० सी०-223703 एक्स) — 1 जूलाई, 1991।

हवलदार सुरजीत सिंह (सं० 14331183 एक्स अब जे० सी०-223704 ए) — 1 जूलाई, 1991।

हवलदार रत्नेश्वर पाठक (सं० 14326252 वाई अब जे० सी०-223705 एच) — 1 जूलाई, 1991।

हवलदार सुलतान सिंह रायत (सं० 1262344 एफ अब जे० सी०-223706 एल) — 8 अगस्त, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जूलाई, 1991)।

बी० एच० एम० एस० सत्यमूर्ती (सं० 14451207 एम अब जे० सी०-223707 एन) — 7 सितम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1991)।

हवलदार बातार सिंह राजपुत (सं० 1245839 एक्स अब जे० सी०-223708 डब्ल्यू) — 1 अगस्त, 1991।

आर० एच० एम० ताराधनु राम (सं० 14304576 के अब जे० सी०-223709 वाई) — 1 अगस्त, 1991।

बी० एच० एम० मिहनाथ मिह (सं० 14328360 एफ अब जे० सी०-223710 एम) — 17 जून, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1991)।

हवलदार कुलदीप सिंह भलेर (सं० 14451434 एम अब जे० सी०-223711 डब्ल्यू) — 1 अगस्त, 1991।

हवलदार रत्नजीत सिंह (सं० 1249903 एफ अब जे० सी०-223712 वाई) — 1 अगस्त, 1991।

हवलदार हरनाम सिंह (सं० 1256375 एल अब जे० सी०-223713 एफ)---8 अगस्त, 1991।

हवलदार चनी लाल (सं० 1252345 डब्ल्यू अब जे० सी०-223714 के)---1 अगस्त, 1991।

बी० एच० एम० राधा मोहन राम (सं० 1250210 डब्ल्यू अब जे० सी०-223715 एम)---1 अगस्त, 1991।

बी० एच० एम० चिरंजीलाल (सं० 1257363 एच अब जे० सी०-223716 पी)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार ओम प्रकाश (सं० 14323120 ए अब जे० सी०-223717 एक्स)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार एत० भास्करन (सं० 14323169 डब्ल्यू अब जे० सी०-223718 ए)---23 सितम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1991)।

बी० एच० एम० पचम चन्द (सं० 6902805 एक्स अब जे० सी०-223719 एच)---24 जुलाई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1991)।

हवलदार जय सिंह धन्दू (सं० 1269787 एल अब जे० सी०-223720 एक्स)---15 सितम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1991)।

हवलदार गुरमीत सिंह (सं० 14326553 ए अब जे० सी०-223721 ए)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार श्रीराम यादव (सं० 1297962 एल अब जे० सी०-223722 एच)---20 अक्टूबर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1991)।

हवलदार लाल सिंह (सं० 14328478 एच अब जे० सी०-223723 एल)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार राम नारायण (सं० 14323754 डब्ल्यू अब जे० सी०-223724 एन)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार राम पाल (सं० 1261247 एक्स अब जे० सी०-223725 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार बजरंग मिह (सं० 1249240 एफ अब जे० सी०-223726 वाई)---1 सितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० सुखवंत सिंह (सं० 14312287 के अब जे० सी०-223727 एफ)---13 सितम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1991)।

आर० एच० एम० कृष्णा कुट्टी ए० (सं० 1267914 डब्ल्यू अब जे० सी०-223728 के)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार जीत गम (सं० 14452939 पी अब जे० सी०-223729 एफ)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार बाबू लाल के० पी० (सं० 14330744 पी अब जे० सी०-223730 एफ)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार गोहीतास शर्मा (सं० 1292656 एम अब जे० सी०-223731 के)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार रमेश कुमार शर्मा (सं० 14317233 एम अब जे० सी०-223732 एम)---7 नवम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1991)।

आर० एच० एम० सरदारा सिंह (सं० 1254548 वाई अब जे० सी०-223733 पी)---9 नवम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1991)।

हवलदार युग्म बहादुर थापा (सं० 1266714 एन अब जे० सी०-223734 एक्स)---1 जनवरी, 1992।

हवलदार दिग्विजयनाथ विगाठी (सं० 14312620 एक्स अब जे० सी०-223735 ए)---1 नवम्बर, 1991।

आर० एच० एम० मलीखान सिंह (सं० 14306908 एफ अब जे० सी०-223736 एच)---2 जनवरी, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1992)।

हवलदार जीत बहादुर पुन (सं० 5445097 एल अब जे० सी०-223863 एक्स)---13 मार्च, 1991।

हवलदार मनवर सिंह टाका (सं० 14329162 एच अब जे० सी०-223864 ए)---3 मई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च, 1991)।

हवलदार माले राम (सं० 1264530 डब्ल्यू अब जे० सी०-223865 एच)---25 मार्च, 1991।

हवलदार जिबन कृष्णा डे (सं० 13854268 एम अब जे० सी०-223866 एल)---1 मार्च, 1991।

हवलदार खुबी राम शर्मा (सं० 14454418 ए अब सी०-223867 एन)---1 मार्च, 1991।

बी० क्यू० एम० एच० राम किशन (सं० 14319548 पी अब जे० सी०-223868 डब्ल्यू)---1 मई, 1991।

हवलदार बलविन्दर मिह (सं० 1265236 एच अब जे० सी०-223869 वाई)---13 जून, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मई, 1991)।

हवलदार मनिंग चन्द्र (स० 14337516 पी अब जे० सी०-223870 एन)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार रत्न मिह (म० 1266127 एच अब जे० सी०-223871 डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार गय माहेव (म० 14322703 डब्ल्यू अब जे० सी०-223872 वाई)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार मुथुस्वामी बी० (स० 14322731 एच अब जे० सी०-223873 एफ)---12 अगस्त, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 ।

आर० एच० एम० नरवहादुर पुन (स० 5039800 के अब जे० सी०-223874 के)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार गदु लाल (स० 14317256 एन अब जे० सी०-223875 एम)---1 मई, 1991 ।*

हवलदार राम अवध (स० 14324909 एम अब जे० सी०-223876 पी)---6 जलाई, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991 ।

आर० एच० एम० जग वहादुर मिह (स० 1291289 वाई अब जे० सी०-223877 एक्स)---1 जून, 1991 ।

हवलदार सत्य बीर (म० 14331855 वाई अब जे० सी०-223878 ए)---2 जलाई, 1991 ।

हवलदार शादी राम (स० 1265501 एन अब जे० सी०-223879 एच)---30 मार्च, 1991 ।

हवलदार मोहन सिंह (स० 1293679 ए अब जे० सी०-223880 एक्स)---1 मई, 1991 ।

बी० एच० एम० कदम गोपीनाथ वादूराव (म० 14310370 एच अब जे० सी०-223881 ए)---5 मार्च, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 ।

हवलदार बाबूलाल यादव (स० 14319402 एफ अब जे० सी०-223882 एच)---15 मार्च, 1991 ।

हवलदार खियाली राम (स० 14300631 एक्स अब जे० सी०-223883 एन)---15 अप्रैल, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मार्च, 1991 ।

बी० एच० एम० शक्ती सिंह पठानिया (म० 14317559 एच अब जे० सी०-223884 एन)---23 फरवरी, 1991 ।

बी० एच० एम० हरी मिह (म० 14306936 एन अब जे० सी०-223886 डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार रमेश चन्द्र नासकर (स० 11063971 एन अब जे० सी०-223886 वाई)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार कालका मिह (म० 11089951 एक्स अब जे० सी०-223887 एफ)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार नितोशगत पापूज चेतनी (म० 11243981 ए अब जे० सी०-223883 ए)---1 अप्रैल, 1991 ।

बी० एच० एम० उम्मत वा० (म० 14311542 वाई अब जे० सी०-223889 एम)---1 अप्रैल 1991 ।

हवलदार राम वहादुर चेतनी (म० 11243959 पी अब जे० सी०-223890 एफ)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार रमेश (म० 11342957 पी अब जे० सी०-223891 के)---16 अप्रैल, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 ।)

बी० एच० एम० मुलायम मिह (म० 14309269 डब्ल्यू अब जे० सी०-223892 एम)---26 मई, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 ।)

बी० एच० एम० विज्वनाथ गौर (म० 11229111 एक्स अब जे० सी०-223893 पी)---1 जून, 1991 ।

हवलदार धन कुमार थापा (म० 5144704 एम अब जे० सी०-223894 एक्स)---4 जून, 1991 ।

आर० एच० एम० लक्ष्मन रजन (म० 14303941 एन अब जे० सी०-223895 ए)---12 मई, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991 ।)

राम रत्न त्रिपाठी (म० 14320474 एक्स अब जे० सी०-223896 एच)---1 जून, 1991 ।

बी० एच० एम० लाल मिह (म० 4053434 ए अब जे० सी०-223897 एल)---1 जुलाई, 1991 ।

बी० एच० एम० तोण्ण बहादुर थापा (म० 14311935 पी अब जे० सी०-223898 एन)---1 जुलाई, 1991 ।

हवलदार राम निवास (म० 14332311 एम अब जे० सी०-223899 डब्ल्यू)---28 जून, 1991 ।

हवलदार धर्मनीधर उपाध्या (म० 14306746 एफ अब जे० सी०-223900 ए)---10 जलाई, 1991 ।

बी० एच० एम० राजेन मिह (म० 1247306 एन अब जे० सी०-223901 एन)---1 जलाई, 1991 ।

हवलदार अजोा राम (म० 1297596 एच अब जे० सी०-223902 एन)---1 जलाई 1991 ।

हवलदार करता मिह (म० 14302603 के अब जे० सी०-223903 एन)---3 अगस्त, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1991 ।)

हवलदार स्वीकार सिंह (सं० 14305012 एन अब जे० सी० 223904 उड्ढ्यू)---1 अगस्त, 1991।

बी० एच० एम० सुखबीर मिह (मं० 14307991 उड्ढ्यू अब जे० सी० 223905 वाई)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार दर्शन सिंह (सं० 14312056 एन अब जे० सी० 223906 एफ)---1 अगस्त, 1991।

बी० एच० एम० हरी सिंह यादव (सं० 1292308 एल अब जे० सी० 223907 के)---1 अगस्त, 1991।

बी० एच० एम० राजबहादुर राय (मं० 14312115 पी० अब जे० सी० 223908 एम)---10 सितम्बर, 1991।

हवलदार आशाद सिंह (सं० 3971175 एल अब जे० सी० 223909 पी)---16 अक्टूबर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मितम्बर, 1991।)

बी० एच० एम० रविन्द्रन वाई (सं० 14311695 एच अब जे० सी० 223910 के)---1 मितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० मनामलन अहमुगम (मं० 14304623 उड्ढ्यू अब जे० सी० 223911 एम)---1 मितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० खड़का बहादुर थापा (सं० 5745824 उड्ढ्यू अब जे० सी० 223912 पी)---17 मितम्बर, 1991।

हवलदार दया चन्द (सं० 14317521 वाई भज जे० सी० 223913 एस)---1 सितम्बर, 1991।

आर० एच० एम० धरम बीर (सं० 14316706 एन अब जे० सी० 223914 ए)---1 मितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० राम चन्दर धैया (सं० 14302860 एफ अब जे० सी० 223915 एच)---4 मितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० राम चन्दर छोजा (सं० 14302964 एच अब जे० सी० 223916 एल)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार वियास देव (सं० 1297527 उड्ढ्यू अब जे० सी० 223917 एन)---1 मितम्बर, 1991।

हवलदार गोपाल मिह (सं० 4053335 एस अब जे० सी० 223918 उड्ढ्यू)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार यशवंत मिह (सं० 14317938 वाई अब जे० सी० 223919 वाई)---1 सितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० वेद परकाश (सं० 11160921 एम अब जे० सी० 223920 एन)---19 रितम्बर, 1991।

हवलदार पिसीर कुमार गुरुंग (मं० 5444665 वाई अब जे० सी० 223921 उड्ढ्यू)---15 दिसम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1991।)

हवलदार आदी राम (मं० 14309272 उड्ढ्यू अब जे० सी० 223922 वाई)---1 अक्टूबर, 1991।

बी० एच० एम० बलबीर सिंह (सं० 14303210 ए अब जे० सी० 223923 एफ)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार बलीप सिंह यादव (सं० 1247462 एस अब जे० सी० 223924 के)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं० 1266418 एच अब जे० सी० 223925 एम)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार भारत लाल यादव (सं० 14311760 एस अब जे० सी० 223926 पी)---1 अक्टूबर, 1991।

बी० एच० एम० राम मेहर सिंह (सं० 1299050 एल अब जे० सी० 223927 एस)---1 नवम्बर, 1991।

बी० एच० एम० हुकम सिंह यादवा (सं० 1299039 एम अब जे० सी० 223928 ए)---1 नवम्बर, 1991।

बी० एच० एम० कुनीमपल्नी राधाकृष्णन (सं० 14307446 एम अब जे० सी० 223929 एच)---6 नवम्बर 1991।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1991।)

हवलदार अदौदर सिंह यादव (सं० 14308709 एम अब जे० सी० 223930 एस)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार कन्वर मिह (सं० 13856248 एस अब जे० सी० 223931 ए)---30 दिसम्बर 1991।

हवलदार रमेश चन्दर (सं० 1250584 एम अब जे० सी० 223932 एच)---1 दिसम्बर, 1991।

बी० एच० एम० सुखबीर (सं० 14321515 एच अब जे० सी० 223933 एल)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार (कर्कजी० डी०/एस० के० टी०) के पद में

हवलदार कर्क ब्रेश बालू (सं० 1269327 के अब जे० सी० 255008 उड्ढ्यू)---1 जुलाई, 1992।

हवलदार एस० के० टी० अमर सिंह (सं० 11160929 वाई अब जे० सी० 255009 वाई)---1 जुलाई, 1992।

हवलदार एस० के० टी० केशव राम (सं० 14310797 एम अब जे० सी० 255010 एन)---1 जुलाई, 1992।

हवलदार कर्क सुधाप चन्दर मिश्र राणा (सं० 14326563 एम अब जे० सी० 255011 उड्ढ्यू)---1 जुलाई, 1992।

हवलदार कर्क महाबीर सिंह राठौर (सं० 14326612 के अब जे० सी० 255012 वाई)---1 जुलाई, 1992।

हवलदार कर्क सुरिन्दर सिंह (सं० 14326620 एच अब जे० सी० 255013 एफ)---1 जुलाई, 1992।

हवलदार कलकं बलजीत कुमार अल्हारा (सं० 14326642 एवं अब जे० सी०-255014 के) — 1 जुलाई, 1992।

हवलदार कलकं गणेशन जे० (सं० 14326650 ए अब जे० सी०-255015 एम) — 1 जुलाई, 1992।

हवलदार कलकं जयगाल सिंह (सं० 14326680 एम अब जे० सी०-255016 पी) — 1 जुलाई, 1992।

हवलदार कलकं केवल कुल्ला (सं० 14326693 पी अब जे० सी०-255017 एक्स) — 1 जुलाई, 1992।

हवलदार एस० के० टी० किशोरी लाल (सं० 3971082 उल्लू अब जे० सी०-255018 ए) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार एस० के० टी० बलदेव सिंह (सं० 14307007 एवं अब जे० सी०-255019 एव) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार एस० के० टी० सुराधाराज उदय भाष्कर राव (सं० 14311499 एच अब जे० सी०-255020 एक्स) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं मुकुल कुमार धोष (सं० 13854244 एवं अब जे० सी०-255021 ए) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं रमेश चन्द्र कटोच (सं० 14326719 वाई अब जे० सी०-255022 एच) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं अजीत सिंह भूस्थिया (सं० 14326801 एन अब जे० सी०-255023 एल) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं रत्न सिंह (सं० 14326802 उल्लू अब जे० सी०-255024 एन) — 14 अगस्त, 1992।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार कलकं रमेश चन्द्र (सं० 14326803 वाई अब जे० सी०-255025 उल्लू) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं तरलोक सिंह (सं० 14326829 एम अब जे० सी०-255026 वाई) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं कुरिया बोज बी० बी० (सं० 14326833 उल्लू अब जे० सी०-255027 एफ) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं एक्सविपर पी० एम० (सं० 14326835 एफ अब जे० सी०-255028 के) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं जार्ज के० पी० (सं० 14326837 एम अब जे० सी०-255029 एम) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं ओंकार सिंह (सं० 14326887 एक्स अब जे० सी०-255030 एक्स) — 1 अगस्त, 1992।

हवलदार कलकं निर्मल सिंह (सं० 14326892 एच अब जे० सी०-255031 के) — 1 अगस्त, 1992।

पैराण्ट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार लाल भिंड (सं० 13608067 एन अब जे० सी०-220085 एन) — 31 जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार बाला सहिं महारिक (मं० 13610842 उल्लू अब जे० सी०-220086 पी) — 1 दिसम्बर, 1990।

हवलदार शाउ राहें बाजीराव प्रियाल (सं० 13610454 वाई अब जे० सी०-220087 एक्स) — 1 दिसम्बर, 1990।

हवलदार सहेंवराव भिंड (सं० 13610371 एन अब जे० सी०-220088 ए) — 27 मई, 1991।**

**(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार बहादुर भिंड रावत (सं० 13610834 के अब जे० सी०-220089 एव) — 24 जुलाई, 1991।***

****(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार विनान नामदेव मशाकांग (सं० 13610847 पी अब जे० सी०-220090 एक्स) — 18 दिसम्बर, 1990।

हवलदार राम पांडि (सं० 13609915 एव अब जे० सी०-220091 एव) — 10 जार्व, 1991।

हवलदार दुध भिंड (सं० 13603026 एक्स अब जे० सी०-220092 एव) — 1 अप्रैल, 1991।

हवलदार गोपन भिंड (सं० 13603934 के अब जे० सी०-220093 एव) — 20 जून, 1991।****

*****(नायब गूप्तेश्वर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी)।

सी० एच० एम० गुलजार सिंह (सं० 13610906 उल्लू अब जे० सी०-220094 पा) — 14 अप्रैल, 1991।*****

******(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार बलविन्दर भिंड (सं० 13610686 एक्स अब जे० सी०-220095 उल्लू) — 1 अप्रैल, 1991।

हवलदार रमेश चन्द्र यादव, एम० एम० (सं० 13610858 एक्स अब जे० सी०-220096 वाई) — 1 अप्रैल, 1991।

हवलदार करन सिंह (सं० 13608061 के अब जे० सी०-220097 एफ) — 14 अप्रैल, 1991।

हवलदार कृपाल सिंह (सं० 13608966 एम अब जे० सी०-220098 के) — 1 मई, 1991।

हवलदार रघुबर दयाल (सं० 13609567 पी अब जे० सी०-220099 एम) — 1 मई, 1991।

हवलदार तरलोक सिंह (सं० 13609903 डब्ल्यू अब जे० सी०-220100 डब्ल्यू) — 5 जून, 1991। *****
***** (नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 मई, 1991 से दी जायेगी)।

सी० एच० एम० सुखदेव सिंह (सं० 13611174 एक्स अब जे० सी०-220101 वाई) — 22 मई, 1991।*****
***** (नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 मई, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार किशन सिंह (सं० 13608129 ए अब जे० सी०-220102 एफ) — 9 मई, 1991।

हवलदार परताप सिंह (सं० 13610352 एच अब जे० सी०-220103 के) — 9 मई, 1991।

हवलदार इन्द्राज मिह (सं० 13611607 के अब जे० सी०-220104 एम) — 1 जून, 1991।

हवलदार लवादे अकुश (सं० 13610102 एफ अब जे० सी०-220105 पी) — 17 जून, 1991।

हवलदार खरक सिंह रावन (सं० 13608736 वाई अब जे० सी०-220106 एक्स) — 26 जून, 1991।

हवलदार सोमेश्वर दमारी (सं० 13612305 के अब जे० सी०-220107 ए) — 1 जुलाई, 1991।

सी० एच० एम० गम बहादुर गुरंग (सं० 13607384 ए अब जे० सी०-220108 एच) — 2 जुलाई, 1991।

हवलदार देवी चन्द, वी० एस० एम० (सं० 13613065 के अब जे० सी०-220109 एल) — 20 जुलाई, 1991।

सी० एच० एम० रक्षपाल मिह (सं० 3968671 डब्ल्यू अब जे० सी०-220110 ए) — 1 अगस्त, 1991।

हवलदार रणधन्व विठ्ठल मारुति (सं० 13610103 के अब जे० सी०-220111 एच) — 19 अगस्त, 1991।

हवलदार देवीन्दर सिंह (सं० 13609425 एक्स अब जे० सी०-220112 एल) — 1 सितम्बर, 1991।

हवलदार रोहताश सिंह (सं० 13609910 एम अब जे० सी०-220113 एन) — 10 सितम्बर, 1991।*****

***** (नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 सितम्बर, 1991 से दी जाएगी)।

हवलदार कर्तार सिंह (सं० 13609977 एल अब जे० सी०-220114 डब्ल्यू) — 20 सितम्बर, 1991।

सी० एच० एम० प्रेम सिंह (सं० 3968306 ए अब जे० सी०-220115 वाई) — 21 सितम्बर, 1991।

हवलदार जय बक्श सिंह (सं० 13609984 एफ अब जे० सी०-220116 एफ) — 26 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैक में

हवलदार लिपिक लल्लू लाल (सं० 13607548 एल अब जे० सी०-220117 के) — 1 जून, 1991।

हवलदार लिपिक मुशु सामी थंगावेल (सं० 13607601 के अब जे० सी०-220118 एम) — 1 जुलाई, 1991।

हवलदार लिपिक कुलवन्त सिंह (सं० 13607696 डब्ल्यू अब जे० सी०-220119 पी) — 1 जुलाई, 1991।

हवलदार लिपिक मान सिंह (सं० 13607683 वाई अब जे० सी०-220120 के) — 1 जुलाई, 1991।

हवलदार लिपिक हजारी लाल (सं० 13607729 डब्ल्यू अब जे० सी०-220121 एम) — 1 अगस्त, 1991।

हवलदार लिपिक सुरेन्द्र सिंह नेगी (सं० 13607853 एक्स अब जे० सी०-220122 पी) — 1 अगस्त, 1991।

हवलदार लिपिक बुज राज सिंह (सं० 13608354 पी अब जे० सी०-220123 एक्स) — 1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक संसार चन्द (सं० 13608558 एफ अब जे० सी०-220124 ए) — 1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक बिहारी लाल धिमन (सं० 13609181 पी अब जे० सी०-220125 एच) — 1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक सुभाष चन्द्र (सं० 13609207 वाई अब जे० सी०-220126 एल) — 1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक अवधेश बहादुर सिंह (सं० 13609214 पी अब जे० सी०-220127 एन) — 1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक दामोदरन किरणाटिल (सं० 13609215 एक्स अब जे० सी०-220128 डब्ल्यू) — 1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक भूपैन्दर सिंह थांडी (सं० 13607605 एफ अब जे० सी०-220129 वाई) — 8 सितम्बर, 1991।

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार माधो सिंह (सं० 2665617-एन अब जे० सी०-220130 एन) — 18 मई, 1991।

हवलदार नन्द सिंह (सं० 2664900 पी अब जे० सी०-220131 डब्ल्यू) — 1 जुलाई, 1991।

हवलदार अर्णु कुमार शर्मा (सं० 2665412 वाई अब जे० सी०-220132 वाई) — 4 जुलाई, 1991।

भाग I—शण्ड 4। भारत खा संजपन, दिसम्बर 19, 1992 (अग्रहायण 28, 1914)

हवलदार प्रीतम चन्द (सं० 2660776 एक अब जे० सी०-220133 एक)---12 जुलाई, 1991।

हवलदार आशा राम (सं० 2661448 ए अब जे० सी०-220134 के)---12 जुलाई, 1991।

हवलदार अश्वन राम (सं० 2664878 पी अब जे० सी०-220135 एम)---1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैक में

हवलदार लिपिक हजारा सिह (सं० 2663043 एन अब जे० सी०-220136 पी)---6 अगस्त, 1991।

हवलदार निपिक अजीन दिह (सं० 2663047 के अब जे० सी०-220137 एक)---19 अगस्त, 1991।

*नायब सूबेदार लिपिक के रैक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 अगस्त, 1991।

हवलदार निपिक कुणाल मिह गुलिया (सं० 2663919 एक अब जे० सी०-220138 ए)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार निपिक शेष रहीम (सं० 2664704 पी अब जे० सी०-220139 एच)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार लिपिक फोह सिह भाटी (सं० 2664764 के अब जे० सी०-220140 एक)---1 नवम्बर, 1991।

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार हरवेश लाल (सं० 2665124 एम अब जे० सी०-220141 ए)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार मनीर खान (सं० 2664357 एक अब जे० सी०-220142 एच)---10 जुलाई, 1991।*

*नायब सूबेदार के रैक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1991।

हवलदार प्रीतम चन्द (सं० 2668115 डब्ल्यू अब जे० सी०-220143 एल)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार हरवेश लाल (सं० 2659069 एल अब जे० सी०-220144 एन)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार गनपत मिह (सं० 2665453 एच अब जे० सी०-220145 डब्ल्यू)---11 नवम्बर, 1991।

हवलदार सूरज मन (सं० 2659924 पी अब जे० सी०-220146 वाई)---22 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक के रैक में

हवलदार लिपिक कीकर मिह (सं० 2663031 वाई अब जे० सी०-220147 एक)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार लिपिक बाबू राम (सं० 2662528 के अब जे० सी०-220148 के)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक बाबू राम ठाकुर (सं० 2664733 के अब जे० सी०-220149 एम)---1 नवम्बर, 1991।

मराठा साईट हन्केन्ट्री
नायब सूबेदार लिपिक के रैक में

हवलदार लिपिक जाधव बाबू दादाभाऊ (सं० 1450865 एम अब जे० सी०-220150 एक)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक महाडिक सुरेश जोतीराम (सं० 2768039 के अब जे० सी०-220151 के)---7 अक्टूबर, 1991।*

*नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1991 से दी जाती है।

हवलदार लिपिक एम० डी० युसुफ (सं० 2768103 डब्ल्यू अब जे० सी०-220152 एम)---15 नवम्बर, 1991।*

*नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1991 से दी जाती है।

हवलदार लिपिक घोड़के पाढ़ुरंग गणपति (सं० 2768137 के अब जे० सी०-220153 पी)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक देवेण्वर कोलीटा (सं० 14520282 के अब जे० सी०-220154 एक्स)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक पश्चा समझा गगाप्पा जयान्ना (सं० (सं० 2765599 एन अब जे० भी०-220155 ए)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक विठ्ठल अभिमन्यु पाटील (सं० 2768456 डब्ल्यू अब जे० सी०-220156 एच)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक थोरात प्रल्हाद विठ्ठलराव (सं० 2768623 एक अब जे० सी०-220157 एन)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक तांबे हरीदास (सं० 2769068 एल अब जे० सी०-220158 एन)---1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार पाटील एकनाथ गोपाल (सं० 2770688 एम अब जे० सी०-220159 डब्ल्यू)---26 अक्टूबर, 1991।

हवलदार दशरथ बाबू चौहान (सं० 2771056 पी अब जे० सी०-220160 एल)---17 मई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जाती है।)

हवलदार विलास चन्द्रकात तवदीकर (सं० 2770363 ए अब जे० सी०-220161 एन)---28 अक्टूबर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991 से दी जाती है।)

हवलदार कुमार अशोक शंकर (सं० 2768911 एन अब जे० सी०-220162 डब्ल्यू) — 2 नवम्बर, 1991 !*

*(नायब यूबेदार के रैक में बेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार भाऊ तिक्किले, एस० एम० (सं० 2772112 पी अब जे० सी०-220163 वाई) — 1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार गोविन्द गिह (रं० 2867862 वाई अब जे० सी०-220164 एफ) — 29 अगस्त, 1991 !*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार योगिन्द्र सिह (सं० 2868275 ए अब जे० सी०-220165 के) — 10 जुलाई, 1991 ।

हवलदार माल सिह (सं० 2867863 एफ अब जे० सी०-220166 एम) — 5 अगस्त, 1991 ।

हवलदार परताप सिह गहलान (रं० 2869627 वाई अब जे० सी०-220167 पी) — 1 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार जगमाल सिह शेखावत (सं० 2866274 वाई अब जे० सी०-220168 एक्स) — 18 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार रघुनाथ मिह (सं० 2867932 एम अब जे० सी०-220169 ए) — 1 अक्टूबर, 1991 ।

राजपूत रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार इन्द्रजीत (सं० 2971371 पा अब जे० सी०-220170 पी) — 23 फरवरी, 1991 ।

हवलदार सुखचैतन प्रसाद मिह (सं० 2968320 डब्ल्यू अब जे० सी०-220171 एक्स) — 1 जून, 1991 !*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार मूल चन्द (सं० 2973591 प्ल अब जे० सी०-220172 ए) — 1 जून, 1991 ।

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं० 2972435 एफ अब जे० सी०-220173 एच) — 1 जुलाई, 1991 ।

हवलदार मोहम्मद मौजाम्पल हक (सं० 2972081 के अब जे० सी०-220174 एल) — 1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैक में

हवलदार कलकटा दिव्य शंकर सिह (सं० 2966872 एल अब जे० सी०-220175 एन) — 1 अक्टूबर, 1991 !*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैक में बेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 1 जून, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार कलकटा प्रकाश चन्द राना (सं० 2971681 ए अब जे० सी०-220176 डब्ल्यू) — 1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कलकटा रामपाल सांगवाल (सं० 2971714 ए अब जे० सी०-220177 वाई) — 20 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार कलकटा नारेन्द्र कुमार (सं० 2971748 एन अब जे० सी०-220178 एफ) — 1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार राज कान्ता वरगान (सं० 2971205 एक अब जे० सी०-220179 के) — 5 अक्टूबरी, 1991 ।

हवलदार धर्म चन्द्रा मिह (सं० 2965346 ए अब जे० सी०-220180 वाई) — 19 अगस्त, 1991 !*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैक में बेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 1 जुलाई, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बाई पाल मिह (सं० 2970540 वाई अब जे० सी०-220181 एक) — 17 नवम्बर, 1991 !*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैक में बेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 21 सितम्बर, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राम छिलाडी (सं० 2968201 ए अब जे० सी०-220182 के) — 1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैक में

हवलदार कलकटा बुर्जकिशोर शर्मा (सं० 2971696 एच अब जे० सी०-220183 एम) — 1 अक्टूबर, 1991 ।

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार गहराओर प्रसाद फोगाट (सं० 13858615 एक्स अब जे० सी०-220184 पी) — 1 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार कृष्ण मिह (सं० 3162297 एम अब जे० सी०-220185 एक्स) — 16 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार लूप निह (सं० 3167170 एन अब जे० सी०-220186 ए) — 3 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार पूरन राम (सं० 3166614 ए अब जे० सी०-220187 एच) — 7 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार जय पाल (सं० 3164856 के अब जे० सी०-220188 एल)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार दलीप सिंह (सं० 3164198 एच शब जे० सी०-220189 एन)---28 अक्टूबर, 1991।

हवलदार महा सिंह (सं० 3164762 एम अब जे० सी०-220190 एच)---25 नवम्बर, 1991।³

*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठना 22 नवम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कलर्क के रैक में

हवलदार कलर्क हरदीना राम जाट (सं० 3166258 एल अब जे० सी०-220191 एल)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार कलर्क राम किशन (सं० 3166260 एच अब जे० सी०-220192 एन)---1 नवम्बर, 1991।

मिख रेजिस्ट्रेट

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार अजीत सिंह (सं० 3371355 इडल्यू अब जे० सी०-220193 इडल्यू)---8 मई, 1991।

हवलदार गुरमीत सिंह (सं० 3372458 एफ अब जे० सी०-220194 वाई)---01 जूलाई, 1991।

हवलदार रोवा सिंह (सं० 3373324 पी अब जे० सी०-220195 एफ) 6 अक्टूबर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठना 1 अक्टूबर, 1991 से दी जाती है)।

हवलदार मेजर मिह (सं० 3371986 वाई अब जे० सी०-220196 के)---1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार कलर्क के रैक में

हवलदार कलर्क जरनेल मिह (सं० 14520809 एन अब जे० सी०-220197 एम)---1 दिसम्बर, 1991।

मिख रेजिस्ट्रेट

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार समरथ मिह (सं० 3372588 के अब जे० सी०-220198 पी)---1 अक्टूबर, 1990।

हवलदार जोरा सिंह (सं० 3374917 एन अब जे० सी०-220199 एक्स)---31 दिसम्बर, 1990।

हवलदार धाज सिंह (सं० 3368070 वाई अब जे० सी०-220200 एफ)---1 जनवरी, 1991।

हवलदार निरमल सिंह (सं० 3368784 एम अब जे० सी०-220201 के)---1 जनवरी, 1991।

हवलदार बद्धसीम मिह (सं० 3375123 पी अब जे० सी०-220202 एम)---1 जनवरी, 1991।

हवलदार बमरोर निह (सं० 3374690 एल अब जे० सी०-220203 पी)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार जनवान मिह (सं० 3375663 एन अब जे० सी०-220204 एक्स)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार सोम मिह (सं० 3371989 एम अब जे० सी०-220205 ए)---1 अप्रैल, 1991।

हवलदार नरेन सिंह (सं० 3370484 के अब जे० सी०-220206 एच)---28 अप्रैल, 1991।

हवलदार धना मिह (सं० 3371202 एम अब जे० सी०-220207 एल)---30 जून, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठना 1 जून, 1991 से दी जाती है)।

हवलदार मेजर मिह (सं० 3372541 वाई अब जे० सी०-220208 एन)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार मनकीत मिह (सं० 3371907 वाई अब जे० सी०-220209 इडल्यू)---18 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार कलर्क के रैक में

हवलदार कलर्क संकटा प्रसाद मिह (सं० 2868972 ए अब जे० सी०-220210 एल)---1 दिसम्बर, 1991।

डोगरा रेजिस्ट्रेट

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं० 3966965 इडल्यू अब जे० सी०-220211 एन)---9 अगस्त, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार अमर नाथ (सं० 3968936 ए अब जे० सी०-220212 इडल्यू)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार प्रेम तिह वर्मा (सं० 3968872 ए अब जे० सी०-220213 वाई)---2 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार कलर्क के रैक में

हवलदार कलर्क ज्ञान सिंह (सं० 3971080 एल अब जे० सी०-220214 एफ)---1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार कलर्क गिरधारी लाल शर्मा (सं० 3971284 एक्स अब जे० सी०-220215 के)---1 दिसम्बर, 1991।

गढ़वाल गढ़कल्प

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार स्वरूप मिह (सं० 4050981 के अब जे० सी०-220216 एम)---1 जून, 1991।

हवलदार श्री चन्द्र सिंह (सं० 4051432 डब्ल्यू अब जे० सी०-220217 पी)---1 जून, 1991।

हवलदार त्रिलोक मिह (सं० 4056823 एल अब जे० सी०-220218 एक्स)---1 अक्टूबर 1991।

हवलदार गौर सिंह (सं० 4054339 ए अब जे० सी०-220219 ए)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार पुरुषोत्तम (सं० 4054125 के अब जे० सी०-220220 पी)---1 अक्टूबर, 1991।*

हवलदार कलम सिंह तोपाल (सं० 4052047 वाई अब जे० सी०-220221 एक्स)---9 नवम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 1 अक्टूबर, 1991 से दी जाती है)।

हवलदार महिताव्र सिंह (सं० 4055438 पी जे० सी०-220222 ए)---9 अक्टूबर, 1991।

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं० 4056275 वाई अब जे० सी०-220223 एच)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार ध्यान सिंह रावत (सं० 4049944 के अब जे० सी०-220224 एल)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार खुशाल सिंह (सं० 4055175 एफ अब जे० सी०-220225 एन)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार प्रेम सिंह (सं० 6462458 एल अब जे० सी०-220226 डब्ल्यू)---14 नवम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 1 नवम्बर, 1991 से दी जाती है)।

हवलदार सुन्दर सिंह (सं० 4057718 एफ अब जे० सी०-220227 वाई)---22 नवम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 1 नवम्बर, 1991 से दी जाती है)।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैक में

हवलदार लिपिक राजेन्द्र मिह (सं० 4054651 एच अब जे० सी०-220228 एफ)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार लिपिक नारायण सह (सं० 4054859 एल अब जे० सी०-220229 के)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक उमा नन्द जुयाल (सं० 4055010 एच अब जे० सी०-220230 वाई)---1 दिसम्बर, 1991।

दि कुमाऊं रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार पुज्जर सिंह (सं० 4162571 पी अब जे० सी०-220231 ए)---7 अगस्त, 1991।

हवलदार राम वन (सं० 13607777 डब्ल्यू अब जे० सी०-220232 के)---25 सितम्बर, 1991।

हवलदार उमेद मिह (सं० 13608523 एल अब जे० गी०-220233 एन)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार उदय मिह (सं० 4164326 एल अब जे० गी०-220234 पी)---19 नवम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 सितम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

दि नागा रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार मोहन चन्द (सं० 4162772 एन अब जे० सी०-220235 एक्स)---1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार शिव परमन मिह (सं० 4252739 एक्स अब जे० सी०-220236 प.)---1 जनवरी, 1991।

सो० एच० प्र० कामेश्वर पासवान (सं० 4248900 के अब जे० सी०-220237 एच)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार सुक देव राम (सं० 4249094 पी अब जे० सी०-220238 एल)---26 जुलाई, 1991।

हवलदार कृष्णा नन्द सिंह (सं० 4250392 एक्स अब जे० सी०-220239 एन)---30 अगस्त, 1991।*

(*नायब सूबेदार के रैक में भत्तों और बेतन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 21 अगस्त, 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार मधु प्रधान बारी (सं० 4253686 डब्ल्यू अब जे० सी०-220240 एच)---17 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार (कलर्क) के रैक में

हवलदार (कलर्क) जय नन्दन राय (सं० 4252085 वाई अब जे० सी०-220241 एल)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क) विजय बहादुर सिंह (सं० 2970233 प्र० अब जे० सी०-220242-एन)---1 नवम्बर, 1991।

सी० एच० प्र० शम्भु नाथ मिह (सं० 4249315 डब्ल्यू अब जे० सी०-220243 डब्ल्यू)---1 जून, 1991।

हवलदार लौरेन्स निरकी (सं० 4255219 एक्स अब जे० सी०-220244 वाई)---1 जून, 1991।

सी० एच० प्र० लक्ष्मण साह (सं० 4249935 एम अब जे० सी०-220245 एफ)---20 सितम्बर, 1991।

हवलदार अवधेश ठाकुर (सं० 4249912 एम अब जे० सी०-220246 के)---1 अक्टूबर, 1991।

सी० एच० एम० बेनूधर लायक (सं० 4253724 एफ अब जे० सी०-220247 एम) — 1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार धरमीश्वर प्रधान (सं० 4254112 डब्ल्यू अब जे० सी०-220248 पी) — 1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार राम औतार महतो (सं० 4254633 के अब जे० सी०-220249 एक्स) — 1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार अदनी कात्ता साहू (सं० 4255900 एम अब जे० सी०-220250 एम) — 1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार साहेब मांझी (सं० 4252989 वाई अब जे० सी०-220251 पी) — 1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार उमेश प्रसाद शर्मा (सं० 4250510 ए अब जे० सी०-220252 एक्स) — 1 नवम्बर, 1991।

मिहार रेजिस्ट्रेटर

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार (कलर्क जी० डी०) चागदेव लायडे (सं० 4541388 एम अब जे० सी०-220253 ए) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) सन्सार चन्द्र वर्मा (सं० 9213207 डब्ल्यू अब जे० सी०-220254 एच) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) जगमल सिंह सुहाग (सं० 9213355 एफ अब जे० सी०-220255 एल) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) महिपाल सिंह (सं० 9213570 एम अब जे० सी०-220256 एन) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) मान सिंह (सं० 9213752 ए अब जे० सी० 221257 डब्ल्यू) — 1 नवम्बर 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) पाश्वनाथ वैद्या (सं० 9213830 एम अब जे० सी०-220258 वाई) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) आत्मा सिंह (सं० 9214673 एक्स अब जे० सी०-220259 एफ) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) नवीन कुमार मिश्रा (सं० 9214702 एफ अब जे० सी०-220260 डब्ल्यू) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) सुरेश देवराव जाधव (सं० 4542993 एम अब जे० सी०-229261 वाई) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) निर्मल मिह (सं० 9214757 एल अब जे० सी०-220262 एफ) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० डी०) सुभाष चन्द्र उद्धास (सं० 9214766 एम अब जे० सी०-220263 के) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार उमेद गिर (सं० 4545977 ए० अब जे० सी०-220264 एम) — 11 अगस्त, 1991।

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भलों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 जून, 1991 से की जायेगी।)

हवलदार चंत सिंह (सं० 4545295 पी अब जे० सी०-220265 पी) — 1 अक्टूबर, 1991।

सी० एच० एम० जेकियर मिञ्ज (सं० 9214986 डब्ल्यू अब जे० सी०-220266 एक्स) — 12 अक्टूबर, 1991।

सी० एच० एम० भगवान वास (सं० 4543360 एल अब जे० सी०-220267 ए) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार नवल किशोर पाण्डे (सं० 4543450 एम अब जे० सी०-220268 एच) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार दान सिंह (सं० 9213173 एन अब जे० सी०-220269 एल) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार राम सिंह यादव (सं० 9213210 डब्ल्यू अब जे० सी०-220270 ए) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार हुकम चन्द्र (सं० 9213223 एस अब जे० सी०-220271 ए) — 1 नवम्बर, 1991।

हवलदार सुरेश चन्द्र वास (सं० 4546974 वाई अब जे० सी०-220272 एल) — 1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (कलर्क जी० डी०) के रैक में

हवलदार (कलर्क जी० डी०) घोमस योहमन पी० (सं० 9214782 के अब जे० सी०-220273 एस) — 1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार (कलर्क जी० जी०) मंगीलाल रामावत (सं० 9214851 डब्ल्यू अब जे० सी०-220274 डब्ल्यू) — 1 दिसम्बर, 1991।

जमू और काश्मीर राइफल्स

नायब सूबेदार लिपिक के रैक में

हवलदार लिपिक दलजीत सिंह (13735315 पी अब जे० सी०-220275 वाई) — 01 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक चंचल सिंह (13735345 एम अब जे० सी०-220276 एफ) — 01 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक होशियार सिंह (13735423 वाई अब जे० सी०-220277 के) — 01 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैक में

हवलदार चन्दा सिंह (13733545 के अब जे० सी०-220278 एम) — 01 जून, 1991।

हवलदार ईश्वर दास (13735653 एम अब जे० सी०-220279 पी)---01 अगस्त, 1991।

हवलदार तारा चन्द (13736155 एम अब जे० सी०-220280 के)---01 अगस्त, 1991।

हवलदार गुरुभरन सिंह (13736387 एल अब जे० सी०-220281 एम)---24 अगस्त, 1991।

हवलदार गुरुधारी लाल (13735599 के अब जे० सी०-220282 पी)---01 सितम्बर, 1991।

हवलदार कुलबन्ति सिंह '13732959 के अब जे० सी०-220283 वाई)---16 सितम्बर, 1991।

हवलदार जगपाल सिंह (13735099 एम)---अब जे० सी०-220284 ए)---17 सितम्बर, 1991।

हवलदार ओम प्रकाश (13732445 एम अब जे० सी०-220285 एच)---20 सितम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार जगदीश चन्द (13735280 के अब जे० सी०-220286 एल)---22 सितम्बर, 1991।

हवलदार नरोत्तम सिंह समव्याल (13735843 वाई अब जे० सी०-220287 एन)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार पूर्ण चन्द (13732200 डब्ल्यू अब जे० सी०-220288 डब्ल्यू)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार शंकर देव (13734716 एक्स अब जे० सी०-220289 वाई)---04 अक्टूबर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार बलदेव राज (13732282 के अब जे० सी०-220290 एन)---02 नवम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नव बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक जगदीश कुमार (सं० 5039822 एच अब जे० सी०-220291 डब्ल्यू)---01 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैक में

हवलदार कुलदीप सिंह (सं० 13735835 ए अब जे० सी०-220292 वाई)---01 जून, 1991।

हवलदार तरसेम सिंह (सं० 3371753 एक्स अब जे० सी०-220293 एफ)---19 जुलाई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार सुलखन सिंह (सं० 13736181 एन अब जे० सी०-220294 के)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार रत्न चन्द (सं० 13734024 एच अब जे० सी०-220295 एम)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार तरसेम कुमार (सं० 13734214 पी अब जे० सी०-220296 पी)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार जसवन्त सिंह (सं० 13733471 ए अब जे० सी०-220297 एक्स)---06 नवम्बर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार ऑकार सिंह (सं० 13736700 एल अब जे० सी०-220298 ए)---01 सितम्बर, 1991।

हवलदार अवतार सिंह (सं० 3371433 एच अब जे० सी०-220299 एच)---26 सितम्बर, 1991।

हवलदार मदन लाल (सं० 13731868 एन अब जे० सी०-220300 एम)---26 सितम्बर, 1991।

हवलदार स्वरूप लाल (सं० 13732984 पी अब जे० सी०-220301 पी)---26 सितम्बर, 1991।

हवलदार बंशी लाल (सं० 13734422 के अब जे० सी०-220302 एक्स)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार राम स्वरूप (13732313 वाई अब जे० सी०-220303 ए)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार दौलत राम (सं० 13732514 एक्स अब जे० सी०-220304 एच)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार निलक राज (सं० 13735236 ए अब जे० सी०-220305 एल)---01 नवम्बर, 1991।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद राई (सं० 9412052 के अब जे० सी०-220306 एन)---01 अगस्त, 1991।

हवलदार (लिपिक) प्रेम लाल (सं० 9413242 एच अब जे० सी०-220307 डब्ल्यू)---18 अक्टूबर, 1991।

हवलदार प्रकाश नयांग (सं० 9412447 एल अब जे० सी०-220308 वाई)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार सहायीर तयांग (सं० 9412469 के अब जे० सी०-220309 एफ)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार जूनबीर राई (सं० 9412476 ए अब जे० सी०-220310 डब्ल्यू)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार एश बहादुर राई (सं० 9412486 के अब जे० सी०-220311 वाई)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार भक्ता बहादुर क्षेत्री (सं० 9413642 पी अब जे० सी०-220312 एफ)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार राम बहादुर गुरुंग (सं० 9413889 उड्ल्यू अब जे० सी०-220313 के)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार अम्बर धोज राई (सं० 9413057 पी अब जे० सी०-220314 एम)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार सांगी शेरपा (सं० 9412779 पी अब जे० सी०-220315)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार जगवीश लिम्बू (सं० 9413225 एच अब जे० सी०-220316 वाई)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार प्रहलाद चन्द्र रत्न कार्की (सं० 9413633 एन अब जे० सी०-220317 ए)---01 दिसम्बर, 1991।

1 जी० आर०

नायब सूबेदार (संगी तंत्र) के रैंक में

हवलदार श्याम बहादुर थापा (सं० 5038624 एल अब जे० सी०-220318 एच)---05 अक्टूबर, 1991।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बीरन कुमार धोले (सं० 5341677 एन अब जे० सी०-220319 एल)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार कृष्ण बहादुर राना (सं० 5341723 एक्स अब जे० सी०-220320 ए)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार चित्र बहादुर हमाल (सं० 5341846 के अन जे० सी०-220321 एच)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार मोहन सिंह गुरुंग (सं० 5341808 एन अब जे० सी०-220322 एल)---01 अक्टूबर, 1991।

9 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार युवराज आचार्य (सं० 5841083 एफ अब जे० सी०-220323 एन)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार हेम बहादुर छेत्री (सं० 5841086 पी अब जे० सी०-220324 उड्ल्यू)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार इम्बर बहादुर छेत्री (सं० 5841347 एक्स अब जे० सी०-220325 वाई)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार धन बहादुर खन्नी (सं० 5841490 के अब जे० सी०-220326 एफ)---01 नवम्बर, 1991।

3 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रत्ना बहादुर खन्नी (सं० 5240951 वाई अब जे० सी०-220327 के)---11 अक्टूबर, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव छाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1991 से वी आयेगी)।

हवलदार राम सिंह राणा (सं० 5240329 एल अब जे० सी०-220328 ए)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार छम बहादुर थापा (सं० 5240310 एम अब जे० सी० 220329 पी) 01 नवम्बर 1991।

हवलदार डम्बर बहादुर थापा (सं० 5240406 पी अब जे० सी० सी०-220330 के)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार चन्द्र प्रकाश गुरुंग (सं० 5243382 एफ अब जे० सी०-220331 एम)---01 नवम्बर, 1991।

हवलदार खूम बहादुर (सं० 5240407 एक्स अब जे० सी०-220332 पी)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार श्री प्रसाद पून (सं० 5240418 के अब जे० सी०-220333 एक्स)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार श्री प्रसाद थापा (सं० 5240419 एम अब जे० सी०-220334 ए)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार खर्का बहादुर पून (सं० 5240436 एम अब जे० सी०-220335 ए)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार सुखदोज गुरुंग (सं० 5240450 वाई अब जे० सी०-220336 एल)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार सन्त बहादुर खन्डका (सं० 5242226 एल अब जे० सी० सी०-220337 एन)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार टेक बहादुर मगर (सं० 5241490 एम अब जे० सी०-220338 उड्ल्यू)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार भरत कुमार लिम्बू (सं० 5140135 एच अब जे० सी०-220339 वाई)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार तोप बहादुर गुरुंग (सं० 5241523 एम अब जे० सी०-220340 एन)---01 दिसम्बर, 1991।

हवलदार भोज बहादुर राई (सं० 5241554 एम अब जे० सी०-220341 उड्ल्यू)---01 दिसम्बर, 1991।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रेमान प्रधान (सं० 5445676 एक्स अब जे० सी० सी०-220342 वाई)---1 जनवरी, 1991।

हवलदार दल बहादुर राना (सं० 5443735 ए अब जे० सी०-220343 एफ)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार जग राज थापा (सं० 5444639 एक्स अब जे० सी०-220344 के)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार रंगिन जंग गुरुंग (सं० 5444738 एच अब जे० सी०-220345 एम)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार यम बहादुर गुरुंग (सं० 5445076 पी अब जे० सी०-220346 पी)---1 अक्टूबर, 1991।

हृष्णलदार रमेश अनन्द गुरुंग (सं० 5445555 उम्प्यू अब जे० सी०-220347 एक्स) 1 अक्टूबर, 1991।

हृष्णलदार मंगेश कुमार थापा (सं० 5445938 एच अब जे० सी०-220348 ए) 1 अक्टूबर, 1991।

हृष्णलदार मुक्ता बहानुर गुरुंग (सं० 5446227 पी अब जे० सी०-220349 ए) 1 अक्टूबर, 1991।

हृष्णलदार सुरक्ष बहानुर गुरुंग (सं० 5447103 एम अब जे० सी०-220350 एक्स) 1 नवम्बर, 1991।

हृष्णलदार विल बहानुर थाले (सं० 5444213 उम्प्यू अब जे० सी०-220351 ए) 1 नवम्बर, 1991।

8 जी० आर०

मायब सूबेदार के रैक में

हृष्णलदार देमी राम थापा छैकी (सं० 5745615 वाई अब जे० सी०-220352 एच) 27 जुलाई, 1991।

हृष्णलदार विजय परताप गुरुंग (सं० 5746478 एक्स अब जे० सी०-220353 एल) 1 अक्टूबर, 1991।

हृष्णलदार खड़का बहानुर थापा (सं० 5747246 एल अब जे० सी०-220354 एन) 1 नवम्बर, 1991।

हृष्णलदार भन बहानुर गुरुंग (सं० 5746370 ए अब जे० सी०-220355 उम्प्यू) 1 नवम्बर, 1991।

हृष्णलदार भीन बहानुर थापा (सं० 5749304 एच अब जे० सी०-220356 वाई) 18 मार्च, 1991।

हृष्णलदार बल बहानुर थापा (सं० 5746450 एक्स अब जे० सी०-220357 एफ) 18 मार्च, 1991।

हृष्णलदार कुल बहानुर राणा (सं० 5747263 एल अब जे० सी०-220358 के) 18 मार्च, 1991।

हृष्णलदार धन राज गुरुंग (सं० 5747536 एच अब जे० सी०-220359 एम) 18 मार्च, 1991।

हृष्णलदार टीका राम थापा (सं० 5748396 एन अब जे० सी०-220360 एफ) 18 मार्च, 1991।

हृष्णलदार तेज बहानुर थापा (सं० 5749524 एम अब जे० सी०-220361 के) 18 मार्च, 1991।

हृष्णलदार दुर्गा बहानुर गमल मगर (सं० 5750141 एम अब जे० सी०-220362 एम) 18 मार्च, 1991।

हृष्णलदार टीका बहानुर राणा (सं० 5748642 एम अब जे० सी०-220363 पी) 18 मार्च, 1991।

हृष्णलदार मरेन थापा (सं० 5746871 ए अब जे० सी०-220364 वाई) 11 सितम्बर, 1991।*

*(मायब सूबेदार के रैक में बेसन और भस्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अगस्त, 1991 से दी जायेगी)।

मरेन्स सिंह,
इंस्क अधिकारी

सं० 1145, विमानक 23 नवम्बर, 1992—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेवा

कोर ऑफ मिलट्री पुलिस
नायब सूबेदार के रैक में

हृष्णलदार मदावालप्पा शिदागोम्प्पा मनुपिरी (सं० 7768217 उम्प्यू अब जे० सी०-818001 एम) 1 जुलाई, 1992।

हृष्णलदार मनोहर लाल शर्मा (सं० 7768234 उम्प्यू अब जे० सी०-818002 पी) 13 जुलाई, 1992।*

हृष्णलदार योगेन्द्र सिंह (सं० 7767939 उम्प्यू अब जे० सी०-818003 एक्स) 22 जुलाई, 1992।*

हृष्णलदार ग्रीज पाल सिंह (सं० 7768265 उम्प्यू अब जे० सी०-818004 एफ) 1 जुलाई, 1992।

हृष्णलदार जगमोहन ठाकुर (सं० 7767178 उम्प्यू अब जे० सी०-818005 एच) 1 अगस्त, 1992।*

हृष्णलदार जीत राम शर्मा (सं० 7768358 एल अब जे० सी०-818006 एल) 1 अगस्त, 1992।

*(मायब सूबेदार के रैक में बेतन और भस्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1992 से दी जायेगी)।

महार रेजिस्टर

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार चनन सिंह डिल्लों (जे० सी०-66255 ए) 1 अगस्त, 1987।

सूबेदार हुकम सिंह (जे० सी०-58132 वाई) 1 अक्टूबर, 1987।

सूबेदार पाला राम (जे० सी०-94848 एच) 1 अक्टूबर, 1987।

सूबेदार धनी राम (जे० सी०-84298 एक्स) 1 नवम्बर, 1987।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार पेर सिंह यादव (जे० सी०-117658 एल) 1 अगस्त, 1987।

नायब सूबेदार शशिकान्त थावण (जे० सी०-117682 एफ) 3 अगस्त, 1987।

नायब सूबेदार राम चन्द्र बेहरा (जे० सी०-121932 पी) 16 सितम्बर, 1987।

नायब सूबेदार प्रकाश थम्ब (जे० सी०-122135 उम्प्यू) 17 सितम्बर, 1987।

नायब सूबेदार विश्वन वत (जे० सी०-126499 ए) 1 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-129559 पी) —
1 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार मेहर चन्द (जे० सी०- 107805 पी) —
2 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार महावेद नागमोते (जे० सी०-102001
उम्मू) — 17 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार सलविंदर सिंह (जे० सी०-113976
एक्स) — 17 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार जेमा नायक (जे० सी०-107266 के)
— 1 नवम्बर, 1987।

नायब सूबेदार रोशनलाल (जे० सी०-107269 एक्स
— 1 नवम्बर, 1987।

नायब सूबेदार नशिकेत ब्रह्माणि (जे० सी०-109449
वाई) — 1 नवम्बर, 1987।

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार हरीसिंह (जे० सी०-152060 वाई) —
1 सितम्बर, 1991।

नायब रिसालदार रनधीर सिंह (जे० सी०-141621 एच)
— 1 अक्टूबर, 1991।

नायब रिसालदार शिव राम जाट (जे० सी०-156764
ए) — 1 नवम्बर, 1991।

नायब रिसालदार राम मेहर (जे० सी०-151968 एच)
— 1 दिसम्बर, 1991।

नायब रिसालदार के० ए० मिथा (जे० सी०-175783
ए) — 1 जनवरी, 1992।

नायब रिसालदार रनधीर सिंह (जे० सी०-152003
एक्स) — 1 जनवरी, 1992।

नायब रिसालदार हरमाम सिंह (जे० सी०-162039
के) — 1 जनवरी, 1992।

नायब रिसालदार इन्दर सिंह (जे० सी०-148217 एक्स) —
1 फरवरी, 1992।

नायब रिसालदार राम रुद्रन सिंह (जे० सी०-168693
उम्मू) — 1 फरवरी, 1992।

नायब रिसालदार जसवंत सिंह (जे० सी०-181348
एफ) — 1 फरवरी, 1992।

नायब रिसालदार विरन्दर सिंह (जे० सी०-156767
एक्स) — 1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार जी० बिल्लपथाह (जे० सी०-147217
के) — 1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार रामपाल सिंह नागर (जे० सी०-
164432 एक्स) — 1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार बनवारी लाल (जे० सी०-168649
एक्स) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार बुर्जन सिंह राठोड़ (जे० सी०-147262
उम्मू) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी०-152033 पी) —
1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार ओम प्रकाश गिल (जे० सी०-
148268 के) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार सुभाकर्ण (जे० सी०-166618 एन)
— 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार सुरिम्दर सिंह (जे० सी०-173764
उम्मू) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार हरि चन्द (जे० सी०-170289 ए) —
1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार दुनी चन्द (जे० सी०-168685
एक्स) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार यश पाल सिंह (जे० सी०-194120
के) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार गोकल सिंह (जे० सी०-157721
के) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार फ्यारू (जे० सी०-162045 एक्स)
01 अप्रैल 1992।

नायब रिसालदार अतर सिंह यादव (जे० सी०-194123
कम्स) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार बीर पाल सिंह (जे० सी०-181346
उम्मू) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार अशोक कुमार (जे० सी०-152749
एक्स) — 1 मई, 1992।

नायब रिसालदार वाई० थानकप्पन (जे० सी०-151997
एक्स) — 1 मई, 1992।

नायब रिसालदार काल मिह (जे० सी०-160828
एक्स) — 1 मई, 1992।

नायब रिसालदार महिन्दर सिंह (जे० सी०-166623
वाई) — 1 मई, 1992।

नायब रिसालदार करनैल सिंह (जे० सी०-140594
एक्स) — 1 मई, 1992।

नायब रिसालदार रनवीर सिंह तलाल (जे० सी०-
155779 एक्स) — 1 मई, 1992।

नायब रिसालदार जमदेव सिंह (जे० सी०-184047
एक्स) — 1 मई, 1992।

नायब रिसालदार जगतार सिंह (जे० सी०-175801
एक्स) — 1 जून, 1992।

व्यवस्थित कोर
रिसालदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब रिसालदार (पंचित) शी० एन० शर्मा (जे० सी०-
72016 एक्स) — 1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार (पंडित) उमा दत्त गौर (जे० सी०-83857 ए)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार (पंडित) छाजू राम शर्मा (जे० सी०-83858 एम)---1 अप्रैल, 1992।

स्थायी रिसालदार के रैक में

नायब रिसालदार हुयात सिंह (जे० सी०-194118 एम)---1 जून, 1991।

नायब रिसालदार /कलर्क (जी० डी०) गौरी शंकर खोवे (जे० सी०-175777 एम)---1 जनवरी 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) राधेश्याम शर्मा (जे० सी०-175808 एफ)---1 जनवरी, 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) बिहारी लाल शर्मा (जे० सी०-175809 के)---1 फरवरी, 1992।

नायब रिसालदार/एस० के० टी० कल्याण सिंह (जे० सी०-152013 एफ)---1 फरवरी, 1992।

नायब रिसालदार विजय बहादुर सिंह (जे० सी०-189649 ए)---1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार गौरी शंकर सिंह (जे० सी०-141635 ए)---1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) अवतार सिंह (जे० सी०-181313 एल)---1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) जरनील सिंह (जे० सी०-181325 ए)---1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) मान सिंह (जे० सी०-181326 एच)---1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) गुमान सिंह झेंदा (जे० सी०-181327 एल)---1 मार्च, 1992।

नायब रिसालदार/एस० के० टी० अजपाल सिंह (जे० सी०-152014 के)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार अवतार सिंह (जे० सी०-171268 उल्लू)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार रामेश्वर सिंह नारा (जे० सी०-173768 एन)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार अब सिंह (जे० सी०-195334 एम)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार हर चन्द (जे० सी०-148195 एच)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार बहु नम (जे० सी०-181328 एन)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) युगल किशोर सिंह (जे० सी०-181330 एल)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) गुरदिप सिंह (जे० सी०-181331 एन)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार हरनाम सिंह (जे० सी०-195310 एच)---1 अप्रैल, 1992।

नायब रिसालदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-154870 ए)---1 मई, 1992।

नायब रिसालदार औम प्रकाश अहलावत (जे० सी०-175822 एन)---1 मई, 1992।

नायब रिसालदार एस० के० टी० बहातुले लक्ष्मण (जे० सी०-152015 एम)---1 जून, 1992।

नायब रिसालदार दरशन सिंह (जे० सी०-171267 एन)---1 जून, 1992।

नायब रिसालदार/कलर्क (जी० डी०) भगवान सिंह (जे० सी०-181332 उल्लू)---1 जून, 1992।

नायब रिसालदार हशिम अली खान (जे० सी०-181343 एच)---1 जून, 1992।

मेकानाइज्ड इन्फैट्री रेजिमेंट

सूबेदार के० गी० राधाकिशन पिलाई (जे० सी०-

127216 ए)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-127226 के)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार प्रेम बहादुर राणा (जे० सी०-112580 एफ)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार वर्णन सिंह सिधू (जे० सी०-118680 एच)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार लाला पवार (जे० सी०-117201 के)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार देव बहादुर याणा (जे० सी०-117211 एन)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-108493 उल्लू)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार सुरमुख सिंह (जे० सी०-120434 उल्लू)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-127241 वाई)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार (लिपिक) के रैक में

नायब सूबेदार (लिपिक) पाराहल देवसी जौन (जे० सी०-168755 एल)---1 अगस्त, 1992।

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार बोमासु सीताराम अंजनेयूल (जे० सी०-177494 के)---20 मई, 1992।

नायब सूबेदार तरसेम मिह (जे० सी०-151542 एफ)
--23 जून, 1992।

नायब सूबेदार ख्याली राम (जे० सी०-151549 एल)
--1 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जे० सी०-157755 एल)
--01 अगस्त, 1992।

द० र० शर्मा,
अधर सचिव

सं० 1146; दिनांक 23 नवम्बर, 1992—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं —

प्रावेशिक सेमा
इन्फैस्ट्रु

119 इन्फैस्ट्रु बटालियन (टी० ए०)
सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार मीनी मोहन सिह (टी० जे०-3196)---
20 जुलाई, 1992।

नायब सूबेदार पिंडुश चन्द बर्मन (टी० जे०-3370)---
20 जुलाई, 1992।

इन्जीनियर्स

1031 रेलवे हंडी० रेजिं० (टी० ए०)

(नायब सूबेदार बनाया जाता है)

पदोन्नति की तिथि

हवलदार तारा चन्द (सं० 12207808; टी० जे०-
3696)---1 जनवरी, 1992।

हवलदार एम० जी० मेहन्दीरता (सं० 12216551;
टी० जे०-3697)---1 विसम्बर, 1991।

हवलदार सत्तनाम मिह (सं० 122292201, टी० जे०-
3698)---1 विसम्बर, 1989।

हवलदार प्रभु दयाल (सं० 12207515, टी० जे०-
3699)---1 जनवरी, 1992।

हवलदार राम सिह (सं० 12207941; टी० जे०-
3700)---1 जनवरी, 1992।

हवलदार बीनसेन्ट मीलवाल (सं० 12207891, टी०
जे०-3701)---1 जनवरी, 1992।

हवलदार जी० फाल्सीम (सं० 12229221, टी० जे०-
3702)---1 विसम्बर, 1991।

हवलदार आर० के बर्मा (सं० 12207645, टी० जे०-
3703)---1 जनवरी, 1992।

108 इन्फैस्ट्रु बटालियन (टी० ए०)
नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार रुद्रसिंह (सं० 10389013-ए, अब टी० जे०-
3688)---25 जून, 1992।

हवलदार गुलाब सिह (सं० 10389064, टी० जे०-
3689)---25 जून, 1992।

हवलदार रमाकान्त शर्मा (सं० 10388926, टी० जे०-
3690)---25 जून, 1992।

109 इन्फैस्ट्रु बटालियन (टी० ए०)
नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार चौणुली पांडुरंग भैरू (सं० 10149600,
टी० जे०-3691)---22 जून, 1992।

हवलदार दिनकर पाटिल (सं० 10149633, टी० जे०-
3692)---22 जून, 1992।

इन्जीनियर्स

1034 रेलवे इन्जीनियर रेजिमेंट (टी० ए०)

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार के मतीष कुमार (सं० 12289767, टी०
जे०-3693)---15 विसम्बर, 1990।

हवलदार टी० उमापति (सं० 12289920, टी० जे०-
3694)---1 मार्च, 1991।

1101 रेलवे इन्जीनियर रेजिमेंट (टी० ए०)

नायब सूबेदार के रैक में

हव० आनन्द किशोर (सं० 12371178, टी० जे०-
3695)---8 अगस्त, 1991।

बुर्गा प्रसाद;
मी० एस० ओ०, आ०/जी० एस० ओ०-1 (टी० ए०-3)

सं० 1147, दिनांक 13 नवम्बर, 1992—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित सेवानिवृत्ति करते हैं ---

गुणता आश्वासन महानिदेशालय (वारप्रिप्रोजेक्ट),
नई बिल्ली के श्री टी० आर० टैगोर, पी० एस० सी० ओ०
(एन० एफ० एस० जी०) ने स्वेच्छा से दिनांक 30 अक्टूबर,
1992 (अपराह्न) (31 अक्टूबर, 1992 को सार्वजनिक
अवकाश था) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली है।

बन श्याम सिह,
झप सचिव

सशस्त्र सेना मुख्यालय

सं० 1148, विनांक 16 नवम्बर, 1992—सी० सी० एस० (पैन्शन) नियमीकरणी, 1972 के नियम 48-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत सकाम प्रधिकारी द्वारा अनुमति दिये जाने पर सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री के० बी० मुन्हराजन 1 जुलाई, 1992 से सेवा से निवृत्त हो गये हैं व इन्हें इसी तिथि से पैशन स्थापना में अंतरित कर दिया गया है।

श्री डी० पी० दुडेजा, पी० एस०/जी० एस०, ए०सी० मिवेशालय, 2 नवम्बर, 1992 (अपराह्न) को सेवा से स्वैच्छिक निवृत्त तथा 3 नवम्बर, 1992 से पैशन स्थापना में स्थानान्तरित।

पी० एस० मीलिक,
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्र०)

सेना शाखा

सं० 1149, विनांक 23 नवम्बर 1992—राष्ट्रपति, मिलिंगिक्षित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से, उनके सामान्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व ही, व्यक्तिगत कारणों से उनके ही, अनुरोध पर रक्षा सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और उन्हें अधिकारियों के नियमित आरक्षित श्रेणी (X) ए० आ० ई०/१०/एस०/६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आई० सी०-28359) मेजर जे० एस० लूधरा, आरमड—1 जुलाई, 1991 (अपराह्न)।

(आई० सी०-27174) मेजर ए० एच० सान, ई० एम० ई०—31 अगस्त, 1991 (अपराह्न)।

(आई० सी०-24111) ले० कर्नल पी० बी० कुमार ई० एम० ई०—30 सितम्बर, 1991 (अपराह्न)।

(आई० सी०-24142) ले० कर्नल (टी० एस०) वाई० आर० शास्त्री, ई० एम० ई०—10 दिसम्बर, 1991 (पूर्वा०)

(आई० सी०-17590) मेजर आर० जे० टिकेकर, ई० एम० ई०—12 नवम्बर, 1991 (अपराह्न)।

(आई० सी०-23043) मेजर डी० बनर्जी, ई० एम० ई०—14 फरवरी, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-22921) ले० कर्नल एच० एस० सिरोही, ई० एम० ई०—26 फरवरी, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-16501) कर्नल डी० के० सिंह, ई० एम० ई०—26 फरवरी, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-24748) ले० कर्नल (टी० एस०) आर० ए० अरोसकर, ई० एम० ई०—14 मार्च, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-17303) ले० कर्नल बी० डल्लू० फरामान्डेज, आटिलरी—30 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-155677) ले० कर्नल (टी० एस०) ए० एस० वयाल, आटिलरी—10 अक्टूबर, 1992 (अपराह्न)।

(बी०-239) ले० कर्नल जे० एम० सोपारी, आर० बी० सी०—24 फरवरी, 1992 (अपराह्न)।

(बी०-277) मेजर टी० स्वामी, आर० बी० सी०—31 मार्च, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-14352) ले० कर्नल एस० एल० जिल्ल, ए० फ० बी०—15 अप्रैल, 1992 (अपराह्न)।

(बी०-207) ले० कर्नल एम० एम० बाबू, आर० बी० सी०—20 अप्रैल, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-25541) ले० कर्नल बी० जी० बी० कुमार इम्पीट्टी—1 जून, 1992 (पूर्वा०)।

(आई० सी०-28079) ले० कर्नल (टी० एस०) जी० आर० डी० जादव, आटिलरी—28 अप्रैल, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-25798) कर्नल के० बी० अब्राहम, आटिलरी—30 जून, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-19258) ले० कर्नल (टी० एस०) पी० बी० सिंह, इम्पीट्टी—10 जुलाई, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-29067) ले० कर्नल (टी० एस०) किंशपाल सिह, इन्फैन्ट्री—30 जुलाई, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-23669) ले० कर्नल बी० बी० नाथगुडा, इन्फैन्ट्री—3 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-25982) मेजर बी० एम० राजन, इन्फैन्ट्री—22 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-34137) मेजर बी० के० थापा, इन्फैन्ट्री—22 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-16870) ले० कर्नल के० एम० कम्बोज, इन्फैन्ट्री—24 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-24141) ले० कर्नल के० के० प्रमाद, इन्जीनियर्स—27 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-34422) मेजर एस० एस० ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री—29 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-29255) ले० कर्नल (टी० एस०) बी० एस० यादव, इन्फैन्ट्री—29 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-21160) ले० कर्नल (टी० एस०) आर० सी० शर्मा, सिन्हलस—31 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-26818) मेजर अशोक कुमार, इन्फैन्ट्री—31 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-16951) ले० कर्नल एन० सी० गुप्ता, एस० एम०, सिन्हलस—31 अगस्त, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-16416) ले० कर्नल (टी० एस०) विनोद भूषण आर्य, सिन्हलस—10 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-16598) कर्नल डी० जी० आई० मिह, आटिलरी—15 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-26864) मेजर बालास्वामी, इन्जीनियर्स—23 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-23749) ले० कर्नल के० के० शर्मा, सिन्हलस—23 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-19840) ले० कर्नल आर० एम० किलो इन्जीनियर्स—24 सितम्बर, 1992] (अपराह्न)।

(आई० सी०-29806) मेजर एस० के० शर्मा, आटिलरी—25 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-14000) ले० कर्नल (टी० एस०) जे० सी० सिन्दवानी, आटिलरी—26 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-15065) ले० कर्नल (टी० एस०) एस० एस० नेगी, इन्जीनियर्स—28 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-22693) ले० कर्नल मनमोहन, सिन्हलस—28 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

(आई० सी०-25632)] मेजर दीपक दत्त, इंजीनियर्स—30 सितम्बर, 1992 (अपराह्न)।

वी० के० आनन्द,
कर्नल, कर्नल एम० एस० (आर० एण्ड आर०)

वायु शाखा

स० 1150, दिनांक 16 नवम्बर, 1992—राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा० से० मु० 22258 पी० ओ० 3(ए) 474/झी० ओ० आई० ए०/झी० (एयर-III) दिनांक 27 मार्च, 1985 और वा० से० मु०/22142/2 एस० एस० सी० पी० ओ० 3(झी) 128 थ० एस० झी०/(एयर-III) दिनांक 19 जनवरी, 1989 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसरों को अल्पकालिन सेवा कमिशन (स्थाई) की अवधि यानी की प्रक्रियण शूरू होने के 6 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के मामते दी गई तारीख से सेवा मुक्त करते हैः—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग (ईलैक्ट्रोनिक्स)

फ्लाईट लेफिटनेंट एन० गजपति (18227), फ्लाईंग आफिसर, ए० एच० सईद (18229), फ्लाईट लेफिटनेंट, पी सरकार (18230), फ्लाईट लेफिटनेंट एन० प्रमाद (18232), फ्लाईट लेफिटनेंट एम० बालासुक्रामणियण (18235) और फ्लाईट लेफिटनेंट एम० रामप्रमाद (18257) दिनांक 17 फरवरी, 1992 से।

वैमानिक इंजीनियरिंग (सैकेनिकल)

फ्लाईट लेफिटनेंट अजोय मुख्लीधर (18238), फ्लाईट लेफिटनेंट जेम्स विलियम (18239) और फ्लाईट लेफिटनेंट ए० के० अग्रवाल (18240) दिनांक 17 फरवरी, 1992 से।

राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा० से० मु०/22258 पी० ओ० 3(ए)/474/डी० ओ० आई० ए०/डी० (एथर-III) दिनांक 27 मार्च 85 और वा० से० मु०/22142/एम० एस० सी० भी०/पी० ओ० 3(डी)/2344/य० एग०/डी० (एथर-III) दिनांक 4 नवम्बर, 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफमरों को अल्पकालीन सेवा कमीशन (स्थाई) की अवधि यानी की प्रशिक्षण शुरू होने के 6 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सेवा मुक्त करने हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इन्जीनियरिंग (मैकेनिकल)

फ्लाईट लेफिटनेंट दीपक एल० एन० (18026),
फ्लाईंग ऑफिसर बी० एन० रवी (18027), फ्लाईट लेफिटनेंट गुरदीप मिह चौहान (18028)---19 अगस्त,
1991 से ।

फ्लाईट लेफिटनेंट दिनेश कुमार गुप्ता (18029)---
20 अगस्त, 1991 से ।

फ्लाईट लेफिटनेंट देवरोटी मुखर्जी (18031)---
22 अगस्त, 1991 से ।

फ्लाईट लेफिटनेंट रामाकृष्णन नानुकुतन नायर (18033)
---23 अगस्त, 1991 से ।

फ्लाईट लेफिटनेंट बालाकृष्णन राजामा बालारामन (18034), फ्लाईट लेफिटनेंट अनील अन्टोनी (18035)
---26 अगस्त, 1991 से ।

फ्लाईट लेफिटनेंट जुपिन्दर सिंह मखनी (18042)---
28 अगस्त, 1991 से ।

वैमानिक इन्जीनियरिंग (इलेक्ट्रीकल)

फ्लाईट लेफिटनेंट अन्टोनी परीटीयूस डायम (18037),
फ्लाईंग ऑफिसर टी० जय शंकर (18038), फ्लाईट लेफिटनेंट श्री भवन दामोदरन तायर मुरेश (18039)---
26 अगस्त, 1991 से ।

राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा० से० मु०/22258 पी० ओ० 3(ए)/474/डी० ओ० आई० ए०/डी० (एथर-III) दिनांक 27 मार्च 85 और वा० से० मु०/22142/3 एम० एस० सी० भी०/पी० ओ० 3(डी) / 2836/य० एग०/डी० (एथर-III) दिनांक 4

दिसम्बर, 1987 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफमरों को अल्पकालीन सेवा कमीशन (स्थाई) की अवधि यानी की प्रशिक्षण शुरू होने के 6 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सेवा मुक्त करने हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इन्जीनियरिंग (इलैक्ट्रोनिक्स)

फ्लाईट लेफिटनेंट एकमन्देश्वर राव (18665), फ्लाईट लेफिटनेंट के० बी० आर० के० राज० (18666)---18 अगस्त, 1992 से ।

फ्लाईट लेफिटनेंट जी० गोपाकुमार (18668)---23 अगस्त, 1992 से ।

एच० बी० शर्मा,
स्कवाइन लीडर

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1992

स० ए०-22012/2 92-स्था०-1—राष्ट्रपति, कुपारी वंदना श्रीवास्तव, भा० र० ले० से० को रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में रिक्त पद पर 2 दिसम्बर, 1992 से 13 मार्च, 1996 तक या अगले आदेशों तक, इन दोनों में जो भी पहले हो, तब तक के लिए निदेशक नियुक्त करते हैं ।

राजेन्द्र मोहन,
महाप्रक वित्तीय सचाहकार (स्था०)

दिनांक 7 दिसम्बर 1992

स० ए०-11041/1/92-स्था० 1—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त) में निदेशक श्री आर० के० घोष, के० स० से० को उनके द्वारा धारित निदेशक के पद को उनके लिए वैयक्तिक आधार पर अपग्रेड कर 1 दिसम्बर, 1992 से अगले आदेशों तक अपर वित्तीय सचाहकार एवं संप्रकृत सचिव (वेतनमान 5900-6700 रुपये) नियुक्त करते हैं ।

राजेन्द्र मोहन,
महाप्रक वित्तीय सचाहकार (स्था०)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th December 1992

(ARMY BRANCH)

ARMED FORCES FILM & PHOTO DIVISION

No. 1135, dated 16th November 1992.—On the basis of nomination made by UPSC, Shri N. Srikumar has been appointed as temporary Photographic Officer (Gp B, Gazetted) w.e.f. 30-10-92 (P.N.), in the pay scale of Rs. 2000-60-2300-EB-75 3200-100-3500.

He will be on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the appointing authority.

P. N. MAULIK,
Up Mukhya Prashasan Adhikari

(ARMY BRANCH)

No. 1136, dated 20th November 1992.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be 2/Lt with effect from 13 Jun 92

Ajay Singh Thakur (IC-51114N) Engrs, Mukesh Kumar (IC-51115W) Engrs, Rohit Mehta (IC-51116Y) AC, S. Piemjiti Singh (IC-51117F) Engrs, Vishal Singh (IC-51118K) AC, Sunil Dayanand Fadlare (IC-51119M) Sigs, Devaraju (IC-51120F) Sigs, Vinay Singh Jaswal (IC-51121K) Mech, Narinder Jit Singh (IC-51122M) Inf, Navdeep Dahiya (IC-51123P) Inf, Syed Sibatul Hassan Rizvi (IC-51124X) Inf, Sameer Solti (IC-51125A) Arty, Abhey Pal Singh Hansi (IC-51126H) Engrs, Haridatesh Kumar Singh (IC-51127L) Inf, Vikram Singh (IC-51128N) Arty, Rajal Chawla (IC-51129W) Sigs, Manish Bhatnagar (IC-51130L) Inf, Montu Pande (IC-51131N) Inf, Pankaj Awasthi (IC-51132W) Inf, Vi-hvajeet Upadhyay (IC-51133Y) Engrs, Chaitanya Prabhu (IC-51134F) AOC, Anil Kumar (IC-51135K) Inf, Shirname Parag Murlidhar (IC-51136M) Arty, Vikram Gera (IC-51137P) Arty, Rajesh Mehta (IC-51138X) EME, Vijay Kala (IC-51139A) Inf, Dinesh Kumar (IC-51140P) Inf, Ajay Bhushna (IC-51141X) EME, Manish Gupta (IC-51142A) Inf, Abhijeet Sharma (IC-51143H) Engrs, Rajesh Gupta (IC-51144L) Arty, Arvind Vikram Singh (IC-51145N) Inf, Shyamji Yadav (IC-51146W) AOC, Avind Kumar Yadav (IC-51147Y) AOC, Randeep Singh (IC-51148F) Arty, Vinay Malhotra (IC-51149K) Inf, Ashutosh Anand Sathe (IC-51150Y) Arty, Akaash Johar (IC-51151F) Inf, Vivek Gupta (IC-51152K) Inf, T. Shyam Sunder (IC-51153M) Inf, Bharat Huria (IC-51154P) ASC, Sanjay Dalal (IC-51155X) Inf, Digendra Pratap Singh (IC-51156A) Arty, Ravinder Singh (IC-51157H) Inf, Satyapal Sindhu (IC-51158L) EME, Prashant Bajpai (IC-51159N) EME, Suresh Kumar Sheoran (IC-51160H) Inf, K. Loganathan (IC-51161L) Inf, Amardeep Singh Kahlon (IC-51162N) Inf, Ajay Misra (IC-51163W) Arty, Ajay Mahindro (IC-51164Y) Mech, Vikas Prabhakar (IC-51165F) AOC, Davinder Singh Dhaka (IC-51166K) ASC, Nikhil James Bhattacharji (IC-51167M) Arty, Santhosh V (IC-51168P) Inf, Sumit Mehta (IC-51169X) AC, Bakshi Mandeep Singh Talwar (IC-51170M) Arty, Indu Prakash Mishra (IC-51171P) AOC, Badri Prasad (IC-51172H) Inf, Rajendra Narayan Matalik (IC-51173A) Inf, Deepinder Pal Singh (IC-51174H) Arty, Jiten Ale (IC-51175I) ASC, Shailesh Sati (IC-51176N) Inf, Gaurav Oberoi (IC-51177W) AC, John PY (IC-51178Y) Arty, Anupam Agarwal (IC-51179F) Arty, Vishnu Singh Shikarwar (IC-51180W) Inf, Inderveer Rana (IC-51181N) ASC, Dinesh Chander Dubey (IC-51182F) Inf, Sanjeev Dwivedi (IC-51183K) Inf, Suresh Singh Panghal (IC-51184M) Engrs, Suresh Kumar (IC-51185P) Sigs, Manmeet Singh Sabrwal (IC-51186X) Inf, Pavanmeet Singh Bindra (IC-51187A) EME, Manish Tiwari (IC-51188H) Inf, Pankaj Sabharwal (IC-51189L) Mech, Rajiv Chauhan (IC-51190A) Arty, G. Manoj (IC-51191H) EME, Mohan Deep Singh Duggal (IC-51193N) Arty, Rampratap Nain (IC-51194W) Arty, Narendra Pratap Singh (IC-51195Y) Sigs, Rajendra Kumar Prusty (IC-51196F) Arty, Sitender Singh Yadav (IC-51197K) AOC, Bruce C C Fernandez (IC-51198M) Inf,

Basant Singh (IC-51199P) Inf, Pushpendra Mair (IC-51200Y) Sigs, Aneesh Kumar Pateria (IC-51201F) Inf, Bhanu Khanna (IC-51202K) AC, Narendra Singh Negi (IC-51203M) Inf, Ritesh Khanna (IC-51204P) AC, Deepak Mohan Anand (IC-51205X) Sigs, Sumet Sharma (IC-51206A) AC, Nischal Sood (IC-51207H) Arty, Sanjay Jaggi (IC-51208L) ASC, AP Arul (IC-51209N) Sigs, Neeraj Gupta (IC-51210H) Inf, Deshpande Vikrant Suresh (IC-51211L) Inf, Man Mohan Singh (IC-51212N) ASC, Sachin Sharad Kulkauni (IC-51213W) Inf, Ajay Kumar Ahuja (IC-51214Y) Inf, Satish Kumar (IC-51215F) Arty, TV Pradeep Kumar (IC-51216K) Inf, Manjit Singh (IC-51217M) Inf, Paramjit Singh (IC-51218P) Arty, Ashok Kumar (IC-51219X) Arty, Rajesh Gopalakrishnan (IC-51220M) Inf, Anil Pandit (IC-51221P) AC, Rajnish Gambhir (IC-51222X) Arty, Ranjan Gupta (IC-51223A) Arty, Deepak Ranjan Rout (IC-51224H) Inf, Sumant Rudra (IC-51225L) ASC, Sushil Chandra Choudhary (IC-51226N) Inf, Bansal Nilesh Chander (IC-51227W) Arty, Jasbir Singh Dewan (IC-51228Y) Arty, Kuldeep Singh Kalsi (IC-51229F) Inf, Rajesh Joy Vivian Ohol (IC-51230W) Arty, Atulya Bamzai (IC-51231Y) EME, Ashish Kumar (IC-51232F) Inf, Sameer Siavastava (IC-51233K) Inf, Tavinder Jit Singh Thind (IC-51234M) Inf, Samar Singh Chandel (IC-51235P) Inf, Guibir Singh (IC-51236X) Arty, Abdul Hameed (IC-51237A) Inf, Dam Bahadur Gurung (IC-51238H) Inf, Anil Yadav (IC-51239L) Arty, Salil Seth (IC-51240A) Mech, N. Prasanna Venkatesvaran (IC-51241H) Arty, Rakesh Singh (IC-51242I) Inf, Prabhat Bhandari (IC-51243N) AC, Bijoy Sena Rajkumar (IC-51245Y) ASC, Rahul Shrama (IC-51246F) Arty, Manish Bakshi (IC-51247A) AOC, Munish Kukar (IC-51248M) ASC, Vinod Pillai (IC-51249P) Inf, Ashim Kalra (IC-51250K) EME, Ashutosh Kumar Singh (IC-51252P) Inf, Narendra Kumru (IC-51253X) Arty, Vineet Dwivedi (IC-51254A) AOC, Rajesh Singh (IC-51255H) Arty, Jaiveer Singh (IC-51256L) Inf, Harjish Kumar Sethi (IC-51257N) AC, Pratap Singh Jouhal (IC-51258W) Inf, Inderjeet Singh Mann (IC-51259Y) ASC, Dhananjay Mehta (IC-51260N) Sigs, Sameer Sharun Kartikeya (IC-51261W) Inf, Sanjay Kumar (IC-51262Y) Arty, Dinesh Kumar Tyagi (IC-51263F) AOC, Gore Vinayak Vishnu (IC-51264K) Arty, Vijay Kumar Singh (IC-51266P) AOC, Akhilesh Kumar (IC-51267X) Inf, Ravi Yadav (IC-51268A) AC, Parminder Singh (IC-51269H) Arty, Saurabh Jain (IC-51270X) EME, Manish Gupta (IC-51271A) Inf, Sudhu Chauhan (IC-51272H) Inf, Joginder Singh (IC-51274N) Mech, Remala Sreekanth (IC-51275W) Arty, Harpreet Singh Kaila (IC-51276Y) Inf, Zubin Bhatnagar (IC-51277F) Inf, Kopuri Vijaya Prasad (IC-51278K) Inf, Ashutosh Piashar (IC-51279M) Inf, Manish Mishra (IC-51280F) Inf, Rahul Sharma (IC-51281K) Inf, Mahecha Dharamveer (IC-51282M) Inf, Navnit Singh Khera (IC-51283P) ASC, Dhruv Chaudhary (IC-51284X) EME, Om Prakash Jangid (IC-51285A) Arty, Jagmit Singh (IC-51286H) AC, Milton Boban Kujian (IC-51288N) Inf, Laxmi Kant Agarwal (IC-51289W) Arty, Ashim Kalra (C-51290I) AOC, Salash Uniyal (IC-51291N) Arty, Shekhu Gupta (IC-51292W) Inf, Sandeep Shama (IC-51293Y) EME, Ravinder Singh Nandal (IC-51294F) Inf, Daniel Lotzem (IC-51295K) Mech, Tallapaneni Sreenivasulu (IC-51296M) Inf, Arun Kumar Sharma (IC-51297P) Arty, Pramod Singh (IC-51298X) Arty, Somnath Gupta (IC-51299A) Arty, Romil Sharma (IC-51300K) Inf, Jitendra Kumar Malik (IC-51301M) Inf, Anil Tahlan (IC-51302P) Inf, Sumit Pant (IC-51303X) Inf, Sanjeev Singh (IC-51304A) Inf, Ashok Manocha (IC-51305H) AOC, Rahul Bhargava (IC-51306L) EME, Menon Rajesh Ekkath (IC-51307N) Sigs, Zulfaqar Hussain Zaka (IC-51308W) Arty, Sanjay Bhardwaj (IC-51309Y) Arty, Hari Singh Bisht (IC-51310N) Sigs, Animesh Sharan (IC-51311W) AC, Unnam Kotewara Rao (IC-51312Y) ASC, Navtej Singh Kalsey (IC-51314K) Arty, Shashi Bhushan Rana (IC-51315M) Inf, G. Sunil Kumar (IC-51316P) Inf, Aditya Choudhary (IC-51317X) Inf, Ravinder Singh (IC-51318A) Inf, Gurav Kiran Kashiram (IC-51319H) Inf, Virender Singh (IC-51320X) Inf, Amit Saxena (IC-51321A) ASC, Manish Rautham (IC-51322H) Inf, Harsha Ahlawat (IC-51323I) AC, Sanjay Pathak (IC-51324N) ASC, Neil John (IC-51325W) AC, Khoisnam Bimol Kumar Singh (IC-51326Y) Inf, Rajiv Dutta (IC-51327F) Arty, Vivek Kochhar (IC-51328K) Inf, Sanjay Kumar Singh (IC-51329M) EME, Ripudaman Singh (IC-51330F) Inf, Amit Paul Singh Sandhu (IC-51331K) ASC, Gautam Das (IC-51332M) Arty, Om Parkash (IC-51333P) Inf, Ritobroto Sengupta (IC-51334X) Arty, Deshraj Mishra (IC-51335A) Arty, Vikrant Lakhanpal (IC-51336

H) Sigs. Bhaskar Gupta (JC-51337L) Arty, Dharmendra Yadav (JC-51338N) Arty, Jha Arunkumar Pitamber (JC-51339W) Int, Jose Abraham (JC-51341N) Inf, Digvijay Pal Singh Yadav (JC-51342W) Inf, Manoj Kumar Sharma (JC-51343Y) AOC, Raja Segharan MC (JC-51344F) Inf, Sudip Mukherjee (JC-51345K) Arty, Shekhar Arora (JC-51346M) AC, Harbir Singh Pannu (JC-51347P) AC, Sanjay Chaudhary (JC-51348X) EME, Ajay Batish (JC-51349A) AOC, Anurag Yadav (JC-51350P) Inf, Vijayan MP (JC-51351X) Inf, Ajay Pandey (JC-51352A) ASC, Vijay Singh (JC-51353H) Inf, Thangjam Homeswari Juwangeha (JC-51354I) Inf, Samir Bhalla (JC-51356W) Sigs, Ajay Uniyal (JC-51357Y) Inf, Sunit Barnie (JC-51358F) Inf, Maneesh Basera (JC-51361F) AOC, Veeresh (JC-51362K) Mech, Rajive Goyal (JC-51363M) AOC, Om Prakash (JC-51364P) Inf, Neeraj Sharma (JC-51365X) Arty, Nardeep Singh Bhasin (JC-51366A) Inf, Kaushik Chakraborty (JC-51367H) EME, Gaurav Mathur (JC-51368L) Arty, Prashant Nakra (JC-51369N) AC, Sattigni Jitendra Pandurang (JC-51370H) Arty, Dinesh Kumai Bisht (JC-51371L) Mech, Paras Mehra (JC-51372N) Inf, Amal Gautam (JC-51373W) Arty, Milind Shyam-sunder Thosar (JC-51374Y) Sigs, Jeewan Rawal (JC-51375F) Inf, Harjot Singh Rathore (JC-51376K) Arty, Gopal Singh Chauhan (JC-51377M) Inf, Shubhajeet Siwar (JC-51378P) Engrs, Alok Kumar (JC-51379X) Inf, Awadhesh Kumar Pathak (JC-51380M) EME, Amiender Jit Singh (JC-51381P) Arty, Ramjee Adibhatla (JC-51382X) Arty, Jitender Singh Bath (JC-51383A) Inf, Kota Rama Krishna (JC-51384H) Inf, Akhil Agarwal (JC-51385I) Sigs, Rupinder Singh Pannu (JC-51386N) Inf, Birendra Singh Gahlawat (JC-51387W) Inf, Anuag Chaudhary (JC-51388Y) ASC, Shiv Mangal Mishra (JC-51389F) Sigs, Sandeep Srivastava (JC-51390W) AC, Vaidya Sudhir Pandurang (JC-51391Y) Inf, Darshan Singh Parmar (JC-51392F) Arty, Sombit Ghosh (JC-51393K) Inf and Rajeev Kumar Sadana (JC-51394M) Inf

DC KATOCH, II Col,
AMS (JC)

No. 1137, dated _____ 1992—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

(Special List)

Regiment of Artillery

To be Nb Sub (Religious Teachers)

14458388I. Hav (Clk) Manni Lal (JC-255001M), 10 Jul 92.

Surendra Narayan Pandey (JC-255002P), 10 Jul 92.

Piara Singh (JC-255003X), 10 Jul 92.

Suresh Kumar Tiwari (JC-255004A), 10 Jul 92.

Ram Naresh Tiwari (JC-255005H), 10 Jul 92.

Mani Nath Mishra (JC-255006L), 10 Jul 92.

Ram Bal Dwivedi (JC-255007N), 10 Jul 92.

NARENDER SINGH,
Desk Officer

NAVY BRANCH

NAVAL HEADQUARTERS

No. 1138, dated 16th November 1992—The following ASCOs of the AFHQ Civil Services & Stenographers Ode 'A' (PS) are appointed as Offg Civilian Staff Officers on long term basis with effect from the date shown against each until further orders :—

Shri KC Raghavan, 19-10-92.

Shri Bhagwan Singh, 16-10-92.

Shri B Sateesh Kumar, 16-10-92.

Shri SK Marwah, 16-10-92.
Shri BD Jatav, 16-10-92.
Shri KS Sachdeva, 16-10-92.
Shri JA Ramamoorthy, 16-10-92.
Shri GK Pandey, 16-10-92.
Shri RB Chopra, 16-10-92.
Shri Jasbir Singh, 16-10-92.
Shri SK Jasra, 16-10-92.
Shri Janki Pasad, 16-10-92.
Shri RR Dularia, 16-10-92.
Shri Gian Chand, 16-10-92.

The following Civilian Staff Officers have been appointed as Selection Grade Officers (SCSO) of AFHQ Civil Service in officiating capacity with effect from 02 Sep 92, until further orders :—

Shri Dilip Kumar
Smt Renu K Raju
Shri SM Sethi
Shri CR Malawalia
Shri MN Asghai

P. N. MAULIK,
Up Mukhya Prashasan Adhikari

(AIR BRANCH)

No. 1139, datel 16th November 1992.—The President is pleased to grant of Permanent Commission to the undermentioned, on completion of his tenure of SSC with effect from the date shown against his name under the provisions of Govt of India Min of Def letter No. Air HQ/22258/PO3(A)/474 DOIA/D (Air III) dated 27 Mar 85.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Flt Lt SL Shiva Pasad (18667) w.e.f. 19 Aug 92.

Flt Lt S Gaur (18040) w.e.f. 26 Aug 91.

Flt Lt IPS Bhatta (18036) w.e.f. 26 Aug 91.

The President is pleased to grant of Permanent Commission to the undermentioned, on completion of their tenure of SSC with effect from the date shown against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258 PO3(A)/474/DOIA/D (Air-III) dated 27 Mai 85

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Flt Lt AK Singh (18228), Flt Lt S Palanichamy (18231).

Flt Lt RG Kulkarni (18236) w.e.f. 17 Feb 92.

Flt Lt AVVB Rao (18242) w.e.f. 18 Feb 92.

Flt Lt RC Prasad (18685), Flt Lt RBS Yadav (18686) and Flt Lt RS Joon (18687) w.e.f. 01 May 92.

AERONATIONAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Flt Lt SZ Hussain (18241) w.e.f. 17 Feb 92.

Flt Lt S Bhanoji Rao (18243), Flt Lt VK Gupta (18244), Flt Lt S Kumar (18245), Flt Lt S Prem Kumar (18246) and Flt Lt G Rajendra Kumar (18247) w.e.f. 21 Feb 92.

The President is pleased to Permit the undermentioned Pilot Officers to relinquish their Provisional Short Service Commission with effect from the date shown against their names and grant them Permanent Commission (on Probation) with effect from the same date under the provisions

of Para 4 of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/1/PO3(A)/1611/DOIA/D (Air-III) dated 19 Oct 82 and para 15 of AFI 2/73 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Rajeev Shrivastava (21112), Farooq Fareed Nabi (21113), Babu Paul (21114), Soumendra Chatterjee (21115), Patil Shardul Dayanand (21116), Rakesh Kumar Verma (21191), Sunil Bachappa Tapashetti (21198) w.e.f. 09 Mar 92.

The President is pleased to Permit the undermentioned Pilot Officers to relinquish their Short Service Commission (on probation) w.e.f. the date stated against their names and to grant of Permanent Commission (on probation) with effect from the same date under the AFI 2/73 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Satish K (21089), Ravi Makbika (21098), Anil John Thanakan (21099), Vivek Avind Phatak (21102), Patel Parag Rameshbhai (21103), Ajay Gaur (21104), Vijay Kumar Chaiturvedi (21105), Paramjit Singh Saini (21106), Amarinder Sidhu (21107), Pratik Gulab Mahant (21109), Sundeep Mehrotra (21110), Amit Agrawal (21111), Rifaqat Husain (21184), Chamanjot Singh Chawla (21192), Ajit Singh (20837) w.e.f. 09 Mar 92

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Suriendran IR (21080), Sukumara Anand Kumar Das (21081), Nonavimakera Anantharaju Badrinath (21082), Deivraj Venkatarajulu (21083), Vivekanand Prakash Boise (21084), Rakesh Roshan Pant (21085), Girijala Mahesh Kumar (21086), Vadapalli Ravi Savanayana Raju (21162), Venkatachalam Chandra Shekhar (21174), Koduri Apparao (21175), Adi Sankar Kumar Rayaprolu (21196), Avind Kumar (21197) w.e.f. 09 Mar 92

The President is pleased to grant of Provisional Short Service Commission in the rank of Pilot Officer to the undermentioned, under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ 22258/PO3(A) 474 DOIA / (Air-III) dated 27 Mar 85 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)

Chandran Parasuraman (21768), Jose Morris Yohannan (21769), Rajagopal Gopalkrishnan (21770), Parmeshta Jain (21771), IS Pon Ravi (21772), Rony Antony (21773), Srinivasa K (21774), Veluchamy Udayakumar (21775), Stephen George (21776), Kishore Kumar Kar (21777), Georgekutty Joseph Niondimackal (21778), Vinay Kumar Sharma (21779); Prabhakaran Nair Padmadas (21780), T Giridhar (21781), Damodaran Steekumar (21782), Devansh Bhardwaj (21783), Mohan Bhupal M (21784), Amitava Ganguli (21785), Natesan Elango (21786), Binu Jacob (21787), Vachharajani Pranav Kanakray (21788), Bhagwant Singh Sarhadi (21789), Amit Bansal (21790), Devendra Singh Shekhawat (21791) w.e.f. 09 Mar 92.

Thomas Vaigheche (21792) w.e.f. 20 Mar 92.

Komala Venkatachala Gupta Phaniraju (21803) w.e.f. 16 Mar 92.

Thomas Oommen (21804) w.e.f. 21 Mar 92.

Vudattu Venkat Ratna Kumar (21805) w.e.f. 23 Mar 92

Mahendra Kumar Vyas (21806) w.e.f. 30 Mar 92.

The President is pleased to terminate Provisional Short Service Commission w.e.f. the dates shown against their names and grant of Short Service Commission (Confirmed) with effect from the same dates in the rank of Pilot Officer to the undermentioned, under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/PO3(A)/474/DOIA/D(Air-III) dated 27 Mar 85 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Kolle Tejnaryan Rao (20022)—w.e.f. 06 Mar 89.

H. B. SHARMA,
Sqn Ldr
ADPO-3(D)

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned in the rank of Pilot Officer under the Provisions of Govt of India, Min of Def letter No. 4(4)/90/D(Air-III) dated 18th Jul 91 with effect from 10 Jun 92.

ADMINISTRATIVE BRANCH

(Ex-Flt Cdts to be Pilot Officers)

Sivadasan Bavukkadan (21921), Koushik Bandopadhyaya (21922), Avinash Indoria (21923), Bakshi Pushparaj Chibber (21924), Arjunan Samiappan (21925), Sanjay Kumar Rathor (21926), Dinesh Kumar Singh (21927), Partha Acharya (21928), Paramjeet Singh (21929), Sanjeev Kumar Singh (21930), Davinder Singh Malik (21931), Kiran Krishnan Nair (21932), Sunjay Kumar (21933), Satinder Singh (21934), Rajesh PN (21935), Probir Nitayanan Das ((21936), Ramiah Savanan (21937), Santosh Kumar Dhyani (21938), Rajeev Kumar Jha (21939), Girish Rao (21940), Rajeev Das (21941), Udnandrao Sainath (21942), V George Koshy (21943), Shiv Prasad Sati (21944), Biswajit Mishra (21945), Vinod Kumar Pathak (21946), Anand Janardan Lamdhade (21947), Muthuvenkatesan Nagarajan (21948), Akash Deep Mathur (21949), Manoj Kumar Gogoi (21950), Kondapally Sai Suman (21951), Kozhipurath Venugopal (21952), Ajay Kumar Pandey (21953), Ranabir Banerjee (21955), A Ebenezer (21956), Manoj Mehta (21957), Harendra Singh (21958), Ananth Gadepalli (21959), Parag Ramesh Chithnivas (21960), Inderjeet Singh Hanspal (21961), Shashikant Baijal (21962), Faisal Favis Metheruvathu Panahiotom (21963), Uday Jagannath Kulkarni (21964), Biju Mathew Kuiikkattu (21965), Ashwini Kumar Pundhir (21966) and Venkata Lakshmana Kumar Anukula (21967) w.e.f.10 Jun 92.

H. B. SHARMA,
Sqn Ldr
ADPO-3(D)

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission in the IAF to the undementioned UFS candidates in the rank of Pilot Officer under the provision Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22255/1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Paritosh Agrawal (21760), Sanjay Dubey (21761), Gautam Chakraborty (21762), Vijay Kumar Gupta (21763) w.e.f. 09 Mar 91.

H. B. SHARMA,
Sqn Ldr
ADPO-3(D)

The President is pleased to grant of Short Service Commission (on probation) in the rank of Pilot Officer to the undermentioned, under the provision of AFI 2/73 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Rajneesh Kumar (21734), Satish Kumar Pillai (21735), Prem Nath Sharma (21736), Dukman (21737), Padmanabhan Venugopal (21738), Himanshu Gopal (21739), Gurvinder Singh Barni (21740), Dipti Ranjan Mishra (21741), Saldu P (21742), Ponmurugan Ganesan (21743), Mohandas Poonkundran (21744), Hampapuram Narasimha Kumar (21745), Jeshir Singh Bedi (21746), Manish

Jhingran (21747), Shahane Ajitraj Dinkar (21748), Shree Krishnan Raghupathy (21749), Kale Abhijit Vidyadhar (21750), Bhaskar Bhattacharya (21751), Sodha Kartik Vasantbhai (21752), Satyendra Bharadwaja (21753), Sanjay Kumar Yadav (21754), Ramasamudra Ananthamurthy Ranjan Ram (21755), Raju Kelady Menon (21756), Anoop Bahl (21757), Alok Kumar Shrivastava (21758), Indranil Banerjee (21759), Unni Krishnan R S (21764), Rajeev Mohan Jha (21766), Sanjeev Kumar (21767), w.e.f. 09 Mar 92.

M Venkateswar Reddy (21765) w.e.f. 11 Mar 92.

Thimmappa Naresh Kumar (21802) w.e.f. 27 Mar 92.

The President is pleased to terminate Provisional Short Service Commission w.e.f. the dates shown against their names and grant of Short Service Commission (Confirmed) with effect from the same dates in the rank of Pilot Officer to the undermentioned, under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/PO-3(A)/474/DOIA/D(Air-III) dated 27 Mar 85.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Vaidya Sundeep Prabhakar (20708) w.e.f. 02 Apr 90.

H. B. SHARMA,
Sqn Ldr
ADPO-3(D)

(AIR BRANCH)

No. 1140, dated 16 11-92.—The President is pleased to grant of one tenure of extension of Short Service Commission to the undermentioned, with effect from the date shown against his name under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/PO3(A)/474/DOIA/D(Air-III) dated 27 Mar 85.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Flt Lt GS Virdi (18030) w.e.f. 20 Aug 91.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Flt Lt SR Sinhal (18233) w.e.f. 17 Feb 92.

H. B. SHARMA,
Sqn Ldr
ADPO-3(D)

(DEPATT. OF DEFENCE PRODN. & SUPPLIES)

No. 1141, dated 25th September 1992.—The President is pleased to make the following promotion:—

Sh. MK Joseph, Foreman, SQAE(L), S'bad to be offg. Junior Scientific Officer at Controllerate of Quality Assurance Power Systems, Bangalore w.e.f. 17 Jul 92 (FN) on probation for a period of two years.

Sh. AP Mukundan, STA, Quality Assurance Estt(N), Cochin to be offg. Junior Scientific Officer at Chief Quality Assurance Estt. (WS), Bombay w.e.f. 24-7 92 (FN) on probation for a period of two years.

Sh. PS Oberoi, STA, Quality Assurance Estt (N), Faridabad to be offg. Junior Scientific Officer at HQ-DQAN, New Delhi w.e.f. 12 Mar 92 (FN) on probation for a period of two years.

G. VIJAYA KUMAR,
Director (Admin)

(ARMY BRANCH)

No. 1142, dated 20th November 1992.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Capt to be Major

KP Bhat (IC-39433) Sigs, MS Kohli (IC-39434) AC, Sunjiv Bajaj (IC-39435) Engs, SK Saini (IC-39436), ST Upasani (IC-39437) Inf, V George (IC-39439) Arty, SS Bais (IC-39440), Rajbir Singh (IC-39441) Inf, Rohit Shukla (IC-39442) AC, CK Sood (IC-39444) EME, SS Hasabnis (IC-39445) Engrs, KK Kapoor (IC-39446), AC, Jagmohan Singh (IC-39447), Mohit Whig (IC-39448) Inf, Venish Rai (IC-39449) M/Inf, SK Thapa (IC-39454) Inf, GP Singh (IC-39455) ASC, SD Sarin (IC-39460) AC, APS Rawat (IC-39461) Inf, MH Thakur (IC-39464) ASC, KB Mall (IC-39466), HS Bhagat (IC-39468), MM Gupta (IC-39470), JK Maiwal ((IC-39472) Inf, NK Bhaduri (IC-39473) Arty, 13 Jun 1992.

KM Sheth (IC-38539) Inf, 22 Dec 1990.

Shashi Rana (IC-39474) Inf, Satnam Singh (IC-39475) Arty, Ravi Bedi (IC-39476) AC, Sunil Kapila (IC-39478) Sigs, B Krishnamurti (IC-39479) Arty, RS Auja (IC-39480) Inf, SR Choudhary (IC-39481) AOC, PS Rathore (IC-39482) Arty, Purojit Roy (IC-39483), Harcharan Singh (IC-39484), SS Yadav (IC-39485), SS Auja (IC-39487) Inf, Arun Kumar (IC-39488) Engrs, Harbhinder Singh (IC-39489) ASC, VS Shekhawat (IC-39490), AK Das (IC-39491), A Chauhan (IC-39492) Inf, MB Subramaniam (IC-39493) M Inf, AK Pandey (IC-39494) Inf, Deepak Kumar (IC-39495) Arty, Satya Pal (IC-39496) Inf, RK Sinha (IC-39497) AC, P Chandra (IC-39498), CE Fernandes (IC-39500) Inf, AP Singh (IC-39501) Arty, DK Pun (IC-39503) ASC, 13 Jun 1992.

Pankaj Tyagi (IC-39568) Arty, PRS Chaudhary (IC-39569), RN Pande (IC-39570) Arty, Ravindran K (IC-39571) AC, S Jetley (IC-39572), JP Sengupta (IC-39574), SS Hansra (IC-39575) Inf, AK Ramakrishnan (IC-39576) Arty, Hailiharan Ravi (IC-39577) Sigs, Rajiv Chopra (IC-39579), MK Rai (IC-39580) Arty, Balraj Singh (IC-39581) Engs, MS Bisht (IC-39582) AOC, JN Nayar (IC-39583) EMF, R Vishwanathan (IC-39584) Inf, Manoj Verma (IC-39585) EME, DV Dey (IC-39586) Inf, Achal Taneja (IC-39587) Arty, TS Malara (IC-39589) Arty, H Thukral (IC-39590), GS Sirohi (IC-39592) Inf, PK Sharma (IC-39593) Engrs, JR Chandra (IC-39594) Inf, OP Chaudhary (IC-39595) AC, PS Narwal (IC-39596) Engrs, 13 Jun 1992.

RS Sidhu (IC-38117)) Arty, 9 Jun 1990.

SS Kale (IC-39504) Inf, PR Reddy (IC-39505) AC, SB Sajjan (IC-39506) Inf, Rajat Jairath (IC-39508) Arty, BK Chaudhary (IC-39509) Inf, Sudhir Lamba (IC-39510) Arty, AK Prasad (IC-39511) Inf, Neeraj Verma (IC-39512) Arty, SP Sharma (IC-39513) Inf, SG Khare (IC-39515) AC, G Karunakaran (IC-39517) Inf, Ravi Prasad (IC-39518) AC, SK Dabral (IC-39519) Sigs, TS Naidu (IC-39520) ASC YT Jain (IC-39521) Arty, JS Negi (IC-39522) Inf, AK Raghava (IC-39523) Arty, Prashanth Kumar (IC-39524) Arty, Sanjay Kumar (IC-39525) Arty, SK Sharma (IC-39526) Inf Vivek Choudhary (IC-39527) Arty, AJ Vijay Kumar (IC-39528) Arty, PV Yadav (IC-39529), Punjab Singh (IC-39530), BJS Hansra (IC-39531) Inf, UC Dubey (IC-39534) Arty, VK Batia (IC-39532) Inf, 13 Jun 1992.

AK MALIK,
CSO
DAMS 8C

No. 1143, dated 12th November 1992.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Sqn Ldr to bc Wg Cdr

D MUKHERJI (MR-03782-M) (15155) AMC, 1st June 1992.

S SINGH (MR-03925-F) (15318) AMC, 1st June 1992.

A JHA (MR-03926-K) (15319) AMC, 03rd June 1992.

Major (Sqn Idr) to be Lt Col (Wg Cdr)

P C PRASAD (MR-03774-N) (15154) AMC, 1st June 1992.

Major to be Lt Col

A R KUMAR (MR 03936-N) AMC, 5th July 1992.

P C MAHAPATRA (MR-03976-P) AMC, 20th July 1992.

R R KUSUGAL (MR 04528-P) AMC, 19th July 1992.

S. G. NIYOGI,
Maj. Gen.
Addl. DGAFMS

No. 1144, dated 18th November 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
Infantry

The Parachute Regiment

To be Subedar Major

Sub Manbhar Singh (JC-101105L), 01st Feb 1992.

Sub Raja Ram Patil (JC-102213F), 01st Apr 1992.

To be Subedar (GD)

Nb Sub Punam Singh (JC-164479L), 01st Feb 1992.

Nb Sub Sidh Gopal Singh (JC-159101A), 01st Feb 1992.

Nb Sub Bharat Singh (JC-159103L), 01st Feb 1992.

Nb Sub Bhanwar Singh Gujar (JC-157796P), 01st Feb 1992.

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-157797X), 01st Feb 1992.

Nb Sub Shanti Kumar (JC-163591W), 01st Feb 1992.

Nb Sub Rameshwari (JC-164729M), 01st Feb 1992.

Nb Sub Chanan Singh (JC-169114I.), 01st Feb 1992.

Nb Sub Aravindakshan K (JC-173131H), 01st Feb 1992.

Nb Sub Gopal Singh (JC-173133N), 01st Feb 1992.

Nb Sub Pitam Singh (JC-168810W), 01st Feb 1992.

Nb Sub Sube Singh (JC-194504Y), 01st Apr 1992.

Nb Sub Guimail Singh (JC-174909H), 01st May 1992.

THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Jagdish Chand (JC-105588L), 01st June 1992.

Sub Partap Singh (JC-130787K), 01st June 1992.

Sub Sohan Singh (JC-101370F), 01st July 1992.

To be Subedar

Nb Sub Nirmaljit Singh Gill (JC-168498Y), 01st Aug 1992.

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Balasundaram (JC-114408Y), 1st June 1992.

Sub Madan Thangavel (JC-108309A), 1st Aug 1992.

Sub N Pashel Anal (JC-123392A), 1st Aug 1992.

Sub Krishnapillai Sasidharan Nair (JC-104182L), 1st Aug 1992.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Ramasubramani Aiyer Ganesan (JC-134305F), 1st Aug 1992.

To be Sub

Nb Sub A Santhiagu (JC-157809F), 1st Jan 1992.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Vasudevan Muraleedharan Nair (JC-175953Y), 1st June 1992.

To be Sub (Pandit)

Nb Sub (Pandit) M Chandrasekharan Nair (JC-81745L), 1st Apr 1992.

THE GRENAIDIERS

To bc Subedar Major

Sub Chet Ram (JC-117480A), 01 Apr 1992.

Sub Kailash Singh (JC-96547X), 01 Apr 1992.

Sub Ramesh Bhai Patel (JC-77629L), 01 May 1992.

Sub Richhpal Singh (JC-98655A), 01 Jun 1992.

Sub Sobaran Singh (JC-95587M), 01 Jun 1992.

Sub Rajak Khan (JC-98654X), 01 Jun 1992.

Sub Ram Prasad (JC-133836M), 01 Jun 1992.

To be Sub

Nb Sub Jal Ram (JC-148314N), 01 Feb 1992.

Nb Sub Umed Singh (JC-148315W), 01 Feb 1992.

Nb Sub Balwan Singh (JC-181779N), 01 Feb 1992.

To be Subedar (Musician)

Nb Sub Kundan Singh (JC-173834K), 01 Jul 1992.

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Jagannath Dalvi (JC-100721Y), 1st May 1992.

Sub Shedge Vasant Gangaram (JC-114405L), 1st May 1992.

Sub Sakharan Khot (JC-87387F), 1st May 1992.

Sub Rajaram Bhosle (JC-95268A), 1st June 1992.

To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Nathu Gurnule (JC-112460M), 1st May 1992.

Sub Clk Kendre Sakharan (JC-120119A), 1st June 1992.

To be Sub

Nb Sub Vishwanath Prasad (JC-145049X), 1st May 1992.

Nb Sub Darekar Dnyandeo Eknath (JC-166678H), 1st May 1992.

Nb Sub Pundlik Kachu Tarihalkar (JC-162131H), 1st May 1992.

Nb Sub Hanmant Krishna More, VrC (JC-142954F), 1st June 1992.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Khot Vilas Rajaram (JC-182953F), 1st May 1992.

Nb Sub Clk Premand Pandurang Bhagat (JC-182954K), 1st May 1992.

Nb Sub Clk Surendran Pillai TB (JC-181788P), 1st May 1992.

Nb Sub Clk Sawant Dasharatha (JC-184308L), 1st May 1992.

Nb Sub Clk Surj Bhan Singh Jakher (JC-184309N), 1st June 1992.

Nb Sub Clk Prakash Govekar (JC-184289L), 1st June 1992.

Nb Sub Clk Shrikant Govind Natu (JC-184290A), 1st June 1992.

The RAJPUT REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Jagat Bahadur Singh (JC-104221Y), 1st July 1992.

Sub Kamal Singh (JC-118788A), 1st July 1992.

Sub Aram Singh (JC-140548H), 1st Aug 1992.

To be Sub

Nb Sub Ram Bahadur Singh (JC-163641W), 1st May 1991.

Nb Sub Dinesh Kumar Singh (JC-164041A), 1st June 1991.

Nb Sub Puran Mal Verma (JC-163645M), 1st Dec 1991.

Nb Sub Sunder Pal Singh (JC-171894A), 14th Dec 1991.

Nb Sub Ram Niwas (JC-171895H), 1st Jan 1992.

Nb Sub Digvijai Singh (JC-178548M), 1st Jan 1992.

Nb Sub Jai Ram Singh (JC-190778M), 1st Apr 1992.

Nb Sub Bhim Singh (JC-171897N), 1st May 1992.

Nb Sub Hee Ram (JC-164967Y), 1st May 1992.

To be Sub Maj

Sub Jarnail Singh (JC-134201A), 1st Aug 1992.

Sub Ishwar Dass (JC-143666F), 1st Aug 1992.

Sub Jagan Nath Mishra (JC-135638A), 1st Aug 1992.

Sub Jitendra Datta (JC-112408A), 1st Aug 1992.

To be Sub

Nb Sub Ram Pratap Singh (JC-171904Y), 1st July 1992.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Laxmi Narayan Sinha (JC-192595P), 20th Oct 1991.

The SIKH REGIMENT

To be Subedar Majors

Sub Satpal Singh (JC-116243K), 01 July 1992.

Sub Tara Singh (JC-100677A), 01 July 1992.

Sub Nand Singh (JC-106740A), 01 July 1992.

To be Subedars

Nb Sub Santokh Singh (JC-166710M), 01 Feb 1992.

Nb Sub Datta Singh (JC-171942P), 01 July 1992.

To be Subedar Clerks

Nb Sub Clk Sham Lal (JC-192969A), 01 July 1992.

The Sikh LI

To be Subedar Major (GD)

Sub Ranjit Singh (JC-118171K), 1st July 1992.

Sub Malkit Singh (JC-101492I), 1st July 1992.

The GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Balbir Singh (JC-112766L), 1st May 1992.

Sub Darwan Singh Rawat (JC-103466M), 1st May 1992.

Sub Rajpal Singh (JC-105379F), 1st June 1992.

Sub Piem Singh (JC-107390L), 1st June 1992.

Sub Piem Singh, SM (JC-103469W), 1st June 1992.

To be Sub Maj (Clerk)

Sub (Clerk) Ummed Singh Negi (JC-134385K), 1st May 1992.

Sub (Clerk) Narain Singh Negi (JC-134384F), 1st June 1992

To be Sub

Nb Sub Ranjeet Singh (JC-152556N), 1st May 1992.

Nb Sub Yogambar Singh Negi (JC-152560W), 1st May 1992.

Nb Sub Umed Singh (JC-152897Y), 1st June 1992.

Nb Sub Karan Singh Farshwan (JC-152905M), 1st June 1992

Nb Sub Chater Singh (JC-166094X), 1st June 1992.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clerk) Basant Bihari Joshi (JC-188529P), 1st May 1992.

Nb Sub (Clerk) Rajib Singh (JC-188530K), 1st June 1992.

The Kumaon Regiment

To be Subedar

Nb Sub Nandan Ram (JC-168579Y), 1st June 1992.

Nb Sub Kharak Ram (JC-142811F), 1st July 1992.

Nb Sub Banwari Lal (JC-149105H), 1st June 1992.

To be Sub Major

Subedar Dhan Singh (JC-136740P), 1st Aug 1992.

Subedar Ram Chandra Upadhyay (JC-128557X), 1st Aug 1992

Subedar Nanpat Singh, SC (JC-120477L), 1st Aug 1992.

Subedar Mahendra Singh (JC-137834Y), 1st Aug 1992.

Subedar Pithi Singh (JC-149100K), 1st Aug 1992.

To be Subedar Major (Clk)

Subedar (Clk) Hoshiyar Singh (JC-173902M), 1st Aug 1992.

The Assam Regiment

To be Sub Maj

Sub Chaldawla Lushai (JC-107313W), 01st Aug 1992.

Sub Gunendra Nath Bordoloi (JC-110925Y), 01st Aug 1992.

Sub Chumlung Naga (JC-103293W), 01st Aug 1992.

To be Sub

Nb Sub Deb Bahadur Chetry (JC-151403X), 01st May 1992.

Nb Sub Mangtalin Kom (JC-164830M), 01st Jun 1992.

Nb Sub Joy Chandra Chetia (JC-167269F), 01st Jun 1992.

Nb Sub Jibon Kumar Gogoi (JC-173065L), 01st Jun 1992.

Nb Sub Kamal Kumar Das (JC-151392W), 01st Aug 1992.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Dhareswar Das (JC-173075P), 01st Jun 1992.

Nb Sub Clk Brojo Chand Rajkumar (JC-173076X), 01st Jun 1992.

Nb Sub Clk Suren Chandra Bharali (JC-173077W), 01st Jul 1992.

The Bihar Regiment

To be Subedar

Nb Sub Ram Nagina Prasad Yadav (JC-159271K), 1st August 1991.

Nb Sub Sugriw Baitha (JC-173256H), 1st November 1991.

Nb Sub Bala Krushna Dalai (JC-155454H), 1st January 1992.

Nb Sub Dinesh Handa (JC-165002N), 1st March 1992.

Nb Sub Joy Ram Dehuri (JC-135801P), 1st June 1992.

JAK LI

To be Sub

Nb Sub Abdul Karim Sie (JC-143753P), 01st Sep 1991.

Nb Sub Pritam Singh (JC-143755A), 01st Oct 1991.

Nb Sub Fayaz Ullah Khan (JC-143757L), 01st Jul 1992.

Nb Sub Om Prakash (JC-145598X), 01 Jul 1992.

Nb Sub Biriam Chand (JC-158435N), 01st Jun 1992.

Nb Sub Kasar Singh (JC-158436L), 01st Jun 1992.

To be Sub Maj

Sub Kishan Singh Gurung (JC-126502P), 1st Aug 1992.

Sub Mukti Parsad Gurung (JC-125160A), 1st Aug 1992.

Sub Pushkar Singh Gurung (JC-129295Y), 1st Aug 1992.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Alok Shrestha (JC-193967F), 1st Aug 1992.

3 GR

To be Subedars

Nb Sub Durga Bahadur Gurung (JC-183111F), 1st Apr 1992.

Nb Sub Pritam Bahadur Thapa (JC-178676K), 1st Jun 1992.

The Madras Regiment

To be Subedars

Nb Sub Raman Gopinathan Nair (JC-145396W), 1st Jan 1992.

Nb Sub Sudamani Muthupattan (JC-151162H), 1st Jan 1992.

Nb Sub Moothirappalil Padmanabhan Sadan (JC-162095H), 1st Jan 1992.

Nb Sub M Muniswamy (JC-126453X), 1st Feb 1992.

Nb Sub R Prabhakaran (JC-145020P), 1st May 1992.

Nb Sub Thirugnana Sambanda Moorthy (JC-162096L), 1st May 1992.

Nb Sub Thevilethu Krishna Pillai Narayana Pillai (JC-134295H), 1st June 1992.

Nb Sub Mohanan Nair V (JC-155956L), 1st June 1992.

Nb Sub Babu Varghese (JC-145397Y), 1st July 1992.

Nb Sub Thangamani S (JC-147398A), 1st Aug 1992.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Pullamplavil John Varghese (JC-174994W), 1st June 1992.

Nb Sub (Clk) Kuppanamada Subbaiah Somalah (JC-177936X), 1st Sep 1992.

The Granadiers

To be Sub

Nb Sub Sultan Kathat (JC-152413N), 01st Apr 1992.

Nb Sub Yasab Ali Khan (JC-175342K), 01st May 1992.

Nb Sub Hawa Singh (JC-173140K), 01st Jun 1992.

Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-173829Y), 01st Jun 1992.

Nb Sub Koop Singh (JC-159141F), 01st Jun 1992.

Nb Sub Bhup Singh (JC-178500Y), 01st Aug 1992.

The Raj Rif

To be Sub Maj

Sub Harphool Singh (JC-108635H), 1st Jun 1992.

Sub Bhanwar Singh (JC-108627K), 1st Jun 1992.

Sub Mandroop Singh (JC-102179M), 1st Jun 1992.

Sub Jaley Singh (JC-127453K), 1st Aug 1992.

Sub Harphool Singh (JC-118840X), 1st Aug 1992.

Sub Ram Avtar Singh (JC-116181P), 1st Aug 1992.

Sub Duli Chand (JC-118837X), 1st Aug 1992.

Sub Pratap Singh (JC-147462M), 1st Aug 1992.

To be Sub

Nb Sub Kumbh Singh (JC-164957P), 1st May 1992.

Nb Sub Mool Singh (JC-151649W), 1st May 1992.

Nb Sub Mohan Singh (JC-144564X), 1st Jun 1992.

Nb Sub Rajendra Pratap Singh (JC-164756W), 1st Jun 1992.

Nb Sub Kumbh Singh Sisodia (JC-164958X), 1st Jun 1992.

Nb Sub Om Prakash (JC-164039H), 1st Jun 1992.

Nb Sub Mangu Singh (JC-158367A), 1st Jun 1992.

Nb Sub Om Singh (JC-151659A), 21st Aug 1992.

The Rajput Regiment

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Gian Chand Udar (JC-193729P), 1st June 1992.

Nb Sub Clk Ram Pal Singh (JC-193730K), 1st June 1992.

Nb Sub Clk Balbir Singh Gill (JC-193732P), 1st July 1992.

Nb Sub Clk Chandrika Singh (JC-193749F), 1st Aug 1992.

To be Sub Major

Sub Prem Pal Singh (JC-108499Y), 1st Aug 1992.

Sub Ravti Prasad (JC-106081W), 1st Sep 1992.

To be Sub

Nb Sub Komal Singh Bhadwaria (JC-178539L), 1st Nov 1991.

Nb Sub Deep Singh (JC-167443H), 1st July 1992.

Nb Sub Wattan Singh (JC-171719L), 1st Aug 1992.

Nb Sub Amar Singh (JC-156011N), 1st Aug 1992.

The Sikh Regiment

To be Sub

Nb Sub Balbir Singh (JC-152852Y), 01 July 1992.

The Sikh LI

To be Sub Maj (GD)

Sub Mukhtiar Singh (JC-104076M), 1st Aug 1992.

Sub Joginder Singh (JC-101979Y), 1st Aug 1992.

Sub Sukhjai Singh (JC-107799M), 1st Sep 1992.

Sub Gurdev Singh (JC-100627P), 1st Sep 1992.

The Sikh LI

To be Sub (GD)

Nb Sub Dalip Singh (JC-137061K), 1st Feb 1992.

Nb Sub Bir Singh (JC-171957X), 4th Aug 1992.

The Dogra Regiment

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Sharad Chander Kailkhuri (JC-42476N), 1st Apr 1992.

To be Sub Maj

Sub Jantjej Singh (JC-108477Y), 1st Aug 1992.

Sub Manisha Ram (JC-103515A), 1st Aug 1992.

Sub Surinder Paul (JC-107784K), 1st Aug 1992.

Sub Chhabli Ram (JC-97836Y), 1st Aug 1992.

To be Sub

Nb Sub Dhan Singh (JC-163907X), 1st Aug 1991.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-166079M), 1st Sep 1991.

Nb Sub Vullam Gunta Sita Rama Swamy (JC-169211H), 1st Oct 1991.

Nb Sub Sushil Kumar (JC-163674F), 1st May 1992.

Nb Sub Rigzin (JC-145319X), 1st July 1992.

Nb Sub Jarnail Singh (JC-157874F), 1st Aug 1992.

Nb Sub Baldev Singh (JC-155711P), 1st Aug 1992.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Sher Singh (JC-183022K), 1st Sep 1992.

The Kumaon Regiment

To be Sub

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-152587N), 1st Apr 1992.

Nb Sub Manohar Singh (JC-149120X), 1st Aug 1992.

Nb Sub Lal Singh (JC-173909F), 1st June 1992.

Nb Sub Kailash Chandar (JC-173064H), 1st Aug 1992.

The Assam Regiment

To be Sub

Nb Sub Sidhi Ram Nath (JC-175401L), 1st May 1992.

Nb Sub Promod Chandra Handique (JC-173070W), 1st Jul 1992.

Nb Sub Manik Chandra Singha (JC-157891F), 1st Aug 1992.

The Maher Regiment

To be Sub Maj Clk (GD)

Sub Clk TK Kunhi Rama Kurup (JC-144929F), 01st May 1992.

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Clk Ami Lal Yadava (JC-183097K), 01st Dec 1991.

Nb Sub Clk Chanan Singh (JC-183098K), 01st Jan 1992.

Nb Sub Clk Govind (JC-184476K), 01st Feb 1992.

Nb Sub Clk Sawaran Singh Pathania (JC-192683L), 01st Mar 1992.

Nb Sub Clk Rang Rao (JC-192684N), 01st Mar 1992.

Nb Sub Clk Dayanand Nasir (JC-193019X), 01st Mar 1992.

Nb Sub Clk Solonko Dada Saheb Rangu (JC-193020M), 01 Mar 1992.

Nb Sub Clk Suwal Ranjan Acharjee (JC-193872F), 01st Apr 1992.

Nb Sub Clk Paritosh Goswami (JC-193873K), 01st May 1992.

JAK RIF

To be Nb Sub [Religious Teacher (Pandit)]

Puran Chandra Lshkhak (JC-578006W), 10th Jul 1992.

To be Subedar Major (GD)

Sub Chhail Singh (JC-82854K) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Sub Parkash Singh (JC-83427A), JAK RIF, 1st Jul 1992.

Sub Roshan Lal (JC-109170A) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Sub Bua Dass (JC-11265IX) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Sub Abdul Gani Qazi (JC-104874A) JAK RIF, 1st Aug 1992.

To be Subedar (GD)

Nb Sub Ram Chand (JC-169457F) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Nb Sub Jit Singh (JC-175121X) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Nb Sub Bishamber Dass (JC-168603K) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Nb Sub Amar Singh (JC-167498M) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Nb Sub Charan Dass (JC-179454F) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Nb Sub Phalli Ram (JC-163928N) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Nb Sub Babu Singh (JC-169253P) JAK RIF, 1st Jul 1992.

Nb Sub Jumma Mohd (JC-127092W) JAK RIF, 1st Aug 1992.

JAK LI

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Bishan Dass (JC-142839F), 01 Jun 1992.

Nb Sub (Clk) Shelo Ram (JC-142840W), 01 Jun 1992.

4 GR

To be Sub

Nb Sub Bhan Prasad Gurung (JC-161024P), 1st Aug 1992.

Nb Sub Omkar Singh (JC-161028L), 1st Aug 1992.

Nb Sub Babu Ram (JC-155850Y), 1st Aug 1992.

9 GR

To be Sub Maj

Subedar Jang Bahadur Chhetri (JC-113955F), 1st Aug 1992.

Subedar Mithu Raj Adhikari (JC-115957M), 1st Aug 1992.

3 GR

To be Subedar

Nb Sub Sunder Bahadur Gurung (JC-163966X), 1st Jan 1992.

Nb Sub Krishna Bahadur Rana (JC-163967M), 1st Jan 1992.

3 GR

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Budhi Prakash (JC-204385K), 1st Jun 1992.

Nb Sub (Clk) Gyan Singh Rana (JC-204386M), 1st Aug 1992.

Special List

5 GR (FF)

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Bhupendra Kumar Mani Tripathi (now JC-617001W), 10th Jul 1992.

5 GR (FF)

To be Sub Maj

Sub Tej Bir Gurung (JC-116476L), 1st Jul 1992.

Sub Shiv Darshan Singh Pradhan (JC-125232Y), 1st Aug 1992.

To be Sub

Nb Sub Tika Ram Gurung (JC-168948L), 1st Jul 1992.

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Chhaya Datt Sharma Gautam (JC-41664H), 1st Apr 1992.

To be Sub Maj

Sub Chitra Bahadur Gurung (JC-106814K), 1st Jul 1992.

Sub Khem Bahadur Thapa (JC-117254H), 1st Jul 1992.

Sub Rudra Bahadur Thapa, VSM (JC-108340M), 1st Jul 1992.

To be Sub

Nb Sub Amrit Bahadur Gurung (JC-172818A), 1st Jul 1992.

Nb Sub Nar Kaji Gurung (JC-172821A), 1st Jul 1992.

Nb Sub Om Bahadur Gurung (JC-167312X), 1st Jul 1992.

Ladakh Scouts

To be Sub

Nb Sub Chhering Mutup (JC-164853N), 1st May 1992.

Nb Sub Nawang Rigzin (JC-175131F), 19th Jun 1992.

Regiment of Artillery

To be Substantive Subedar Major

(Religious Teachers)

Sub Maj Rajinder Singh (JC-41311H), 01 Apr 1992.

Sub Maj Kanhaiya Dubey (JC-28312M), 01 Apr 1992.

Sub Maj Anoop Singh (JC-37410N), 01 Apr 1992.

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav V Joginder Singh (1256009F now JC-223556A), 13 Jun 91.*

*(Granted seniority wef 25 Mar 91 without effect on pay and allowances).

Hav Laxmi Narain Sharma (1258196K now JC-223557H), 17 Apr 91.*

*(Granted seniority wef 24 Mar 91 without effect on pay and allowances).

Hav Ramveer Singh (1252082H now JC-223558L), 24 Mar 91.

Hav Ved Singh (1242584X now JC-223559N), 03 Apr 91.*

- *(Granted seniority wef 16 Mar 91 without effect on pay and allowances).
- Hav Shri Ram Tiwari (1257273F now JC-223560H), 24 Mar 91.
- Hav Ramanand Sharma (14452030W now JC-223561L), 28 Mar 91.*
- *(Granted seniority wef 24 Mar 91 without effect on pay and allowances).
- Hav Raja Ram Yadava (14323619H now JC-223562N), 01 Mar 91.
- BHM Sukhi Ram (14319412L now JC-223563W), 22 Oct 91.*
- *(Granted seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allowances).
- Hav Depak Pandey (1259979P now JC-223564Y), 02 Mar 91.
- BHM Chanan Singh Bhadoria (1292618W now JC-223565F), 01 Mar 91.
- Hav Narinderpal Singh (1263996M now JC-223566K), 05 Mar 91.*
- *(Granted seniority wef 02 Mar 91 without effect on pay and allowances).
- Hav Dial Singh (1251687X now JC-223567M), 08 Mar 91.
- Hav Jai Singh Chauhan (14325066W now JC-223568P), 10 Apr 91.
- Hav Mohan Lal (14309231M now JC-223569X), 01 Apr 91.
- Hav Keshav Datt (1295212N now JC-223570M), 01 Apr 91.
- Hav T Panner Selvan (14460267H now JC-223571P), 09 May 91.*
- *(Granted seniority wef 06 Apr 91 without effect on pay and allowances).
- BHM Chet Ram (14320705H now JC-223572X), 21 May 91.*
- *(Granted seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay and allowances).
- RHM Budhi Lal (13856410K now JC-223573A), 01 Apr 91.
- Hav Hari Singh (14320803H now JC-223574H), 01 Apr 91.
- Hav Sarju Prasad Singh Yadava (1245485A now JC-223575L), 01 Apr 91.
- Hav Hanuman Singh (14321809W now JC-223576M), 01 Apr 91.
- BHM B Sankaran (14321084F now JC-223577W), 01 Apr 91.
- Hav Shanti Dbar (1265668X now JC-223578Y), 01 Apr 91.
- Hav Avtar Singh (14330647X now JC-223579F), 01 Apr 91.
- Hav Ranjit Singh (14327953F now JC-223580W), 23 Apr 91.
- Hav Kashmir Singh (1265922W now JC-223581Y), 01 Apr 91.
- Hav Jasstab Singh (1262975K now JC-223582F), 01 Apr 91.
- Hav Shri Chand (1254867L now JC-223583K), 01 Apr 91.*
- Hav Gian Singh (1290187W now JC-223584M), 01 Apr 91.*
- *(Granted seniority wef 12 Dec 90 without effect on pay and allowances).
- BHM Jagmal Singh (1245720N now JC-223585P), 24 Jun 91.*
- *(Granted seniority wef 01 May 91 without effect on pay and allowances).
- BHM Dalip Singh (14309884N now JC-223586X), 01 May 91.
- Hav Kuldip Singh (1258703M now JC-223587A), 01 May 91.
- BHM Jagram Singh Yadava (1266515A now JC-223588H), 01 May 91.
- Hav Ganpat Singh Rajwat (1262367H now JC-223589L), 01 Jun 91.
- BHM Rajendra Kumar Thapa (5445153Y now JC-223590A), 01 Jun 91.
- Hav Malkiat Singh (14321241H now JC-223591H), 06 Jun 91.
- Hav Pal Singh (14318231N now JC-223592L), 01 Jun 91.
- RHM Kismat Singh (1248080A now JC-223593N), 01 Jun 91.
- Hav Chandra Shekher Shukla (14344256X now JC-223594W), 01 Jul 91.
- Hav Shatrusudan Singh (1251837H now JC-223595Y), 01 Jul 91.
- Hav Maruti Basawanneppa Batagari (14325905H now JC-223596F), 01 Jul 91.
- BHM Omkar Singh (1245023N now JC-223597K), 19 Jul 91.
- Hav Jasbir Singh (1269323N now JC-223598M), 01 Jul 91.
- BHM Lakhbir Singh (14311871P now JC-223599P), 10 Jul 91.*
- *(Granted seniority wef 01 Jul 91 without effect on pay and allowances).
- Hav Amrik Singh (1262825N now JC-223600Y), 01 Jul 91.
- Hav Om Prakash (14321733F now JC-223601F), 01 Jul 91.
- Hav Ishwar Singh (14321374Y now JC-223602K), 01 Jul 91.
- Hav Jit Singh (1263001X now JC-223603M), 01 Jul 91.
- BHM Gobinder Singh ((1294175Y now JC-223604P), 01 Jul 91.
- Hav Surendra Pandit (14313355Y now JC-223605X), 01 Jul 91.
- Hav Ram Awadhesh Pandey (1264494W now JC-223606A), 01 Aug 91.
- Hav Ramesh Chand (14319629P now JC-223607H), 05 Sep 91.*
- *(Granted seniority wef 01 Aug 91 without effect on pay and allowances).
- Hav Pradyumn Tripathi (1257793M now JC-223608L), 01 Aug 91.
- BHM Sukhdev Singh (1262079W now JC-223609N), 01 Aug 91.
- BHM Rajinder Singh (1247775W now JC-223610H), 01 Aug 91.
- Hav Parikramajit Singh (14308693M now JC-223611L), 01 Aug 91.

- Hav Anmed Singh (1259347K now JC-223612N), 01 Aug 91.
- Hav Shiv Bilas (1260569L now JC-223613W), 01 Sep 91.
- Hav Jarnail Singh (1261827M now JC-223614Y), 01 Sep 91.
- BHM Shaik Rahmian (1262125A now JC-223615F), 01 Sep 91.
- Hav Rameshwar Prasad Yadav (1265247P now JC-223616K), 01 Sep 91.
- BHM Bakhtabar Singh Dadhwal (14313766X now JC-223617M), 01 Sep 91.
- BHM Sewa Singh (1290445L now JC-223618P), 01 Sep 91.
- Hav Mohinder Singh (1258552Y now JC-223619X), 01 Sep 91.
- Hav Mehai Singh (14305548K now JC-223620M), 08 Sep 91.*
- *(Granted seniority wef 01 Sep 91 without effect on pay and allowances).
- Hav Kuldip Singh (14323670H now JC-223621P), 01 Sep 91.
- Hav Darshan Singh (14326792X now JC-223622), 01 Oct 91.
- Hav Gadameedi Venkataiah (1269341M now JC-223623A), 01 Oct 91.
- Hav Singh Raj Yadav (1247146Y now JC-223624H), 01 Oct 91.
- Hav Jagat Ram (1296122Y now JC-223625L), 01 Jan 92.
- To be Nb Sub (Clk GD/SKsT)
- Hav (SKT) Babban Chaubey (No. 1258829M now JC-223626N), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Lashkar Singh (No. 1268298N now JC-223627W), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Jagdish Chand Thakur (No. 1268321W now JC-223628Y), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Surya Prakash (No. 1268368F now JC-223629F), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Mehar Singh Yadav (No. 1268372K now JC-223630W), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Ajit Singh (No. 1268394H now JC-223631Y), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Shubh Dev Singh (No. 1268528W now JC-223632F), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Keshav Singh (No. 1268828X now JC-223633K), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Udhamp Singh Chandel (No. 1268829A now JC-223634M), 10th Mar 1992.*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 92 without effect on pay and allowances).
- Hav (Clk) Raja N (No. 1268867W now JC-223635P), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Surjit Singh (No. 1268917W now JC-223636X), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Selvaraju M (No. 1268966Y now JC-223637A), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Sivanandan OV (No. 1268976H now JC-223638H), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Rajan Nair P (No. 1268979W now JC-223639L), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) John VC (No. 1268990P now JC-223640A), 01st Mar 1992.
- Hav (SKT) Gorakh Ram Rana (No. 14308134H now JC-223641H), 01st Mar 1992.
- Hav (SKT) Kattiah Rama Raj (No. 14308268F now JC-223642L), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) K Sivaankaran (No. 14325520L now JC-223643N), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Laxmana BM (No. 14325667F now JC-223644W), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Puran Chand Sharma (No. 14325808L now JC-223645Y), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Ram Sunder Dwivedi (No. 14325995P now JC-223646F), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) Benchey Lal (No. 14326119W now JC-223647K), 01st Mar 1992.
- Hav (Clk) P Muthu Samy (No. 10451306W now JC-223648M), 01st Mar 1992.
- Hav (SKT) Sunder Singh Malik (No. 1259010F now JC-223649P), 01st Apr 1992.
- Hav (SKT) Manjit Singh (No. 1259044P now JC-223650K), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Rohtash Singh (No. 1269102F now JC-223651M), 17th May 1992.*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 92 without effect on pay and allowances).
- Hav (Clk) Pingale Dilip Prabhakar (No. 1269127H now JC-223652P), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Vijay Kumar Sharma (No. 1269169A now JC-223653X), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Ramakrishnan C (No. 1269190H now JC-223654A), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Shingara Singh Grewal (No. 1269195F now JC-223655H), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Sat Pal (No. 14311095A now JC-223656L), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Sadhu Singh (No. 14326130P now JC-223657N), 28th Apr 1992.*
- "(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 92 without effect on pay and allowances).
- Hav (Clk) Rashpal Singh (No. 14326190F now JC-223658W), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Gur Parkash Singh (No. 14326211P now JC-223659Y), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Suresh Kumar Singh (No. 14326216N now JC-223660N), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) K Muraleedharan (No. 14326261A now JC-223661W), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Pankajakshan CM (No. 14326364Y now JC-223662Y), 23rd May 1992.*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 92 without effect on pay and allowances).
- Hav (Clk) Virendra Singh Chauhan (No. 14326365F now JC-223663F), 13th May 1992.*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 92 without effect on pay and allowances).
- Hav (Clk) Bhanwar Singh Chauhan (No. 14326371P now JC-223664K), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Man Singh Mina (No. 14326372X now JC-223665M), 01st Apr 1992.
- Hav (Clk) Gopala Swamy S (No. 14326424H now JC-223666P), 01st Apr 1992.

Hav (Clk) P Sampath Kumar (No. 14326465M now JC-223667X), 03rd Jun 1992.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 92 without effect on pay and allowances).

Hav.(Clk) Abdur Raashid Laskar (No. 14326528K now JC-223668A), 01st Apr 1992.

To be Nb Sub

Hav Ram Ujagir Singh (1265363X now JC-223669H), 06 Dec 91.*

*(Granted seniority wef 31 Mar 91 without effect on pay and allces).

Hav P Karthiban (1266799P now JC-223670X), 09 Aug 91.*

*(Granted seniority wef 14 Mar 91 without effect on pay and allces).

Hav Ram Kishan (1299669M now JC-223671A), 19 May 91.*

*(Granted seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

BHM Nirenkar Singh (14302854N now JC-223672H), 28 Mar 91.

BHM Swaran Singh (14304137Y now JC-223673L), 20 Mar 91.

Hav N Subramanian (14341746A now JC-223674N), 10 May 91.

Hav Shambu Singh Shekhawat (1262907W now JC-223675W), 31 Mar 91.

Hav Rohitash Yadav (14324480H now JC-223676Y), 04 Jun 91.*

*(Granted seniority wef 24 Mar 91 without effect on pay and allces).

Hav Pit Ram Punia (14319965F now JC-223677F), 15 Mar 91.

Hav Gurdhyam Singh (14323133X now JC-223678K), 18 Mar 91.

Hav Rajinder Singh (14317828K now JC-223679M), 18 Mar 91.

Hav M Seranthian (14324768H now JC-223680F), 01 Apr 91.

BHM T Sellvaraj (14325013X now JC-223681K), 16 Apr 91.

Hav Balwant Singh Yadava (14325081L now JC-223682M), 24 Mar 91.

Hav Mohd Iqubal Khan (1251366A now JC-223683P), 13 Mar 91.

Hav Sumit Singh 14451939H now JC-223684X), 31 Jul 91.*

*(Granted seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay and allces).

Hav Man Bahadur Gurung (5241357K now JC-223685A), 01 Apr 91.

Hav Kuber Nath Mishra (1260147A now JC-223686H), 18 Mar 91.

RHM Krishna Moorthy G (14320875M now JC-223687L), 01 Mar 91.

Hav Damodaran K (1261799L now JC-223688N), 01 Mar 91.

Hav Ram Prakash Singh (14456909P now JC-223689W), 13 Mar 91.

Hav Ghuran Jha (1247612H now JC-223690L), 26 Feb 91.

Hav Hane Raj (14451336M now JC-223691N), 01 Apr 91.

RHM Shahru N Kurian (14339536F now JC-223692W), 21 Apr 91.*

*(Granted seniority wef 16 Apr 91 without effect on pay and allces).

Hav Joy PK (1268400L now JC-223693Y), 01 Apr 91.

Hav Bharat Kumar (14323424X now JC-223694F), 01 May 91.

Hav Nol Singh (14328049F now JC-223695K), 01 May 91.

Hav Khem Bahadur Chhetri (5842130A now JC-223696M), 01 May 91.

Hav P Jaya Raman (14328906W now JC-223697P), 01 Jun 91.

Hav Avtar Singh (1262985N now JC-223698X), 01 Jun 91.

RHM Balu Singh (1269691H now JC-223699A), 01 Jun 91.

BHM Harish Chandra Bhati (14319296N now JC-223700K), 12 Jun 91.

Hav Bagal Shash Rao (14313578W now JC-223701M), 10 Aug 91.*

*(Granted seniority wef 01 Jul 91 without effect on pay and allces).

RHM Chura Mani (1299681N now JC-223702P), 01 Jul 91.

RHM Prem Sagar (14304960L now JC-223703X), 01 July 91.

Hav Surjit Singh (14331183X now JC-223704A), 01 Jul 91.

Hav Ratneswar Pathak (14326252Y now JC-223705H), 01 Jul 91.

Hav Sultan Singh Rawat (1262344F now JC-223706L), 08 Aug 91.*

*(Granted seniority wef 01 Jul 91 without effect on pay and allces).

BHM MS Satya Moorthy (14451207M now JC-223707N), 07 Sep 91.*

*(Granted seniority wef 01 Aug 91 without effect on pay and allces).

Hav Datar Singh Rajput (1245839X now JC-223708W), 01 Aug 91.

BHM Narainu Ram (14304576K now JC-223709Y), 01 Aug 91.

BHM Siddhnath Singh (14328360F now JC-223710N), 17 Jun 91.*

*(Granted seniority wef 01 Jun 91 without effect on pay and allces).

Hav Kuldip Singh Bhullar (14451434M now JC-223711W), 01 Aug 91.

Hav Ranjit Singh (1249903F now JC-223712Y), 01 Aug 91.

Hav Harnam Singh (1256375L now JC-223713F), 08 Aug 91.

| To be Nb Sub |
|---|
| Hav Chuni Lal (1252345W now JC-223714K), 01 Aug 91. |
| BHM Radha Mohan Ram (1250210W now JC-223715M), 01 Aug 91. |
| BHM Chirangi Lal 1257363H now JC-223716P), 01 Aug 91. |
| Hav Om Prakash (14323120A now JC-223717X), 01 Aug 91. |
| Hav N Bhaskaran (14323169W now JC-223718A), 23 Sep 91.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Sep 91 without effect on pay and allowances). |
| BHM Pancham Chand (6902805X now JC-223719N), 24 Jul 91.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Jun 91 without effect on pay and allowances). |
| Hav Jai Singh Dhandu (1269787L now JC-223720X), 15 Sep 91.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Sep 91 without effect on pay and allowances). |
| Hav Gurmit Singh (14326535A now JC-223721A), 01 Apr 91. |
| Hav Shri Ram Yadav, (1297962L now JC-223722H), 20 Oct 91.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Oct 91 without effect on pay and allowances). |
| Hav Lal Singh (14328478H now JC-223723L), 01 Apr 91. |
| Hav Ram Narain (14323754W now JC-223724N), 01 Sep 91. |
| Hav Rampal (1261247X now JC-223725W), 01 Sep 91. |
| Hav Bajrang Singh (1249240F now JC-223726Y), 01 Sep 91. |
| BHM Sukhwant Singh (14312287K now JC-223727F), 13 Sep 91.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Sep 91 without effect on pay and allowances). |
| RHM Krishnan Kutty A (1267914W now JC-223728K), 01 Sep 91. |
| Hav Jit Ram (14452939P now JC-223729M), 01 Sep 91. |
| Hav Babu Lal KP (14330744P now JC-223730F), 01 Sep 91. |
| Hav Rohitash Sharma (1292656M now JC-223731K), 01 Sep 91. |
| Hav Ramesh Kumar Sharma (14317233M now JC-223732M), 07 Nov 91.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Nov 91 without effect on pay and allowances). |
| RHM Sardara Singh (1254548Y now JC-223733P), 09 Nov 91.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Nov 91 without effect on pay and allowances). |
| Hav Durga Bahadur Thapa (1266714N now JC-223734X), 01 Jan 92. |
| Hav Digvijainath Tripathi (14312620X now JC-223735A), 01 Nov 91. |
| Hav Malikhan Singh (14306908F now JC-223736N), 02 Jan 92.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Jan 92 without effect on pay and allowances). |
| Hav Jit Bahadur Pun (5445097L now JC-223863X), 13 Mar 1991. |
| Hav Bhanwar Singh Dhaka (14329162H now JC-223864A), 03 May 1991.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 31 Mar 1991 without effect on pay and allowances). |
| Hav Mate Ram (1264530W now JC-223865H), 25 Mar 1991. |
| Hav Jibin Krishna DE (13854268M now JC-223866L), 01 Mar 1991. |
| Hav Khubli Ram Sharma (14454418A now JC-223867N) 01 Mar 1991. |
| BQMH Ram Kishun (14319548P now JC-223868W), 01 May 1991. |
| Hav Balvinder Singh (1265236H now JC-223869Y), 13 Jun 1991.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 12 May 1991 without effect on pay and allowances). |
| Hav Satish Chander (14337516P now JC-223870N), 01 Apr 1991. |
| Hav Ratan Singh (1266127H now JC-223871W), 01 Apr 1991. |
| Hav Rao Saheb (14322703W now JC-223872Y), 01 Apr 1991. |
| Hav Muthu Samy B (14322731H now JC-223873F), 12 Aug 1991.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances). |
| RHM Narbahadur Pun (5039800K now JC-223874K), 01 Apr 1991. |
| Hav Gabru Lal (14317256N now JC-223875M), 01 May 1991. |
| Hav Ram Awadh (14324909M now JC-223876P), 06 Jun 1991.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 May 1991 without effect on pay and allowances). |
| RHM Jang Bahadur Singh (1291289Y now JC-223877X), 01 Jun 1991. |
| Hav Satyavir (14331855Y now JC-223878A), 02 Jul 1991. |
| Hav Shadi Ram (1265501N now JC-223879H), 30 Mar 1991. |
| Hav Mohan Singh (1293679A now JC-223880X), 01 May 1991. |
| BHM Kadam Gopinath Babu Rao (14310370H now JC-223881A), 05 May 1991.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Mar 1991 without effect on pay and allowances). |
| Hav Babu Lal Yadava (14319402F now JC-223882H), 15 Mar 1991. |
| Hav Khalil Ram (14300631X now JC-223883L), 15 Apr 1991.* |
| *(Granted seniority w.e.f. 01 Mar 1991 without effect on pay and allowances). |
| BHM Shakti Singh Pathania (14317559H now JC-223884N), 23 Feb 1991. |
| BHM Hari Singh (14306936N now JC-223885W), 01 Apr 1991. |

- Hav Ramesh Chander Naskar (11063971N now JC-223886Y), 01 Apr 1991.
- Hav Kalka Singh (11089951X now JC-223887F), 01 Apr 1991.
- Hav T'lok Raj Powral Chhetri (11243981A now JC-223888K), 01 Apr 1991.
- BHM Uthaman K (14311542Y now JC-223889M), 01 Apr 1991.
- Hav Ram Bahadur Chetri (11243959P now JC-223890F), 01 Apr 1991.
- Hav Ramesh (14342957P now JC-223891K), 16 Apr 1991.*
- *(Granted seniority w.e.f. 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).
- BHM Mulayam Singh (14309269W now JC-223892M), 26 May 1991.*
- *(Granted seniority w.e.f. 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).
- BHM B'swanath Gour (11229111X now JC-223893P), 01 Jun 1991.
- Hav Dhan Kumar Thapa (5444704M now JC-223894X), 04 Jun 1991.
- RHM Lakshmana Ranjan (14303941N now JC-223895A), 12 May 1991.*
- *(Granted seniority w.e.f. 01 May 1991 without effect on pay and allowances).
- BHM Ram Ratan Tripathi (14320474X now JC-223896H), 01 Jun 1991.
- BHM Lal Singh (4053434A now JC-223897L), 01 Jul 1991.
- BHM Toran Bahadur Thapa (14811935P now JC-223898N), 01 Jul 1991.
- Hav Ram Niwas (14332341M now JC-223899W), 28 Jun 1991.
- Hav Dharmidhar Upadhyaya (14306746F now JC-223900A), 10 Jul 1991.
- BHM Baljit Singh (1247306N now JC-223901H), 01 Jul 1991.
- Hav Ajit Kumar (1297586H now JC-223902L), 01 Jun 1991.
- Hav Karnail Singh (14302603K now JC-223903N), 03 Aug 1991.*
- *(Granted seniority w.e.f. 01 Aug 1991 without effect on pay and allowances).
- Hav Swinder Singh (14305012N now JC-223904W), 01 Aug 1991.
- BHM Sukhbir Singh (14307991W now JC-223905Y), 01 Aug 1991.
- Hav Darshan Singh (14312056N now JC-223906F), 01 Aug 1991.
- BHM Hari Singh Yadav (1292308L now JC-223907K), 01 Aug 1991.
- BHM Raj Bahadur Rai (14312115P now JC-223908M), 10 Sep 1991.
- Hav Azad Singh (3971175L now JC-223909P), 16 Oct 1991.*
- *(Granted seniority w.e.f. 24 Sep 1991 without effect on pay and allowances).
- BHM Ravindrany (14311695H now JC-223910K), 01 Sep 1991.
- BHM Malayalan Arumugham (14304623W now JC-223911M), 01 Sep 1991.
- BHM Khadka Bahadur Thapa (5745824W now JC-223912P), 17 Sep 1991.
- Hav Daya Chand (14317521Y now JC-223913X), 01 Sep 1991.
- RHM Dharmvir (14316706N now JC-223914A), 01 Sep 1991.
- BHM Ram Chander Dahiya (14302860F now JC-223915H), 04 Sep 1991.
- BHM Ram Chandar Khoja (14302964H now JC-223916L), 01 Oct 1991.
- Hav Bias Dev (1297527W now JC-223917N), 01 Sep 1991.
- Hav Gopal Singh (4053335X now JC-223918W), 01 Sep 1991.
- Hav Yeswant Singh (14317938Y now JC-223919Y), 01 Sep 1991.
- BHM Ved Parkash (11160921M now JC-223920N), 19 Sep 1991.
- Hav Sisir Kumar Gurung (5444665Y now JC-223921W), 15 Dec 1991.*
- *(Granted seniority w.e.f. 01 Oct 1991 without effect on pay and allowances).
- Hav Adi Ram (14309272W now JC-223922Y), 01 Oct 1991.
- BHM Balbir Singh (14303210A now JC-223923F), 01 Oct 1991.
- Hav Dalip Singh Yadav (1247462X now JC-223924K), 01 Oct 1991.
- Hav Balwinder Singh (1266418H now JC-223925M), 01 Oct 1991.
- Hav Bharat Lal Yadav (14311760X now JC-223926P), 01 Oct 1991.
- BHM Ram Mehar Singh (1299050L now JC-223927X), 01 Nov 1991.
- BHM Hukam Singh Yadava (1299039M now JC-223928A), 01 Nov 1991.
- BHM Kunampalli Radhakrishnan (14307446M now JC-223929H), 06 Nov 1991.*
- *(Granted seniority w.e.f. 01 Nov 1991 without effect on pay and allowances).
- Hav Achhaibar Singh Yadav (14308709M now JC-223930X), 01 Nov 1991.
- Hav Kanwar Singh (13856248X now JC-223931A), 30 Dec 1991.
- Hav Ramesh Chander (1250584M now JC-223932H), 01 Dec 1991.
- BHM Sukhbir (14321515H now JC-223933L), 01 Jan 1992.
- To be Nb Sub (Clk GD/SKsT)
- Hav (Clk) Bresh Babu (No. 1269327K now JC-255008W), 01st Jul 1992.
- Hav(SKT) Amar Singh (No. 11160929Y now JC-255009Y), 01st Jul 1992.
- Hav(SKT) Keshab Ram (No. 14310797M now JC-255010N), 01st Jul 1992.
- Hav (Clk) Subash Chander Singh Rana (No. 14326563M now JC-255011W), 01st Jul 1992.
- Hav (Clk) Mahabir Singh Rathore (No. 14326612K now JC-255012Y), 01st Jul 1992.

Hav (Clk) Surinder Singh (No. 14326620H now JC-255013F), 01st Jul 1992.

Hav (Clk) Baljit Singh Balhara (No. 14326642F now JC-255014K), 01st Jul 1992.

Hav (Clk) Ganesan J (No. 14326650A now JC-255015M), 01st Jul 1992.

Hav (Clk) Jai Pal Singh (No. 14326680X now JC-255016P), 01st Jul 1992.

Hav (Clk) Kewal Krishan (No. 14326693P now JC-255017X), 01st Jul 1992.

Hav (SKT) Kishori Lal (No. 3971082W now JC-255018A), 01st Aug 1992.

Hav (SKT) Baldev Singh (No. 14307007F now JC-255019H), 01st Aug 1992.

Hav (SKT) Suraparaju Udaya Bhasakara Rao (No. 14311499H now JC-255020X), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Mukul Kumar Ghosh (No. 13854244H now JC-255021A), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Ramesh Chand Katoch (No. 14326719Y now JC-255022H), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Ajit Singh Bhuria (No. 14326801N now JC-255023L), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Rattan Singh (No. 14326802W now JC-255024N), 14th Aug 1992.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 1992 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Ramesh Chand (No. 14326803Y now JC-255025W), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Tarlok Singh (No. 14326829M now JC-255026Y), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Kuriakkose VV (No. 14326833W now JC-255027F), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Xavier PS (No. 14326835F now JC-255028K), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) George KP (No. 14326837M now JC-255029M), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Onkar Singh (No. 14326887X now JC-255030F), 01st Aug 1992.

Hav (Clk) Nirmal Singh (No. 14326892H now JC-255031K), 01st Aug 1992.

The Parachute Regiment

To be Nb Sub

Hav Lal Singh (No. 13608067L now JC-220085M), 31st Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Bala Saheb Mahadik (No. 13610842W now JC-220086P), 1st Dec 1990.

Hav Bhau Saheb Bajirao Pital (No. 13610454Y now JC-220087X), 1st Dec 1990.

Hav Sahebrao Shinde (No. 13610371N now JC-220088A), 27th May 1991.*

***(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Bahadur Singh Rawat (No. 13610834K now JC-220089H), 24th Jul 1991.***

***(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Vilas Namdeo Sadakale (No. 13610847P now JC-220090X), 18th Dec 1990.

Hav Ram Pal (No. 13609915H now JC-220091A), 10th Mar 1991.

Hav Durd Singh (No. 13608026F now JC-220092H), 1st Apr 1991.

Hav Gopal Singh (No. 13608934K now JC-220093L), 20th Jun 1991.****

*****(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).

CHM Gulzar Singh (No. 13610906W now JC-220094N), 14th Apr 1991.*****

******(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Balwinder Singh (No. 13610686X now JC-220095W), 1st Apr 1991.

Hav Ramesh Chand Yadav, SM (No. 13610858F now JC-220096Y), 1st Apr 1991.

Hav Karan Singh (No. 13608061K now JC-220097F), 14th Apr 1991

Hav Kirpal Singh (No. 13608966M now JC-220098K), 1st May 1991.

Hav Raghubar Dayal (No. 13609567P now JC-220099M), 1st May 1991.

Hav Tailok Singh (No. 13609903W now JC-220100W), 5th Jun 1991.*****

******(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 08 May 1991 without effect on pay and allowances).

CHM Sukhdev Singh (No. 13611174X now JC-220101Y), 22nd May 1991.*****

******(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 08 May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Singh (No. 13608129A now JC-220102F), 9th May 1991.

Hav Partap Singh (No. 13610352H now JC-220103K), 9th May 1991.

Hav Indraj Singh (No. 13611607K now JC-220104M), 1st Jun 1991.

Hav Labade Ankush (No. 13610102F now JC-220105P), 17th Jun 1991.

Hav Kharak Singh Rawat (No. 13608736Y now JC-220106X), 26th Jun 1991.

Hav Someswar Daimari (No. 13612305K now JC-220107A), 1st Jul 1991.

CHM Gam Bahadur Gurung (No. 13607384A now JC-220108H), 2nd Jul 1991.

Hav Devi Chand, VSM (No. 13613065K now JC-220109L), 20th Jul 1991.

CHM Rachhpal Singh (No. 3968571W now JC-220110A), 1st Aug 1991.

Hav Rankhamb Vithal Maruti (No. 13610103K now JC-220111H), 19th Aug 1991.

Hav Devindar Singh (No. 13609425X now JC-220112L), 1st Sep 1991.

Hav Rohtash Singh (No. 13609910M now JC-220113N), 10th Sep 1991.*****

******(Granted seniority in the rank of Nb Sub 05 Sep 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kartar Singh (No. 13609977L now JC-220114W), 20th Sep 1991.

CHM Prem Singh (No. 3968306A now JC-220115Y), 21st Sep 1991.

Hav Jai Baksh Singh No. 13609984F now JC-220116F), 26th Sep 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav(Clk) Lallu Lal (No. 13607548L now JC-220117K), 1st Jun 1991.

Hav (Clk) Muthu Samy Thangavel (No. 13607601K now JC-220118M), 1st Jul 1991.

Hav (Clk) Kulwant Singh (No. 13607696W now JC-220119P), 1st Jul 1991.

Hav (Clk) Man Singh (No. 13607683Y now JC-220120K), 1st Jul 1991.

Hav (Clk) Hazari Lal (No. 13607729W now JC-220121M), 1st Aug 1991.

Hav (Clk) Suiendra Singh Negi (No. 13607853X now JC-220122P), 1st Aug 1991.

Hav (Clk) Brij Raj Singh (No. 13608354P now JC-220123X), 1st Sep 1991.

Hav(Clk) Sansar Chand (No. 13608558F now JC-220124A), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Bihari Lal Dhiman (No. 13609181P now JC-220125H), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Subhash Chander (No. 13609207Y now JC-220126L), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Awadesh Bahadur Singh (No. 13609214P now JC-220127N), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Damodaran Keeragattil (No. 13609215X now JC-220128W), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Bhupinder Singh Thandi (No. 13607605F now JC-220129Y), 8th Sep 1991.

The Grenadiers

To be Nb Sub

Hav Madho Singh (No. 2665617N now JC-220130N), 18 May 1991.

Hav Nand Singh (No. 2664900P now JC-220131W), 01 Jul 1991.

Hav Arash Kumar Sharma (No. 2665412Y now JC-220132Y), 04 Jul 1991.

Hav Pritam Chand (No. 2660776F now JC-220133F), 12 Jul 1991.

Hav Asha Ram (No. 2661448A now JC-220134K), 12 Jul 1991.

Hav Sharwan Ram (No. 2664878P now JC-220135M), 01 Nov 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Hazara Singh (No. 2663043N now JC-220136P), 06 Aug 1991.

Hav/Clk Ajit Singh (No. 2663047K now JC-220137X), 19 Aug 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) w.e.f. 09 Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Kirpal Singh Gulia (No. 2663919F now JC-220138A), 01 Sep 1991.

Hav/Clk Shekh Rahim (No. 2664704P now JC-220139H), 01 Oct 1991.

Hav/Clk Fateh Singh Bhati (No. 2664764K now JC-220140X), 01 Nov 1991.

To be Nb Sub

Hav Harbans Lal (No. 2665124M now JC-220141A), 01 Jul 1991.

Hav Manir Khan (No. 2664357F now JC-220142H), 10 Jul 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Pritam Chand (No. 2668115W now JC-220143L), 01 Oct 1991.

Hav Harbans Lal (No. 2659069L now JC-220144N), 01 Nov 1991.

Hav Ganpat Singh (No. 2665453H now JC-220145W), 11 Nov 1991.

Hav Suraj Mal (No. 2659924P now JC-220146Y), 22 Nov 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Kikar Singh (No. 2663031Y now JC-220147F), 01 Aug 1991.

Hav/Clk Babu Ram (No. 2662528K now JC-220148K), 01 Sep 1991.

Hav/Clk Baboo Ram Thakur (No. 2664733K now JC-220149M), 01 Nov 1991.

The Maratha LI

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Jadhav Babu Dadabhau (No. 14520865M now JC-220150F), 1st Sep 1991.

Hav Clk Mahadik Suresh Jotiram (No. 2768039K now JC-220151K), 7th Oct 1991.*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) MD Yousuf (No. 2768103W now JC-220152M), 15th Nov 1991

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Ghodake Pandurang Ganapati (No. 2768137K now JC-220153P), 1st Nov 1991.

Hav Clk Debeswar Kolita (No. 14520282K now JC-220154X), 1st Nov 1991.

Hav Clk Panna Samudra Gangappa Jayanna (No. 2765599L now JC-220155A), 1st Nov 1991.

Hav Clk Vithal Abhimanyu Patil (No. 2768456W now JC-220156H), 1st Nov 1991.

Hav Clk Thorwat Pralhad Vithalrao (No. 2768623F now JC-220157I), 1st Nov 1991.

Hav Clk Tambe Haridas (No. 2769068L now JC-220158N), 1st Nov 1991.

To be Nb Sub

Hav Patil Eknath Gopal (No. 2770688N now JC-220159W), 26th Jan 1991.

Hav Dasrath Babu Chauhan (No. 2771056P now JC-220160L), 17th May 1991.*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Vilas Chandrakant Tavandikar (No. 2770363A now JC-220161N), 28th Oct 1991.*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kumbhar Ashok Shankar (No. 2768911N now JC-220162W), 2nd Nov 1991.*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bbau Tibile, SM (No. 2772112P now JC-220163Y), 1st Nov 1991.

The Raj Rif

To be Nb Sub

Hav Govind Singh (No. 2867862Y now JC-220164F), 29th Aug 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 21st June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Yoginder Singh (No. 2868275A now JC-220165K), 10th July 1991.

Hav Mal Singh (No. 2867863F now JC-220166M), 5th Aug 1991.

Hav Partap Singh Gahlan (No. 2869627Y now JC-220167P), 1st Sep 1991.

Hav Jagmal Singh Shekhawat (No. 2866274Y now JC-220168X), 18th Sep 1991.

Hav Raghunath Singh (No. 2867932M now JC-220169A), 1st Oct 1991.

The Rajput Regiment

To be Nb Sub

Hav Inderjit (No. 2971371P now JC-220170P), 23rd Feb 1991.

Hav Sukhchain Prasad Mishra (No. 2968320W now JC-220171X), 1st June 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Mool Chand (No. 2973594L now JC-220172A), 1st June 1991.

Hav Rajendra Prasad (No. 2972435F now JC-220173H), 1st July 1991.

Hav Md. Mojammel Haque (No. 2972081K now JC-220174L), 1st Nov 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Dava Shanker Singh (No. 2966872L now JC-220175N), 1st Oct 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk w.e.f. 01 June 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Parkash Chand Rana (No. 2971681A now JC-220176W), 1st Aug 1991.

Hav Clk Ram Phal Sangwan (No. 2971714A now JC-220177Y), 20th Oct 1991.

Hav Clk Nagendra Kumar (No. 2971748N now JC-220178F), 1st Nov 1991.

To be Nb Sub

Hav Rai Kanta Barman (No. 2971205F now JC-220179K), 5th Jan 1991.

Hav Dharm Chandra Singh (No. 2965346A now JC-220180Y), 19th Aug 1991.*

*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 July 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Bir Pal Singh (No. 2970540Y now JC-220181F), 17th Nov 1991.*

*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 21 Sep 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Ram Khilari (No. 2968201A now JC-220182K), 1st Nov 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Brijkishore Sharma (No. 2971696H now JC-220183M), 1st Oct 1991.

The Jat Regiment

To be Nb Sub

Hav Mahabir Prasad Phogat (No. 13858615X now JC-220184P), 1st Oct 1991.

Hav Krishan Singh (No. 3162297M now JC-220185X), 16th Oct 1991.

Hav Rup Singh (No. 3167170N now JC-220186A), 3rd Nov 1991.

Hav Puran Ram (No. 3166614A now JC-220187H), 7th Nov 1991.

Hav Jai Pal (No. 3164856K now JC-220188L), 1st Sep 1991.

Hav Dalip Singh (No. 3164198H now JC-220189N), 28th Oct 1991.

Hav Maha Singh (No. 3164762M now JC-220190H), 25th Nov 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 22nd Nov 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Hardina Ram Jat (No. 3166258L now JC-220191L), 1st Oct 1991.

Hav (Clk) Ram Kishan (No. 3166260H now JC-220192N), 1st Nov 1991.

The Sikhs Regiment

To be Nb Sub

Hav Ajit Singh (3371355W now JC-220193W), 8th May 1991.

Hav Gurmit Singh (3372458F now JC-220294Y), 1st July 1991.

Hav Sewa Singh (3373324P now JC-220195F), 6th Oct 1991.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 91 without effect on pay and allowances).

Hav Major Singh (3371986Y now JC-220196K), 1st Oct 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Jarnail Singh (14520809N now JC-220197M), 1st Dec 1991.

To be Nb Sub

Hav Samrat Singh (3372588K now JC-220198P), 1st Oct 1990.

Hav Jora Singh (3374917N now JC-220199X), 31st Dec 1990.

Hav Baz Singh (3368070Y now JC-220200F), 1st Jan 1991.

Hav Nirmal Singh (3368784M now JC-220201K), 1st Jan 1991.

Hav Bokhsis Singh (3375123P now JC-220202M), 1st Jan 1991.

Hav Jasbir Singh (3374690L now JC-220203P), 1st Apr 1991.

Hav Jaswant Singh (3375663N now JC-220204X), 1st Apr 1991.

Hav Som Singh (3371989M now JC-220205A), 1st Apr 1991.

Hav Narain Singh (3370484K now JC-220206H), 28th Apr 1991.

Hav Dhana Singh (3371202M now JC-220207L), 30th June 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Major Singh (3372541Y now JC-220208N), 1st Aug 1991.

Hav Malkit Singh (3371907Y now JC-220209W), 18th Aug 1991.

Hav Clk Sankha Prasad Singh (2868972A now JC-220210L), 1st Dec 1991.

The Dogra Regiment

To be Nb Sub

Hav Joginder Singh (3966965W now JC-220211N), 9th Aug 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Nath (3968936A now JC-220212W), 1st Aug 1991.

Hav Prem Singh Verma (3968872A now JC-220213Y), 2nd Nov 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Gian Singh (3971080L now JC-220214F), 1st Dec 1991.

Hav Clk Girdhari Lal Sharma (3971284X now JC-220215K), 1st Dec 1991.

The Garhwal Rifles

To be Nb Sub

Hav Swarup Singh (No. 405981K now JC-220216M), 1st June 1991.

Hav Shri Chand Singh (No. 4051432W now JC-220217P), 1st June 1991.

Hav Trilok Singh (No. 4056823L now JC-220218X), 1st Oct 1991.

Hav Gaur Singh (No. 4054339A now JC-220219A), 1st Oct 1991.

Hav Purshotam (No. 4054125K now JC-220220P), 1st Oct 1991.

Hav Kalam Singh Topal (No. 4052047Y now JC-220221X), 9th Nov 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Mahitab Singh (No. 4055438P now JC-220222A), 9th Oct 1991.

Hav Judish Prasad (No. 4056275Y now JC-220223H), 1st Nov 1991.

Hav Dhyani Singh Rawat (No. 4049944K now JC-220224L), 1st Nov 1991.

Hav Khushal Singh (No. 4055175F now JC-220225N), 1st Nov 1991.

Hav Prem Singh (No. 6462458L now JC-220226W), 14th Nov 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Sunder Singh (No. 4057718F now JC-220227Y), 22nd Nov 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Rajendra Singh (No. 4054651H now JC-220228F), 1st Oct 1991.

Hav (Clk) Narain Singh (No. 4054859L now JC-220229K), 1st Nov 1991.

Hav (Clk) Uma Nand Juyal (No. 4055010H now JC-220230Y), 1st Dec 1991.

The Kumaon Regiment

To be Nb Sub

Hav Pushkar Singh (No. 4162571P now JC-220231P), 7th Aug 1991.

Hav Ram Dutt (No. 13607777W now JC-220232K), 25th Sep 1991.

Hav Umed Singh (No. 13608523L now JC-220233M), 01 Oct 91.

Hav Udai Singh (No. 4164326L now JC-220234P), 19th Nov 1991.*

*(Granted ante date seniority wef 18 Sep 1991 without effect on pay and allowances).

The Naga Regiment

To be Nb Sub

Hav Mohan Chand (No. 4162772N now JC-220235X), 1st Nov 1991.

The Bihar Regiment

To be Naib Subedar

Hav Shiv Paras Singh (No. 4252739X now JC-220236A), 1st January 1991.

CHM Kameshwar Paswan (No. 4248900K now JC-220237H), 1st July 1991.

Hav Suk Deo Ram (No. 4249094P now JC-220238L), 26th July 1991.

Hav Krishna Nand Singh (No. 4250392X now JC-220239N), 30th August 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21 Aug 91 without effect on pay and allowances).

Hav Madhu Pradhan Bari (No. 4253686W now JC-220240H), 17th October 1991.

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav (Clk) Jay Nandan Ray (No. 4252085Y now JC-220241L), 1st November 1991.

Hav (Clk) Vijai Bahadur Singh (No. 2970233F now JC-220242N), 1st November 1991.

CHM Shambhu Nath Singh (No. 4249315W now JC-220243W), 1st June 1991.

Hav Laurence Tirkey (No. 4255219X now JC-220244Y), 1st June 1991.

CHM Lakshman Sah (No. 4249935M now JC-220245F), 20th September 1991.

Hav Avdesh Thakur (No. 4249912L now JC-220246K), 1st October 1991.

CHM Benudhar Naik (No. 4253724F now JC-220247M), 1st October 1991.

Hav Dharni Dhar Pradhan (No. 4254112W now JC-220248P), 1st October 1991.

Hav Ram Autar Mahto (No. 4254633K now JC-220249X), 1st October 1991.

Hav Abani Kanta Sahoo (No. 4255900M now JC-220250M), 1st October 1991.

Hav Saheb Majhi (No. 4252989Y now JC-220251P), 1st October 1991.

Hav Umesh Prashad Sharma (No. 4250510A now JC-220252X), 1st November 1991.

The Mahar Regiment

To be Nb Sub Clk

Hav Clk (GD) Changdeo Tayade (No. 4541388M now JC-220253A), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Sansar Chand Verma (No. 9213207W now JC-220254H), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Jagmal Singh Suhag (No. 9213355F now JC-220255L), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Mahipal Singh (No. 9213570M now JC-220256N), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Man Singh (No. 9213752A now JC-220257W), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Parewanath Baidya (No. 9213830M now JC-220258Y), 01 Nov 1991.

Hav Clk (GD) Atma Singh (No. 9214673X now JC-220259F), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Nawin Kumar Mishra (No. 9214702F now JC-220260W), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Suresh Deorao Jadhao (No. 4542993M now JC-220261Y), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Nirmal Singh (No. 9214757L now JC-220262F), 01 Nov 91.

Hav Clk (GD) Subhash Chand Dadwal (No. 9214766M now JC-220263K), 01 Nov 91.

To be Nb Sub

Hav Umed Singh (No. 4545977A now JC-220264M), 11 Aug 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jun 91 without effect on pay and allowances).

Hav Chain Singh (No. 4545295P now JC-220265P), 01 Oct 91.

CHM Xavler Minj (No. 9214986W now JC-220266X), 12 Oct 91.

CHM Bhagwan Dass (No. 4543360L now JC-220267A), 01 Nov 91.

Hav Nawal Kishor Pandey (No. 4543450M now JC-220268H), 01 Nov 91.

Hav Dan Singh (No. 9213173N now JC-220269L), 01 Nov 91.

Hav Ram Singh Yadav (No. 9213210W now JC-220270A), 01 Nov 91.

Hav Hukam Chand (No. 9213223N now JC-220271H), 01 Nov 91.

Hav Surendra Das (No. 4546974Y now JC-220272L), 01 Nov 91.

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk (GD) Thomas Yohannan P (No. 9214782K now JC-220273N), 01 Dec 91.

Hav Clk (GD) Mangilal Ramawat (No. 9214851W now JC-220274W), 01 Dec 91.

JAK RIF

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Clk Daljit Singh (13735315P now JC-220275Y), 1st Sep 1991.

Hav Clk Chainchal Singh (13735345M now JC-220276P), 1st Nov 1991.

Hav Clk Hoshlar Singh (13735423Y now JC-220277K), 1st Nov 1991.

To be Naib Subedar (GD)

Hav Chanda Singh (13733545K now JC-220278M), 1st Jun 1991.

Hav Ishwar Dass (13733653M now JC-220279P), 1st Aug 1991.

Hav Tara Chand (13736155M now JC-220280K), 1st Aug 1991.

Hav Gurcharan Singh (13736387L now JC-220281M), 24th Aug 1991.

Hav Gurdhari Lal (13735599K now JC-220282P), 1st Sep 1991.

Hav Kulwant Singh (13732959K now JC-220283X), 16th Sep 1991.

Hav Jagpal Singh (13735099M now JC-220284A), 17th Sep 1991.

Hav Om Parkash (13732445M now JC-220285H), 20th Sep 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Jagdish Chand (13735280K now JC-220286L), 22nd Sep 1991.

Hav Narotam Singh Sambyal (13735843Y now JC-220287N), 1st Oct 1991.

Hav Puran Chand (13732200W now JC-220288W), 1st Oct 1991.

Hav Shanker Dev (13734716X now JC-220289Y), 4th Oct 1991.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Baldev Raj (13732282K now JC-220290N), 2nd Nov 1991. @

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1991 without effect on pay & allowances).

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Clk Jagdish Kumar (5039822H now JC-220291W), 1st Sep 1991.

To be Naib Subedar (GD)

Hav Kuldip Singh (13735835A now JC-220292Y), 1st Jun 1991.

Hav Tarsem Singh (3371753X now JC-220293F), 19th Jul 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jun 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Sulakhan Singh (13736181N now JC-220294K), 1st Jul 1991.

Hav Rattan Chand (13734024H now JC-220295M), 1st Jul 1991.

Hav Tarsem Kumar (13734214P now JC-220296P), 1st Jul 1991.

Hav Jaswant Singh (13733471A now JC-220297X), 6th Nov 1991.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Onkar Singh (13736700L now JC-220298A), 1st Sep 1991.

Hav Avtar Singh (3371433H now JC-220299H), 26th Sep 1991.

Hav Madan Lal (13731868N now JC-220300M), 26th Sep 1991.

Hav Swaroop Lal (13732964P now JC-220301P), 26th Sep 1991.

Hav Banshi Lal (13734422K now JC-220302X), 1st Oct 1991.

Hav Ram Swarup (13732313Y now JC-220303A), 1st Oct 1991.

Hav Daulat Ram (13732514X now JC-220304H), 1st Oct 1991.

Hav Tilak Raj (13735236A now JC-220305L), 1st Nov 1991.

11 GR

To be Nb Sub

Hav Rajendar Prasad Rai (9412052K now JC-220306N), 1st Aug 91.

Hav (Clk) Prem Lal (9413242H now JC-220307W), 18th Oct 91.

Hav Prakash Tamang (9412447L now JC-220308Y), 1st Nov 91.

Hav Sahabir Tamang (9412469K now JC-220309F), 1st Nov 91.

Hav Junbir Rai (9412476A now JC-220310W), 1st Nov 91.

Hav Ash Bahadur Rai (9412468K now JC-220311Y), 1st Nov 91.

Hav Bhakta Bahadur Chhetri (9413642P now JC-220312F), 1st Nov 91.

Hav Ram Bahadur Gurung (9413889W now JC-220313K), 1st Nov 91.

Hav Amardhoj Rai (9413057P now JC-220314M), 1st Dec 91.

Hav Sange Sherpa (9412779P now JC-220315P), 1st Dec 91.

Hav Jagdish Limbu (9413225H now JC-220316X), 1st Dec 91.

Hav Prahlad Chandra Ratten Karki (9413633N now JC-220317A), 1st Dec 91.

1 GR

To be Nb Sub (Musician)

Hav (Musician) Shyam Bahadur Thapa (No. 5038624L now JC-220318H), 5th Oct 1991.

4 GR

To be Nb Sub

Hav Beran Kumar Ghole (No. 5341677N now JC-220319L), 1st Oct 1991.

Hav Krishna Bahadur Rana (No. 5341723X now JC-220320A), 1st Oct 1991.

Hav Chitra Bahadur Hamal (No. 5341846K now JC-220321H), 1st Oct 1991.

Hav Mohan Singh Gurung (No. 5341808N now JC-220322L), 1st Oct 1991.

9 GR

To be Nb Sub

Hav Yuba Raj Acharya (5841083F now JC-220323N), 1st Oct 1991.

Hav Hem Bahadur Chhetri (5841086P now JC-220324W), 1st Oct 1991.

Hav Dambar Bahadur Chhetry (5841347X now JC-220325Y), 1st Nov 1991.

Hav Dhan Bahadur Khatri (5841490K now JC-220326F), 1st Nov 1991.

3 GR

To be Nb Sub

Hav Ratna Bahadur Khatri (5240951Y now JC-220327K), 11th Oct 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 91 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh Rana (5240329L now JC-220328M), 1st Oct 1991.

Hav Chham Bahadur Thapa (5240310M now JC-220329P), 1st Nov 1991.

Hav Dambar Bahadur Thapa (5240406P now JC-220330K), 1st Nov 1991.

Hav Chandra Prakash Gurung (5243382F now JC-220331M), 1st Nov 1991.

Hav Khum Bahadur (5240407X now JC-220332P), 1st Dec 1991.

Hav Siri Prasad Pun (5240418K now JC-220333X), 1st Dec 1991.

Hav Siri Prasad Thapa (5240419M now JC-220334A), 1st Dec 1991.

Hav Kharka Bahadur Pun (5240436M now JC-220335H), 1st Dec 1991.

Hav Sukh Dhoj Gurung (5240450Y now JC-220336L), 1st Dec 1991.

Hav Sant Bahadur Khandka (5242226L now JC-220337N), 1st Dec 1991.

Hav Tanka Bahadur Magar (5241490M now JC-220338W), 1st Dec 1991.

Hav Bharat Kumar Limbu (5240135H now JC-220339Y), 1st Dec 1991.

Hav Top Bahadur Gurung (5241523M now JC-220340N), 1st Dec 1991.

Hav Bhoj Bahadur Rai (5241554M now JC-220341W), 1st Dec 1991.

5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Reoman Pradhan (No. 5445676X now JC-220342Y), 1st Jan 1991.

Hav Dal Bahadur Rana (No. 5443735A now JC-220343F), 1st Oct 1991.

Hav Jag Raj Thapa (No. 5444639X now JC-220344K), 1st Oct 1991.

Hav Ravindra Jang Gurung (No. 5444738H now JC-220345M), 1st Oct 1991.

Hav Yam Bahadur Gurung (No. 5445076P now JC-220346P), 1st Oct 1991.

Hav Ramesh Chandra Gurung (No. 5445555W now JC-220347X), 1st Oct 1991.

Hav Manges Kumar Thapa (No. 5445938H now JC-220348A), 1st Oct 1991.

Hav Mukta Bahadur Gurung (No. 5446227P now JC-220349H), 1st Oct 1991.

Hav Surak Bahadur Gurung (No. 5447103M now JC-220350X), 1st Nov 1991.

Hav Dil Bahadur Ghale (No. 5444213W now JC-220351 A), 1st Nov 1991.

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Debl Ram Thapa Chhetri (No. 5745615Y now JC-220352H), 27th Jul 1991.

Hav Bijay Pratap Gurung (No. 5746478X now JC-220353 L), 1st Oct 1991.

Hav Khadka Bahadur Thapa (No. 5747246L now JC-220354N), 1st Nov 1991.

Hav Man Bahadur Gurung (No. 5746370A now JC-220355 W), 1st Nov 1991.

To be Nb Sub

Hav Min Bahadur Thapa (No. 5749304H now JC-220356 Y), 18th Mar 1991.

Hav Bal Bahadur Thapa (No. 5746450X now JC-220357 F), 18th Mar 1991.

Hav Kul Bahadur Rana (No. 5747263L now JC-220358 K), 18th Mar 1991.

Hav Dhan Raj Gurung (No. 5747536H now JC-220359 M), 18th Mar 1991.

Hav Tika Ram Thapa (No. 5748396N now JC-220360F), 18th Mar 1991.

Hav Tej Bahadur Thapa (No. 5749524M now JC-220361 K), 18th Mar 1991.

Hav Durga Bahadur Gamal Magar (No. 5750141M now JC-220362M), 18th Mar 1991.

Hav Tika Bahadur Rana (No. 5748642M now JC-220363 P), 18th Mar 1991.

Hav Naren Thapa (No. 5746871A now JC-220364X), 11th Sep 1991.*

*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17th Aug 1991 without effect on pay and allowances).

NARENDER SINGH, Desk Officer

No. 1145, dated 23rd November 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Corps of Military Police

To be Naib Subedar

Hav Madivalappa Shidagondappa Manugiri (No. 7768217 W now JC-818001M), 1st July 1992.

Hav Manohar Lal Sharma (No. 7768234W now JC-818002P), 13th July 1992. @

Hav Yogendra Singh (No. 7767939W now JC-828003X), 22nd July 1992. @

Hav Brij Pal Singh (No. 7768265W now JC-818004A), 1st July 1992.

Hav Jag Mohan Thakur (No. 7767178W now JC-818005 H), 1st Aug 1992.

Hav Jeet Ram Sharma (No. 7768358L now JC-818006L), 1st Aug 1992.

@(Granted seniority with effect from 1st July 1992 without effect on pay and allowances).

The Mahar Regiment

To be Sub Maj

Sub Chanan Singh Dhillon (JC-66255A), 01st Aug 87.

Sub Hukam Singh (JC-58132Y), 01st Oct 87.

Sub Pala Ram (JC-94848H), 01st Oct 87.

Sub Dhani Ram (JC-84298X), 01st Nov 87.

To be Sub

Nb Sub Sher Singh Yadav (JC-117658L), 01st Aug 87.

Nb Sub Shashikant Chavan (JC-117682F), 03rd Aug 87.

Nb Sub Ram Chandra Behra (JC-121932P), 16th Sep 87.

Nb Sub Parkash Chand (JC-122135W), 17th Sep 87.

Nb Sub Bishan Datt (JC-126499A), 01st Oct 87.

Nb Sub Ajit Singh (JC-129559P), 01st Oct 87.

Nb Sub Mehar Chand (JC-107805P), 02nd Oct 87.

Nb Sub Mahadeo Nagmote (JC-102001W), 17th Oct 87.

Nb Sub Salwinder Singh (JC-113976X), 17th Oct 87.

Nb Sub Jena Naik (JC-107266K), 01st Nov 87.

Nb Sub Roshan Lal (JC-107269X), 01st Nov 87.

Nb Sub Nashiket Bramhne (JC-109449Y), 01st Nov 87.

ARMOURED CORPS

To be Substantive Risaldar

Naib Risaldar Hari Singh (JC-152060Y), 01st Sep 1991.

Naib Risaldar Randhir Singh (JC-141621H), 01st Oct 1991.

Naib Risaldar Sheo Ram Jat (JC-156764A), 01st Nov 1991.

Naib Risaldar Ram Mehar (JC-151968H), 01st Dec 1991.

Naib Risaldar KA Mishra (JC-175783A), 01st Jan 1992.

Naib Risaldar Ranbir Singh (JC-152003X), 01st Jan 1992.

Naib Risaldar Harnam Singh (JC-162039K), 01st Jan 1992.

Naib Risaldar Inder Singh (JC-148217N), 01st Feb 1992.

Naib Risaldar Ram Rakhan Singh (JC-168693W), 01st Feb 1992.

Naib Risaldar Jaswant Singh (JC-181348F), 01st Feb 1992.

Naib Risaldar Virander Singh (JC-156767N), 01st Mar 1992.

Naib Risaldar G Thirupathaiah (JC-147217K), 01st Mar 1992.

Naib Risaldar Rampal Singh Nagar (JC-164432L), 01st Mar 1992.

Naib Risaldar Banwari Lal (JC-168649M), 01st Mar 1992.

Naib Risaldar Durjan Singh Rathore (JC-147262W), 01st Apr 1992.

Naib Risaldar Karnail Singh (JC-152033P), 01st Apr 1992.

Naib Risaldar Om Parkash Gill (JC-148268K), 01st Apr 1992.

Naib Risaldar Subharan (JC-166618N), 01st Apr 1992.

| | |
|---|--|
| Naib Risaldar Surinder Singh (JC-173764W), 01st Apr 1992. | Naib Risaldar/Clk (GD) Man Singh (JC-181326H), 01st Mar 1992. |
| Naib Risaldar Hari Chand (JC-170289A), 01st Apr 1992. | Naib Risaldar/Clk (GD) Guman Singh Inda (JC-181327L), 01st Mar 1992. |
| Naib Risaldar Duni Chand (JC-168685X), 01st Apr 1992. | Naib Risaldar/SKT Ajpal Singh (JC-152014K), 01st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Yash Pal Singh (JC-194120K), 01st Apr 1992. | Naib Risaldar Avtar Singh (JC-171268W), 01st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Gokal Singh (JC-157721K), 01st Apr 1992. | Naib Risaldar Rameshwar Singh Nara (JC-173768M), 01st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Faiyad (JC-162045X), 01st Apr 1992. | Naib Risaldar Jai Singh (JC-195334M), 01st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Attar Singh Yadav (JC-194123X), 01st Apr 1992. | Naib Risaldar Har Chand (JC-148195H), 01st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Bir Pal Singh (JC-181346W), 01st Apr 1992. | Naib Risaldar/Clk (GD) Brahamu Rao (JC-181328N), 01st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Ashok Kumar (JC-152749N), 01st May 1992. | Naib Risaldar/Clk (GD) Yugal Kishore Singh (JC-181330L), 1st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Y Thankappan (JC-151997X), 01st May 1992. | Naib Risaldar/Clk (GD) Gurdip Singh (JC-181331M), 01st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Kan Singh (JC-160828X), 01st May 1992. | Naib Risaldar Harnam Singh (JC-195310H), 01st Apr 1992. |
| Naib Risaldar Mahinder Singh (JC-166623Y), 01st May 1992. | Naib Risaldar Mohinder Singh (JC-154870A), 01st May 1992. |
| Naib Risaldar Karnail Singh (JC-140594X), 01st May 1992. | Naib Risaldar Om Prakash Ahalwat (JC-175822N), 01st May 1992. |
| Naib Risaldar Ranbir Singh Talan (JC-155779X), 01st May 1992. | Naib Risaldar/SKT Wahatule Laxman (JC-152015M), 01st Jun 1992. |
| Naib Risaldar Jai Dev Singh (JC-184047H), 01st May 1992. | Naib Risaldar Darshan Singh (JC-171267N), 01st Jun 1992. |
| Naib Risaldar Jagtar Singh (JC-175801X), 01st Jun 1992. | Naib Risaldar/Clk (GD) Bhagwan Singh (JC-181332W), 01st Jun 1992. |

SPECIAL LIST

(To be Risaldars Religious Teachers)

Naib Risaldar DN Sharma (Pandit) (JC-72016F), 01st Apr 1992.

Naib Risaldar Uma Datt Gaur (Pandit) (JC-83857A), 01st Apr 1992.

Naib Risaldar Chhaju Ram Sharma (Pandit) (JC-83838M), 01st Apr 1992.

ARMOURED CORPS

To be substantive Risaldar

Naib Risaldar Hayat Singh (JC-194118M), 01st June 1991

Naib Risaldar/Clk (GD), Gouri Shankar Chaubey (JC-175772M), 01st Jan 1992.

Naib Risaldar Clk (GD) Radhey Shyam Sharma (JC-175808F), 01st Jan 1992.

Naib Risaldar/Clk (GD) Behari Lal Sharma (JC-175809K), 01st Feb 1992.

Naib Risaldar/SKT Kalyan Singh (JC-152013F), 01st Feb 1992.

Naib Risaldar Vijay Bahadur Singh (JC-189649A), 01st Mar 1992.

Naib Risaldar Gauri Shankar Singh (JC-141635A), 01st Mar 1992.

Naib Risaldar/Clk (GD) Avtar Singh (JC-181313L), 01st Mar 1992.

Naib Risaldar/Clk (GD) Jarnail Singh (JC-181325A), 01st Mar 1992.

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major

Sub KP Radhakrishna Pillai (JC-127216A), 01st Aug 1992.

Sub Om Prakash (JC-127226K), 01st Aug 1992.

Sub Prem Bahadur Rana (JC-112580F), 01st Aug 1992.

Sub Darshan Singh Sidhu (JC-118680H), 01st Aug 1992.

Sub Lala Pawar (JC-117201K), 01st Aug 1992.

Sub Deo Bahadur Thapa (JC-117211N), 01st Aug 1992.

Sub Om Parkash (JC-108493W), 01st Aug 1992.

Sub Surmukh Singh (JC-120434W), 01st Aug 1992.

Sub Joginder Singh (JC-127241Y), 01st Aug 1992.

To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub C/c Parayil Devassy John (JC-168755L), 01st Aug 1992.

To be Substantive Subedar

Nb Sub Bonasu Seetharamanjaneyulu (JC-177494K), 20th May 1992.

Nb Sub Tarsem Singh (JC-151542F), 23rd Jun 1992.

Nb Sub Khiali Ram (JC-151549L), 01st Aug 1992.

Nb Sub Jagdish Chand (JC-157755L), 01st Aug 1992.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. 1146, dated 23rd November 1992.—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY

INFANTRY

119 Infantry Battalion (TA)

To be Sub

Nb Sub Moni Mohan Singh (TJ-3196), 20 Jul 1992.

Nb Sub Pijush Chandra Barman (TJ-3370), 20 Jul 1992.

RLY ENGR REGT

1031 Railway Engineer Regiment (TA)

(To be Nb Sub)

Hav Tara Chand (No. 12207808) Now TJ 3696, 01 Jan 1992.

Hav M G Mendiratta (No. 12216551) Now TJ-3697 01 Dec. 1991.

Hav Satnam Singh (No. 12209220) Now TJ-3698, 1st Dec 1989.

Hav Prabhu Dayal (No. 12207515) Now TJ-3699, 01st Jan 1992.

Hav Ram Singh (No. 12207941) Now TJ-3700, 01 Jan 1992.

Hav Vincent Lalwal (No. 12207891) Now TJ-3701, 01 Jan 1992.

Hav G Francis (No. 12229221) Now TJ-3702, 01 Dec 1992.

Hav R K Verma (No. 12207645) Now TJ-3703, 01 Jan 1992.

108 INFANTRY BATTALION (TA)

(To be Nb Sub)

Hav Rood Singh (No. 10389013) Now TJ-3688, 25 Jun 1992.

Hav Gulab Singh (No. 10389064) Now TJ-3689, 25 Jun 1992.

Hav Ramakant Sharma (No. 10388926) Now TJ-3690 25 Jun 1992.

109 INFANTRY BATTALION (TA)

(To be Nb Sub)

Hav Chougule Pandurang Bhairu (No. 10149600) Now TJ-3691, 22 Jun 1992.

Hav Dinkar Patil (No. 10149633) Now TJ-3692, 22 Jun 1992.

1034 Rly Engr Regt (TA)

(To be Nb Sub)

Hav K Satish Kumar (No. 12289767) Now TJ-3693 15 Dec 1990.

Hav T Umapathy (No. 12289920) Now TJ-3694, 01 Mar 1991.

1101 Rly Engr Regt (TA)

(To be Nb Sub)

Hav Anand Kishore (No. 12371178) now TJ-3695, 08 Aug 91.

No. 1147, dated 13th November 1992.—The President is pleased to make the following retirement :—

Shri T. R. Tagore, Principal Scientific Officer (PScO) (Non-Functional Selection Grade/NFSG), Headquarter Warship Project, New Delhi retired voluntarily from Government service with effect from 30th October, 1992 (A/N) 31st October, 1992 being closed holiday.

GHAN SHYAM SINGH,
Dy. Secy.

ARMED FORCES HEADQUARTERS

No. 1148, dated 16th November 1992.—Having been permitted by the competent authority under the provisions of Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri K B Sounderajan, CSO, retired voluntarily from the Government service with effect from 1 July 1992 and transferred to pension establishment w.e.f. the same date.

Shri D. P. Dudeja, PS, GS/AC Dte, Voluntarily retired from Govt. service with effect from 02-11-92 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 03-11-92.

P. N. MAULIK,
By Chief Administrative Officer (A)

ARMY BRANCH

No. 1149, dated 23rd November 1992.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service with effect from the dates notes against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers Class (X), except Cols retired in 1991 under SAI 10/S/63, as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-28359 Maj JS Luthra ARMD, 01-7-91 (AN).

IC-27174 Maj Abdul Hasib Khan EME, 31-8-91 (AN).

IC-24111 Lt Col PV Kumar EME, 30-9-91 (AN).

IC-24142 Lt Col (TS) YR Sastry EME, 10-12-91 (FN).

IC-17590 Maj RJ Tikekar EME, 12-12-91 (AN).

IC-23043 Maj D Banerji EME, 14-2-92 (AN).

IC-22921 Lt Col HS Sirohi EME, 26-2-92 (AN).

IC-16501 Col Dang Kuldip Singh EME, 26-2-92 (AN).

IC-24748 Lt Col (TS) RA Aroskar EME, 14-3-92 (AN).

IC-17303 Lt Col BW Fernandes Arty, 30-9-92 (AN).

IC-15567 Lt Col (TS) AS Dyal Arty, 10-10-92 (AN).

V-239 Lt Col JN Sopori RVC, 24-2-92 (AN).

V-277 Maj T Swamy RVC, 31-3-92 (AN).

IC-14352 Lt Col SL Jindal AEC, 15-4-92 (AN).

V-207 Lt Col MM Babu RVC, 20-4-92 (AN).

IC-25541 Lt Col BGV Kumar Inf, 1-6-92 (FN).

IC-28079 Lt Col (TS) Gulab Rao Dadoba Jadhav Arty, 28-4-92 (AN).

IC-25798 Col JV Abrahem Infy, 30-6-92 (AN).

IC-19258 Lt Col (TS) Pannu Baljinder Singh PNR, 10-7-92 (AN).

IC-29067 Lt Col (TS) Kirpal Singh Inf, 30-7-92 (AN).

IC-23669 Lt Col VV Nadguda Inf, 3-8-92 (AN).

DURGA PRASAD, CSO
Offg GSO-I/TA-3

- IC-25982 Maj Viswanathan Madhav Rajan Inf, 22-8-92 (AN).
- IC-34137 Maj BK Thapa Inf, 22-8-92 (AN).
- IC-16870 Lt Col Karminder Singh Kamboj Inf, 24-8-92 (AN).
- IC-24141 Lt Col KK Prasad Engrs, 27-8-92 (AN).
- IC-34422 Maj SS Grewal Inf, 29-8-92 (AN).
- IC-29255 Lt Col (TS) Bhup Singh Yadava Inf, 29-8-92 (AN).
- IC-21160 Lt Col (TS) Ramesh Chander Sharma Sigs, 31-8-92 (AN).
- IC-26818 Maj Ashok Kumar Inf, 31-8-92 (AN).
- IC-16951 Lt Col NC Gupta, SM Sigs, 31-8-92 (AN).
- IC-16416 Lt Col (TS) Vinod Bhushan Arya Sigs, 10-9-92 (AN).
- IC-16988 Col Dhodi Gur Iqbal Singh Arty, 15-9-92 (AN).
- IC-26864 Maj Balaswamy Engrs, 23-9-92 (AN).
- IC-23749 Lt Col Sharma KK Sigs, 23-9-92 (AN).
- IC-19840 Lt Col RS Dhillon Engrs, 24-9-92 (AN).
- IC-29806 Maj Sharma Sushil Kumar Arty, 25-9-92 (AN).
- IC-14000 Lt Col (TS) JC Sindhwan Arty, 26-9-92 (AN).
- IC-15065 Lt Col (TS) Shanker Singh Negi Engrs, 28-9-92 (AN).
- IC-22693 Lt Col Manmohan Sigs, 28-9-92 (AN).
- IC-25632 Maj Deepak Dutt Engrs, 30-9-92 (AN).

V K ANAND,
Col.
Col MS (R&R)

AIR BRANCH

No. 1150, dated 16th November 1992.—The undermentioned officers are to be released from service on completion of their tenure of Short Service Commission (i.e.) 6 years from the date of commencement of training under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/PO3/(A)/474/DOIA/D (Air-III) dated 27 Mar 85 and Air HQ/22142/2SSC/PO3(D)/128/US/D (Air-III) dated 19 Jan 89.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Flt Lt N Gajapathy (18227), Fg Offr AH Sayeed (18229), Flt Lt P Sarkar (18230), Flt Lt N Prasad (18232), Flt Lt M Balasubramanian (18235) and Flt Lt M Ramprasad (18237) w.e.f. 17 Feb 92.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Flt Lt Ajoy Murlidhar (18238), Flt Lt James Williams (18239) and Flt Lt AK Agarwal (18240) w.e.f. 17 Feb 92.

The undermentioned officers are to be released from service on completion of their tenure of Short Service Commission (i.e.) 6 years from the date of commencement of training under the provisions of Govt of India, Min of Def letters No. Air HQ/22258/PO3/(A)/474/DOIA/D (Air-III) dated 27 Mar 85 and Air HQ/22142/1SSCC/PO3(D)/2344/US/D (Air-III) dated 04 Nov 86 :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

INDIAN AIR FORCE

Deepak LN (18026), Fg Offr BN Ravi (18027), Flt Lt Gurupdes Singh Chauhan (18028) w.e.f. 19-08-91; Flt Lt Dinesh Kumar Gupta (18029) w.e.f. 20-08-91; Flt Lt Debrot Mukherji (18031) w.e.f. 22-08-91; Flt Lt Ramakrishnan Nanukuttan Nair (18033) w.e.f. 23-08-91 Flt Lt Balakrishnan Rajamma Balaraman (18034), Flt Lt Aneel Anthony (18035) w.e.f. 26-08-91; Jupinder Singh Makhni (18042) w.e.f. 28-08-91.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Flt Lt Antony Protius Dias (18037), Fg Offr T Jayasankar (18038), Flt Lt Sreebhavan Damodaran Nair Suresh (18039) w.e.f. 26-08-91.

The undermentioned officers are to be released from service on completion of their tenure of Short Service Commission (i.e.) 6 years from the date of commencement of training under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/PO3/(A)/474/DOIA/D (Air-III) dated 27 Mar 85 and Air HQ/22142/3SSCC/PO3(D)/2836/US/D (Air-III) dated 04 Dec 87

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Flt Lt KKS Ekambareswar Rao (18665), Flt Lt KVRK Raju (18666) w.e.f. 18 Aug 92.

Flt Lt G Gopakumar (18668) w.e.f. 23 Aug 92.

H B SHARMA,
Sqn Ldr
ADPO 3(D)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 7th December 1992

No. A-11041/1/92-Estt. I.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Ghosh, CSS Director as Addl. FA & Joint Secretary (Scale of pay : Rs. 5900—6700) in the Min. of Defence (Finance) w.e.f. the 1st December, 1992, until further orders by upgrading the post of Director held by him as a measure personal to him.

RAJINDER MOHAN,
Asstt. Financial Adviser (E)

The 4th December 1992

No. A-22012/2/92-Estt. I.—The President is pleased to appoint Km. Vandana Srivastava, IDAS as Director in the Finance Division of the Ministry of Defence against a vacant post for the period from 2nd December, 1992 to 13th March, 1996 or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER MOHAN,
Asstt. Financial Adviser (E)